
16.2 U3



राष्ट्रपिता



अहिंसा मेरे विश्वास का प्रथम सूत्र है, और साथ ही मेरे धर्म का अन्तिम सूत्र है।

—महात्मा गांधी



इस तरह [illegible] हमने की हैं मंज़िलें
गिर पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले।

यही तरीका है। कोई भी व्यक्ति, समुदाय अथवा राष्ट्र निजी अनुभव के बल पर ही प्रगति कर सकता है।

—जवाहरलाल नेहरू



दैनन्दिनी

१९५८ ई०

जन-सम्पर्क-निर्देशक, बिहार, द्वारा प्रकाशित

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना, द्वारा मुद्रित।

(मूल्य—१ रु० २५ न० पै०)

दिन-पत्री, १९५८ ई०

जनवरी

रविवार		५	१२	१९	२६
सोमवार		६	१३	२०	२७
मंगलवार		७	१४	२१	२८
बुधवार	१	८	१५	२२	२९
वृहस्पतिवार	२	९	१६	२३	३०
शुक्रवार	३	१०	१७	२४	३१
शनिवार	४	११	१८	२५	

फरवरी

रविवार		२	९	१६	२३
सोमवार		३	१०	१७	२४
मंगलवार		४	११	१८	२५
बुधवार		५	१२	१९	२६
वृहस्पतिवार		६	१३	२०	२७
शुक्रवार		७	१४	२१	२८
शनिवार	१	८	१५	२२	

मार्च

रविवार		२	९	१६	२३	३०
सोमवार		३	१०	१७	२४	३१
मंगलवार		४	११	१८	२५	
बुधवार		५	१२	१९	२६	
वृहस्पतिवार		६	१३	२०	२७	
शुक्रवार		७	१४	२१	२८	
शनिवार	१	८	१५	२२	२९	

अप्रील

रविवार		६	१३	२०	२७
सोमवार		७	१४	२१	२८
मंगलवार	१	८	१५	२२	२९
बुधवार	२	९	१६	२३	३०
वृहस्पतिवार	३	१०	१७	२४	
शुक्रवार	४	११	१८	२५	
शनिवार	५	१२	१९	२६	

मई

रविवार		४	११	१८	२५
सोमवार		५	१२	१९	२६
मंगलवार		६	१३	२०	२७
बुधवार		७	१४	२१	२८
वृहस्पतिवार	१	८	१५	२२	२९
शुक्रवार	२	९	१६	२३	३०
शनिवार	३	१०	१७	२४	३१

जून

रविवार	१	८	१५	२२	२९
सोमवार	२	९	१६	२३	३०
मंगलवार	३	१०	१७	२४	
बुधवार	४	११	१८	२५	
वृहस्पतिवार	५	१२	१९	२६	
शुक्रवार	६	१३	२०	२७	
शनिवार	७	१४	२१	२८	

दशहरा (दुर्गा और लक्ष्मी पूजा)		२० अक्तूबर से २७ अक्तूबर । सोमवार से सोमवार।
दिवाली	..	१० नवम्बर सोमवार
दावात-पूजा	..	१२ नवम्बर बुधवार
क्रिस्मस ईव	..	२४ दिसम्बर बुधवार
क्रिस्मस डे	..	२५ दिसम्बर गुरुवार
बंक-लेखा की अर्द्धवार्षिक बंदी		३१ दिसम्बर बुधवार

रामपुर से - मंझन का मधुमालती और
जायसीकृत पद्मावत 16वीं सदी
एक अज्ञात लेखक की - 'प्रेमकहानी' केवल दो पृष्ठ
हैदराबाद में प्राप्त - लिपि - 1223 हि० =
1808 ई०। - हाफी आर्टिस्ट से फोटोप्रिंट
प्राप्त करना है।
अब्दुल समद नामक ग्रंथकार मालिक
निवासी थे और पीर के साथी थे - बाद में
लौट. (बाद.) में रहने लगे। 'औरंगजेब - शाहजहां
के समकालीन थे इनकी रचना अप्रकाशित
है। हाफी आर्टिस्ट से निम्नलिखित ग्रन्थों
के अधिकृत फोटो-प्रिन्ट्स प्राप्त होंगे।
1 - पद्मावत, 2 - चन्दायन, 3 - उद्गावत,
4 - मृगावत।

धनबाद

डी॰ ए॰ भी॰ हाईस्कूल → श्री ठाकुरप्रसाद
(धनबाद) धनबाद

टेलीफोन-संख्या

नाम	संख्या
बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद	४६०१
बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन	२६[illegible]३२
आर्य प्रतिनिधि सभा	२६५४
घर -	सीटी - २६८
डा॰ राम	३३११
श्री पं॰ वासुदेव शास्त्री	सीटी ३३८
श्री शास्त्री जी	२६४०
	(२६ [illegible])
श्री नन्दकुमार जी, [illegible]	[illegible]
[illegible] शताब्द [illegible]	४८४५

१६२६ - ईस्ट इंडिया वाच कम्पनी

महत्वपूर्ण तिथियाँ

पता-ठिकाना

१- श्री [illegible], ग्रा० - [illegible], डा० - [illegible], जि० [illegible]।

1- श्री रामेश्वर पाण्डेय, रामाधार मठिया गंगा के किनारे। शिवप्रसाद पांडेय 'सुमति' के आत्मज।

2- श्री राघवशरण, विशेष भूमि अर्जन पदाधिकारी, कोशी योजना, फारबिसगंज, पूर्णिया।

3- सुरेशचन्द्र दूबे 'सरल'

वैयक्तिक स्मरणिका

घड़ी-संख्या ....

टेलीफोन-संख्या ४.६०१, २६५४, २६३३, ली: २६१

५२ [illegible] - श्री [illegible] जी

३६०५ (श्री [illegible] जी)

तार का पता .... ओरिएन्टल [illegible] [illegible] एग्रीकल्चर।

साइकिल-संख्या ३२०८ [illegible] ....

साइकिल लाइसेंस-संख्या..........................

मोटर गाड़ी-संख्या ....

मोटर गाड़ी लाइसेंस-संख्या..........................

पास बुक-संख्या ....

बंदूक-संख्या..........................

पौलिसी-संख्या ....

प्रीमियम देने की तिथि ....

जूते की नाप ....

मोजे की नाप.................................

टोपी की नाप ....

वजन ....

ऊंचाई ....

विवाह-तिथि ....

जन्म-तिथि ....

उधार ली गयीं वस्तुएं

तिथि	वस्तु	किससे

[illegible] के दिनांक ५-९-५६/८-९-५६
के आदेशानुसार

दिनांक ११-६-५८ को आदेश दिया गया
का
[illegible] गांधी का विरुद्ध - लेख में
प्रकाशित किया है।

दैनन्दिनी

बिहार-राज्य

राज्यपाल

श्री जाकिर हुसैन

राज्यपाल के सचिव

लेफ्टीनेंट कर्नल चैतन्य स्वरूप भटनागर

मंत्री गण

१. डॉ० श्रीकृष्ण सिंह—मुख्यमंत्री, नियुक्ति, राजनीति (परिवहन रहित), वित्त, उद्योग, खान और खनिज एवं कोसी; ४, किंग जार्ज एवेन्यू, पटना।

२. श्री दीप नारायण सिंह—सूचना, सिंचाई और विद्युत्; १९६, अशोक राज पथ, पटना।

३. श्री शाह मुहम्मद ओजैर मुनेमी—कारा, साहाय्य और पुनर्वास एवं परिवहन; २, टेलर रोड, पटना।

४. श्री भोला पासवान—आबकारी, जंगल तथा कल्याण; १, पोलो ग्राउन्ड रोड, पटना।

५. श्री विनोदानन्द झा—राजस्व (खान तथा खनिज रहित), ग्राम पंचायत एवं श्रम; ६, सरकुलर रोड, पटना।

६. श्री वीरचन्द पटेल—खाद्य, आपूर्त्ति, स्वास्थ्य एवं कृषि; ५, गार्डिनर रोड, पटना।

७. श्री जगत नारायण लाल—सहकारिता, पशुपालन, पशुचिकित्सा एवं विधि; २, स्ट्रैन्ड रोड, पटना।

८. श्री कुमार गंगानन्द सिंह—शिक्षा; १५५, छज्जूबाग, पटना।

९. श्री मकबूल अहमद—जनकार्य, लोकस्वास्थ्य अभियंत्रणा, गृहनिर्माण एवं स्वायत्त-शासन; १०, सरकुलर रोड, पटना।

उपमंत्री गण

१०. श्री अबुल अहद मोहम्मद नूर—खाद्य; १, सरपेन्टाइन रोड, पटना।

११. श्री केदार पाण्डेय—सामान्य प्रशासन, राजनीति, सिंचाई एवं विद्युत्; १०, सरपेन्टाइन रोड, पटना।

१२. श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—उद्योग, सामुदायिक योजना, एवं सूचना; ३७, हार्डिञ्ज रोड, पटना।

१३. श्री हृदय नारायण चौधरी—ग्रामपंचायत, सहकारिता, पशुपालन एवं पशुचिकित्सा; ३५-ए, हार्डिञ्ज रोड, पटना।

१४. श्री अम्बिका शरण सिंह—वित्त; ४, गार्डिनर रोड, पटना।

१५. श्री सहदेव महतो—जनकार्य एवं स्वायत्त-शासन; ११, सरकुलर रोड, पटना।

१६. श्री राधा गोविन्द प्रसाद—राजस्व, वन एवं धार्मिक न्यास; ७, हार्डिञ्ज रोड, पटना।

१७. श्री सैयद मोहम्मद अकिल—विधि एवं श्रम; उच्चपदाधिकारी आवास संख्या ६, बेली रोड, पटना।

१८. श्रीमती ज्योतिर्मयी देवी—कल्याण एवं स्वास्थ्य; उच्चपदाधिकारी आवास संख्या २, बेली रोड, पटना।

१९. श्री चन्द्रिका राम—कृषि; एम० एल० ए० फ्लैट नं० १३१, गार्डिनर रोड, पटना।

२०. श्री कृष्णकान्त सिंह—शिक्षा एवं आबकारी; ३, छज्जूबाग, पटना।

बिहार विधान-परिषद्

श्री श्यामा प्रसाद सिंह—सभापति
श्री रायब्रजराज कृष्ण—उप-सभापति
श्री श्रीचन्द्र लाल—सचिव

बिहार विधान सभा

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा—अध्यक्ष
श्री प्रभुनाथ सिंह—उपाध्यक्ष
श्री इनायतुर रहमान—सचिव

राजस्व पर्षद ✗

श्री नगेन्द्र भूषण बख्सी, आई० सी० एस०—सदस्य
श्री चेल्लामियर कल्याण रमण, आई० सी० एस०—अपर सदस्य।
श्री राजेश्वर प्रसाद, आई० ए० एस०—सचिव
श्री जफरुद्दीन अहमद—सचिव
श्री शंभूनाथ ओझा—अपर सदस्य तथा विशेष पदाधिकारी

कोशी-नियंत्रण पर्षद ✗

अध्यक्ष—डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, मुख्य मंत्री, बिहार
सदस्य—श्री दीप नारायण सिंह, सिंचाई, सूचना और विद्युत् मंत्री, बिहार।
" —श्री केदार पाण्डे, उपमंत्री, सिंचाई, बिहार।
" —श्री नि० ना० वाँचू, आई० सी० एस०, संयुक्त वित्त सचिव, भारत-सरकार।
" —श्री र० र० बहल, आई० सी० एस०, संयुक्त सचिव, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रणालय, भारत-सरकार।

„ —श्री कंवर सेइन, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् शक्ति आयोग।

„ —भैरव दत्त पाण्डेय, आई० सी० एस०, विकास-आयुक्त, बिहार।

„ —श्री अ० च० मल्होत्रा, मुख्य अभियन्ता, कोशी-योजना।

सचिव—श्री त्रिभुवन प्रसाद सिंह, आई० सी० एस०, मुख्य प्रशासक, कोशी-योजना।

सचिव गण

राजनीति एवं नियुक्ति विभाग

श्री मैसूर सुब्बाराव, आई० सी० एस०, मुख्य सचिव, राजनीति एवं नियुक्ति विभाग।

श्री उज्जवल कुमार घोष, आई० ए० एस०, अपर सचिव, राजनीति एवं नियुक्ति विभाग।

श्री वैद्यनाथ बाल सुब्रह्मण्यन्, आई० ए० एस०, उप-सचिव, नियुक्ति विभाग।

श्री नवल किशोर प्रसाद, आई० ए० एस०, उप-सचिव, राजनीति (विशेष) विभाग।

श्री पु० शकरन नायर अप्पु, आई० ए० एस०, अपर उप-सचिव, राजनीति एवं नियुक्ति विभाग (आरक्षी एवं सामान्य शाखाएं)।

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव, आई० ए० एस०, अपर उप-सचिव, नियुक्ति विभाग।

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह, विशेष पदाधिकारी और पदेन उप-सचिव, नियुक्ति विभाग।

श्री रामटहल सिंह, आई० ए० एस०, अपर उप-सचिव, राजनीति विभाग (विशेष शाखा)।

श्री क० रामानुजम्, आई० ए० एस०, अवर-सचिव, राजनीति (पुलिस) विभाग।

श्री अ० वैद्यनाथन्, आई० ए० एस०, अपर अवर-सचिव, नियुक्ति विभाग।

श्री अवधेश प्रसाद वक्शी, अपर अवर-सचिव, राजनीति विभाग (विशेष शाखा)।

श्री कैलाश बिहारी शर्मा, अपर अवर-सचिव, राजनीति एवं नियुक्ति विभाग।

श्री बसन्त कुमार दुबे, अपर अवर-सचिव, राजनीति विभाग (विशेष शाखा)।

श्री डेनिस विलियम पायर्स, अपर अवर-सचिव, राजनीति विभाग (पारपत्र शाखा)।

श्री रास बिहारी लाल, अपर अवर-सचिव, नियुक्ति विभाग।

मुख्य-मंत्री का सचिवालय

श्री रामचन्द्र सिन्हा, आई० ए० एस०, मुख्य मंत्री के सचिव।

निर्वाचन शाखा

श्री सैयद अख्तर अहसन रिजवी, आई० ए० एस०, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार तथा पदेन उप-सचिव, राजनीति एवं नियुक्ति विभाग।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, उप-मुख्य-निर्वाचन-पदाधिकारी-सह-अवर-सचिव।

नीति-प्रिय शाखा

श्री राजेश्वर लाल, आई० पी० एस०, कार्य विशेष पदाधिकारी तथा उप-सचिव नीति-प्रिय शाखा।

मंत्रिमंडल सचिवालय

श्री सजेन्द्र लाल सेन, अवर सचिव।

वित्त-विभाग

श्री सच्चिदानन्द सिंह, आई० ए० एस०, सचिव
श्री सचीन्द्रनाथ दत्त, आई० ए० एस०, संयुक्त सचिव
श्री हरनन्दन प्रसाद, आई० ए० एस०, उप-सचिव
श्री महबूब आलम, आई० ए० एस०, अपर उप-सचिव
श्री श्रीनिवास पाण्डे, आई० ए० एस०, अपर उप-सचिव
श्री चन्द्रिका प्रसाद सिन्हा, अवर-सचिव
श्री रामानन्द प्रसाद, अवर-सचिव
श्री स० अ० म० इशाक, अवर-सचिव
श्री विनयेन्द्र नाथ ऐकट, अवर-सचिव
श्री राम निवास सिंह, अवर-सचिव
श्री अनादिनाथ मजुमदार, आय-व्ययक पदाधिकारी
श्री मधुसूदन प्रसाद, अवर-सचिव

राजस्व विभाग

श्री नरेन्द्र पाल माथुर, आई० ए० एस०, सचिव
श्री मोहन चौधरी, आई० ए० एस०, अपर-सचिव
श्री सैयद मुहम्मद नकवी, आई० ए० एस०, उप-सचिव (१)
श्री उमेश्वर प्रसाद, उप-सचिव (२)
श्री जगन्नाथ प्रसाद, अवर-सचिव
श्री ईश्वरी प्रसाद, आई० ए० एस०, अपर अवर-सचिव

स्थानीय स्व-शासन विभाग

श्री भैरवनाथ रोहतगी, आई० ए० एस०, सचिव
श्री वेद प्रकाश काश्यप, आई० ए० एस०, अपर-सचिव
श्री अनवार करीम, आई० ए० एस०, उप-सचिव
श्री दुर्गादास सेन, अपर उप-सचिव
श्री यदुनन्दन प्रसाद, अवर-सचिव
श्री अनवार अली, अपर अवर-सचिव

श्रम-विभाग

श्री भागवत प्रसाद सिंह, आई० ए० एस०, सचिव
श्री सैयद इमाम रजा, अवर-सचिव
श्री उपेन्द्रनाथ मजुमदार, अपर अवर-सचिव

आपूर्त्ति और वाणिज्य विभाग

श्री मणि भूषण मुखर्जी, आई० ए० एस०, सचिव
श्री जगदीश मिश्र, उप-सचिव
श्री अमल कुमार दत्त, अपर अवर-सचिव

उद्योग एवं सहयोग विभाग

श्री ब्रजनन्दन सिंह, आई० ए० एस०, सचिव
श्री सीताराम सिंह, उप-सचिव
श्री कैलाशपति ओझा, उप-सचिव
श्री मुहम्मद अबल मोजफ्फर गिलानी, अपर अवर-सचिव।

कृषि एवं पशुपालन विभाग

श्री हरिनन्दन ठाकुर, आई० ए० एस०, सचिव
श्री विनोद कुमार, आई० ए० एस०, उप-सचिव
श्री गंगाधर मंडल, अपर-सचिव

शिक्षा विभाग

श्री कुरियां अब्राहम, आई० ए० एस०, सचिव
श्री नन्दलिवदेव राव जगन्नाथ राव, आई० ए० एस०, संयुक्त-सचिव।
श्री रामदत्त पाण्डेय, आई० ए० एस०, उप-सचिव
श्री विद्यानाथ ओझा, अवर-सचिव
श्री गजेन्द्र नारायण, अपर अवर-सचिव
श्री सिद्धेश्वर नाथ, अपर अवर-सचिव

विधि विभाग

श्री शिवचन्द्र प्रसाद, सचिव
श्री सरयू प्रसाद सिंह, उप-सचिव
श्री जितेन्द्र नारायण, अपर अवर-सचिव
श्री दुर्गा प्रसाद सिन्हा, अपर अवर-सचिव

श्री श्रीशचन्द लाला, अवर-सचिव
श्री चन्द्रशेखर झा, अपर अवर-सचिव

कल्याण विभाग

श्री रामेश्वर प्रसाद, आई० ए० एस०, सचिव
श्री शिवनारायण सिन्हा, उप-सचिव
श्री चन्द्रशेखर कुमार, अवर-सचिव
श्री कालेश्वर प्रसाद, अपर अवर-सचिव

लोक-निर्माण और सिंचाई विभाग

श्री रामसूचित मिश्र, आई० ए० एस०, सचिव
श्री चन्द्रमोहन दास, उप-सचिव
श्री सुरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती, आई० ए० एस०, उप-सचिव
श्री देव कृष्ण सहाय, अवर-सचिव
श्री सरोजेन्दु मुखर्जी, आई० ए० एस०, अवर-सचिव
श्री ठाकुर दास मेहता, अपर उप-सचिव

साहाय्य और पुनर्वासन विभाग

श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह, आई० ए० एस०, सचिव तथा निधिपाल, निष्क्रमणार्थी संपत्ति।
श्री केदार नाथ सिंह, साहाय्य उपायुक्त

विकास-आयुक्त का कार्य्यालय

श्री भैरव दत्त पाण्डे, आई० सी० एस०, विकास-आयुक्त
श्री राम सिंहासन पाण्डेय, आई० ए० एस०, संयुक्त विकास आयुक्त।
श्री प्रेम प्रकाश नैय्यर, आई० ए० एस०, उप-विकास आयुक्त।
श्री रमेश चन्द्र प्रसाद, अपर उप-विकास आयुक्त

श्री बगला कान्त दत्त, सचिव

कोशी योजना विभाग

श्री त्रिभुवन प्रसाद सिंह, आई० सी० एस०, मुख्य प्रशासक तथा सचिव।

श्री प्रकाशचन्द्र भगत, आई० ए० एस०, उप-मुख्य प्रशासक तथा संयुक्त सचिव।

श्री वैद्यनाथ प्रसाद श्रीवास्तव, उप-सचिव

श्री प्रमोद नारायण शर्म्मा, उप-प्रशासक तथा उप-भू-अर्जन निदेशक।

श्री विन्देश्वरी कुमार सिन्हा, अवर-सचिव

श्री राजेश्वर प्रसाद सिन्हा, अवर-सचिव

श्री मदन विहारी सहाय, प्रेस सम्पर्क अधिकारी

गृह निर्माण विभाग

श्री रामसिंहासन पाण्डे, आई० ए० एस०, सचिव
श्री मुनीलाल सिंह, आई० ए० एस०, उप-सचिव
श्री गिरिजादत्त पाण्डे, अवर-सचिव

प्रमण्डलों के आयुक्त (डिवीजनल कमिश्नर)

श्री श्रीधर वासुदेव सोहनी, आई० सी० एस०, पटना

श्री सुधेन्दु ज्योति मजुमदार, आई० सी० एस०, मुजफ्फरपुर।

श्री कृष्णस्वामी रमण, आई० सी० एस०, रांची

श्री पुदुस्सरी कोलाइकेल जयराम मेनन, आई० ए० एस०, भागलपुर।

साहाय्य आयुक्त

श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह, आई० सी० एस०

बिहार लोकसेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन)

श्री कोडागानालुर श्रीनिवास वेंकट रमण, आई० सी० एस० (निवृत), अध्यक्ष।
श्री मुहम्मद एहिया, सदस्य
श्री विश्वमोहन कुमार सिंह, सदस्य
श्री प्रधान सूर्य्यवर्त्ती प्रसाद, सचिव

उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट), पटना

माननीय श्री वैद्यनाथियर रामास्वामी, आई० सी० एस०, बैरिस्टर-एट-लॉ, प्रधान न्यायाधीश।
,, श्री ब्रह्मदेव प्रसाद जमुआर, बैरिस्टर-एट-लॉ, न्यायाधीश।
,, श्री वशिष्ठ नारायण राय, न्यायाधीश
,, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, न्यायाधीश
,, श्री खलील अहमद, बैरिस्टर-एट-लॉ, न्यायाधीश
,, श्री सतीशचन्द्र मिश्र, न्यायाधीश
,, श्री रतिकान्त चौधरी, न्यायाधीश
,, श्री कमला सहाय, बैरिस्टर-एट-लॉ, न्यायाधीश
,, श्री सैयद नकी इमाम, बैरिस्टर-एट-लॉ, न्यायाधीश।
,, श्री राजकिशोर प्रसाद, न्यायाधीश
,, श्री कन्हैया सिंह, न्यायाधीश
,, श्री हेमन्त कुमार चौधरी, न्यायाधीश
,, श्री कामेश्वर दयाल, न्यायाधीश
श्री अनन्त सिंह, निबन्धक

आरक्षी (पुलिस विभाग)

श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, आई० पी०, आरक्षी-महानिरीक्षक (पुलिस इंसपेक्टर-जेनरल), बिहार।

श्री शारदा प्रसाद वर्मा, आई० पी०, उप-आरक्षी-महा-निरीक्षक (डी० आई० जी०) (सी० आई० डी०), पटना।
श्री राम अखण्डलेश्वर प्रसाद सिन्हा, आई० पी०, उप-आरक्षी-निरीक्षक (घुड़सवार, सैनिक तथा प्रशिक्षण)।
श्री विभूति भूषण बनर्जी, आई० पी०, उप-आरक्षी-महानिरीक्षक (केन्द्रीय क्षेत्र), पटना।
श्री त्रिलोकनाथ, आई० पी०, उप-आरक्षी-महानिरीक्षक (दक्षिणी क्षेत्र), रांची।
श्री इन्दुभुषण बनर्जी, आई० पी०, उप-आरक्षी-महानिरीक्षक (पूर्वी क्षेत्र), भागलपुर।
श्री वैद्यनाथ मजुमदार, आई० पी०, उप-आरक्षी-महा-निरीक्षक (उत्तरी क्षेत्र), मुजफ्फरपुर।

आबकारी विभाग

श्री हरपति कंठ, आई० ए० एस०, मादककर-आयुक्त और निबंधन के महानिरीक्षक (इक्साइज-कमिश्नर ऐंड इन्सपेक्टर-जेनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन)।
श्री सैयद वदीउद्दीन, प्रति-आयुक्त (डिप्टी कमिश्नर), मुजफ्फरपुर।
श्री हीरून सेन गुप्ता, प्रति-आयुक्त (डिप्टी-कमिश्नर), राँची।

शिक्षा विभाग

श्री किशोरी प्रसाद सिंह, निदेशक (अवकाश में)
श्री फजलुर रहमान, निदेशक (स्थानापन्न)
श्री जगदीश नारायण सरकार, उप-निदेशक (सामान्य)
श्री बख्सी अगम प्रसाद सिंह, उप-निदेशक (बुनियादी)
श्री शुकदेव ठाकुर, उप-निदेशक (माध्यमिक)
श्री वैद्यनाथ पाण्डे, उप-निदेशक (प्राथमिक)

श्री वी० दयाल, उप-निदेशक (एन० सी० सी०)
कुमारी हंसदा आचार्जी, उप-निदेशिका (स्त्री-शिक्षा)

जन-स्वास्थ्य विभाग

डा० स० क० चटर्जी, निदेशक
डा० प० अ० सिंह, उप-निदेशक
डा० स० म० हसन, उप-निदेशक
डा० श्याम विहारी लाल, उप-निदेशक
डा० सत्यरंजन चटर्जी, उप-निदेशक

कारागार विभाग

श्री शिव प्रसाद सिंह, आई० ए० एस०, कारागार-महानिरीक्षक (इन्सपेक्टर-जेनरल ऑफ प्रिजन्स)।
श्री नुरूल हक, सह-महानिरीक्षक

सहयोग विभाग

श्री सैयद अबुल फजलिल अब्बास, आई० ए० एस०, निबंधक
श्री सिंहासनी प्रसाद, संयुक्त निबंधक
श्री उमाकान्त ठाकुर, संयुक्त निबंधक
श्री भुवनेश्वर प्रसाद, संयुक्त-निबंधक
श्री नरेशचन्द्र नारायण, उप-निबंधक
श्री श्यामा चरण राहा, उप-निबंधक

उद्योग विभाग

श्री अजित मजुमदार, आई० ए० एस०, निदेशक
श्री शिव राजदेव प्रसाद, आई० ए० एस०, संयुक्त-निदेशक।
श्री रामसेवक मंडल, आई० ए० एस०, अपर-निदेशक

जन-सम्पर्क विभाग

श्री रास बिहारी लाल, आई. ए. एस. निदेशक
श्री वागीश्वर प्रसाद सिन्हा, उप-निदेशक (मुख्यालय) तथा प्रधान सूचना अधिकारी।

अनुवादक विभाग

श्री रामलोचन शर्मा 'कण्टक', अनुवादक
श्री सत्यव्रत शर्मा 'सुजन', उप-अनुवादक

पटना विश्वविद्यालय

ले०-कर्नल डा० बलभद्र प्रसाद, उप-कुलपति
श्री रामचरित्र सिंह, कोषाध्यक्ष
श्री जगत नन्दन सहाय, कुल सचिव

बिहार विश्वविद्यालय

ले०-कर्नल डा० दुखन राम, उप-कुलपति
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष
श्री पिनाक पाणि राय चौधरी, कुल सचिव

बिहार विधान सभा

पदाधिकारी

श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, अध्यक्ष।
श्री प्रभुनाथ सिंह, उपाध्यक्ष।
श्री इनायतुर रहमान, सचिव।

सदस्य

श्री योगेन्द्र प्रसाद—मधुवनी (चम्पारण)।
श्री केदार पाण्डेय—१०, सरपेन्टाइन रोड (पटना)।
श्री नरसिंह बैठा—लछनौटा, डा० अमोलवा (चम्पारण)।
श्री [illegible] प्रसाद वर्मा—[illegible] (चम्पारण)।
श्री फजलुर रहमान—कोंधवलिया, डा० बगही (चम्पारण)।

श्री शुभ नारायण प्रसाद—धधवा, डा० दुधियावा (चम्पारण)।
श्रीमती केतकी देवी—रामपरवा, डा० वृन्दावन (चम्पारण)।
श्री जय नारायण प्रसाद—कुंजलाही, डा० खड़ा (चम्पारण)।
श्री जगन्नाथ प्रसाद 'स्वतंत्र'—बेतिया (चम्पारण)।
श्री राधा पाण्डेय—बन्धुवरवा, डा० अहिरवलिया (चम्पारण)।
श्री ब्रजनन्दन शर्मा—कचोरबनी, डा० आदापुर (चम्पारण)।
श्रीमती शकुंतला देवी अग्रवाल—मोतिहारी (चम्पारण)।
श्री विगू राम—मोतिहारी (चम्पारण)।
श्री मंगल प्रसाद यादव—मठिया, डा० रामनगर (चम्पारण)।
श्री मसुदुर रहमान—भंडार, डा० भंडार (चम्पारण)।
श्री विभीषण कुमार—कपूर पकड़ी (चम्पारण)।
श्री रूपलाल राय—इमलिया, डा० मेहसी (चम्पारण)।
श्रीमती प्रभावती गुप्ता—केसरिया (चम्पारण)।
श्री गंगानाथ मिश्र—महारानी, डा० दामोदरपुर (चम्पारण)।
श्रीमती पार्वती देवी—ममरखा, डा० मलाही (चम्पारण)।
श्री ध्रुवनारायण मणि त्रिपाठी—नगदाहा, डा० सिरवी बाजार (चम्पारण)।
श्री अब्दुल गफूर—सरैया अख्तियार, डा० धरमपरसा (सारन)।
श्री कमला राय—कररिया (सारन)।
श्री वाचस्पति शर्मा—भोपतपुर, डा० कुचायकोट (सारन)।

श्री रामवली पाण्डेय—गोपालगंज (सारन)।

श्री चन्द्रिका राम—फ्लैट नं० १३१, गार्डिनर रोड (पटना)।

श्री जनार्दन सिंह—रघुआ, डा० हथुआ (सारन)।

श्री गदाधर प्रसाद श्रीवास्तव—पचलखी (सारन)।

श्री जब्बार हुसैन—हुसैनगंज (सारन)।

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह—परसुरामपुर, डा० शिवपुर सकरा (सारन)।

श्री रामबसावन राम—मुरारपट्टी, डा० किलपुर (सारन)।

श्री रामदेव सिंह—सरौत, डा० भागर (सारन)।

श्री गिरीश तिवारी—ताजपुर, डा० फुलवरिया (सारन)।

श्रीमती अनुसूया देवी—धोबौलिया, डा० महराजगंज (सारन)।

श्री कृष्णकान्त सिंह—३, छज्जूबाग, पटना।

श्री सभापति सिंह—हरईपुर, डा० बैजूबरहोगा (सारन)।

श्री कमरुल हक—बभनवारा, डा० दीनदयालपुर (सारन)।

श्री त्रिविक्रम देव नारायण सिंह—रेवतिथ (सारन)।

श्री मृत्युंजय सिंह—रामपुर रुद्र (सारन)।

श्री कृष्ण माधव प्रसाद सिंह—धरमपुर ताफर, डा० अमनौर (सारन)।

श्री देवी लालजी यादव—रामचक, डा० मिर्जापुर (सारन)।

श्रीमती उमा पाण्डेय—इब्राहिमपुर, डा० बनियापुर (सारन)।

श्री प्रभुनाथ सिंह—रोड संख्या ८, आर० ब्लौक (पटना)।

श्री जगलाल चौधरी—डा० गरखा (सारन)।

श्री राम जयपाल सिंह यादव—तिलकैवाद, डा० दोरीगंज (सारन)।

श्री दारोगा प्रसाद राय— डा० बजहिया (सारन)।
श्री राम विनोद सिंह—दिघवारा (सारन)।
श्री दीपनारायण सिंह—१९६, अशोक राजपथ, पटना।
श्री हरिवंश नारायण सिंह—चेचर (मुजफ्फरपुर)।
श्रीमती बनारस देवी—मधुरापुर, डा० विदूपुर (मुजफ्फरपुर)।
श्री मंजूर अहसन अजाजी—अजाजीनगर, डा० दिहुली बुजुर्ग (मुजफ्फरपुर)।
श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा—प्रेसीडेंट चैम्बर ५, गार्डिनर रोड (पटना)।
श्री शिवनन्दन राम—चमरुआ, डा० मरवन (मुजफ्फरपुर)।
श्री बीरचन्द पटेल—५, गार्डिनर रोड, पटना।
श्री ललितेश्वर प्रसाद शाही—३७, हार्डिंज रोड, पटना।
श्री नवल किशोर सिंह—धरफरी (मुजफ्फरपुर)।
श्री चन्दू राम—पोखरैरा, डा० गिद्धा (मुजफ्फरपुर)।
श्री रामचन्द्र प्रसाद शाही—बरुराज (मुजफ्फरपुर)।
श्री यमुना प्रसाद त्रिपाठी—धमौली रामनाथ कयारपुरा (मुजफ्फरपुर)।
श्री कपिलदेव नारायण सिंह—सिलौत (मुजफ्फरपुर)।
श्री रामगुलाम चौधरी—मुजफ्फरपुर।
श्री महामाया प्रसाद सिंह—पटेढ़ी (सारन)।
श्री रामजनम ओझा—चौमुख, डा० धरभारा (मुजफ्फरपुर)।
श्री नीतीश्वर प्रसाद सिंह—मणिपुर दहिला (मुजफ्फरपुर)।
श्री रामवृक्ष बेनीपुरी—बेनीपुर, डा० भरथुआ (मुजफ्फरपुर)।

श्री जनक सिंह—टेंगराही (मुजफ्फरपुर)।

श्री त्रिवेणी प्रसाद सिंह—ठाहर, डा० रुनीसैदपुर (मुजफ्फरपुर)।
श्री रामानन्द सिंह—छतौनी (मुजफ्फरपुर)।
ठाकुर गिरिजानन्दन सिंह—महुअरिआ, डा० शिवहर (मुजफ्फरपुर)।
श्री राम स्वरूप राम—मोहनी मंडल (मुजफ्फरपुर)।
श्री रामसेवक शरण—चकमहिला, डा० सीतामढ़ी (मुजफ्फरपुर)।
श्री कुलदीप नारायण यादव—गिरभिसानी (मुजफ्फरपुर)।
श्री सिंहेश्वर राय—जयनगर, डा० वानरझूला (मुजफ्फरपुर)।
श्री महेश्वर प्रसाद नारायण सिंह—सुरसंड (मुजफ्फरपुर)।
श्रीमती सुदामा चौधरी—रसलपुर जिलानी (मुजफ्फरपुर)।
श्री देवेन्द्र झा—पुपरी, डा० जनकपुर रोड (मुजफ्फरपुर)।
श्री शेख ताहिर हुसैन—सहनौल, डा० वेनीपट्टी (दरभंगा)।
श्री छोटे प्रसाद सिंह—विष्णुपुर (दरभंगा)।
श्री शुभचन्द्र मिश्र—धकजरी (दरभंगा)।
श्री देवनारायण यादव—पटलगढ़, डा० कुमरखाट (दरभंगा)।
श्री राम कृष्ण महतो—भगवतीपुर (दरभंगा)।
श्री शकूर अहमद—सुक्की (दरभंगा)।
श्री रमाकान्त झा—सोहराई, डा० पण्डौल (दरभंगा)।
श्री अर्जुन प्रसाद सिंह—खनगांव, डा० रामपट्टी (दरभंगा)।
श्री देवचन्द्र झा—वाली मेहठ, डा० कोठिया (दरभंगा)।
श्रीमती रामदुलारी शास्त्री—मधुबनी (दरभंगा)।
श्री रसिकलाल यादव—बरही, डा० फुलपरास (दरभंगा)।
श्री राधानन्दन झा—लखनौर (दरभंगा)।

श्री जयनारायण झा "विनीत"—नवादा, डा० बहेड़ा (दरभंगा)।
श्रीमती कृष्णा देवी—परतापट्टी, डा० हथौड़ी (दरभंगा)।
श्री महेशकान्त शर्मा—नेहरा (दरभंगा)।
श्री हरिनाथ मिश्र—कोइलख, मधुबनी (दरभंगा)।
श्री हृदयनारायण चौधरी—३५-ए, हार्डिञ्ज रोड, पटना।
श्री शेख सईदुल हक—पटवन (दरभंगा)।
श्री जानकी रमण प्रसाद मिश्र—आनन्दपुर, डा० जगदीशपुर (दरभंगा)।
श्री बबुए लाल महतो—दरभंगा।
श्री यदुनन्दन सहाय—धुरलख भुइधारा (दरभंगा)।
श्री सहदेव महतो—११, सरकुलर रोड, पटना।
श्री मिश्री सिंह—भगवानपुर चकसेखो, डा० दलसिंहसराय (दरभंगा)।
श्री बालेश्वर राम—समरथा, डा० कल्याणपुर (दरभंगा)।
श्रीमती शांति देवी—रामचन्द्रपुर दशरा (दरभंगा)।
श्री कर्पूरी ठाकुर—ताजपुर (दरभंगा)।
श्रीमती राम सुकुमारी देवी—हरपुर महमदा (दरभंगा)।
श्री सुन्दर सिंह—मुक्तापुर (दरभंगा)।
श्री महाबीर राउत—हनुमाननगर, डा० भरवारी (दरभंगा)।
श्री ब्रजमोहन प्रसाद सिंह—सुंभा डेवढ़ी (दरभंगा)।
श्रीमती श्याम कुमारी—बलभद्रपुर, डा० लहेरिया-सराय (दरभंगा)।
श्री परमेश्वर कुमार—टाढ़ी, डा० भेलाही (सहरसा)।
श्री वैद्यनाथ मेहता—कमालपुर, डा० डगमारा (सहरसा)।
श्री खूबलाल महतो—दहरवा, डा० गनपतगंज (सहरसा)।
श्री योगेश्वर झा—मोहम्मदगंज [illegible], डा० मोहम्मद-गंज (सहरसा)।

श्री तुलमोहन राम—सरुनी, डा० महिजी (सहरसा)।
श्री शिवनन्दन प्रसाद मंडल—रानीपट्टी (सहरसा)।
श्री भूपेन्द्रनारायण मंडल—मधेपुरा (सहरसा)।
श्रीमती विश्वेश्वरी देवी—पटोरी, डा० पचगछिया (सहरसा)।
श्री उपेन्द्र नारायण सिंह—सहसौल (सहरसा)।
श्री योगेश्वर हाजरा—बथनाहा, डा० सहसौल (सहरसा)।
श्री यदुनन्दन झा—सिगहन, डा० भागीपुर (सहरसा)।
श्री रामनारायण मंडल—मधुबनी (पूर्णिया)।
श्री शीतल प्रसाद गुप्त—फारबिसगंज (पूर्णिया)।
श्री डूमर लाल बैठा—फारबिसगंज (पूर्णिया)।
श्री जियाउर रहमान—चंदरडी (पूर्णिया)।
श्रीमती शान्ति देवी—फारबिसगंज (पूर्णिया)।
श्री लखनलाल कपूर—किशनगंज (पूर्णिया)।
श्री अब्दुल हयात—किशनगंज (पूर्णिया)।
श्री मुहम्मद इसमाइल—हफ़निया (पूर्णिया)।
श्री कमलदेव नारायण सिंह—पूर्णिया।
श्री लक्ष्मी नारायण सुधांशु—रुपसपुर (पूर्णिया)।
श्री भोला शास्त्री पासवान—१, पोलो रोड, पटना।
श्री ब्रज बिहारी सिंह—भौआपरबल, डा० भौआडेवढ़ी (पूर्णिया)।
श्री बासुदेव प्रसाद सिंह—बारीनगर, डा० गुरुबाजार (पूर्णिया)।
श्रीमती पार्वती देवी—कटिहार (पूर्णिया)।
श्री सुखदेव नारायण सिंह—डूमर, डा० पोठिया (पूर्णिया)।
श्री बाबूलाल मांझी—सौरिया, डा० सोनैली (पूर्णिया)।
श्री मोहिउद्दीन मोख्तार—छगड़ा, डा० आदापुर (पूर्णिया)।
श्री अबुल अहद मोहम्मद नूर—१, सरपेन्टाइन रोड, पटना।

श्री विनोदानन्द झा—९, सरकुलर रोड, पटना।
श्री जेठा किस्कू—हरिनकोल, डा० तलझारी (संथाल परगना)।
श्री बाबूलाल टुडु—बरमसिया, डा० बड़हैत (संथाल परगना)।
श्री रामचरन किस्कू—तालपहाड़ी, डा० हिरनपुर (संथाल परगना)।
श्रीमती रानी ज्योतिर्मयी देवी—पाकुर (संथाल परगना)।
श्री जितू किस्कू—धनुकपूजा, डा० पाकुर (संथाल परगना)।
श्री सुपाइ मुरमू—बेनगरिया (संथाल परगना)।
श्री उमेश्वर प्रसाद—घाट रसिकपुर, डा० दुमका (संथाल परगना)।
श्री बाबूलाल मराण्डी—सिउलीबारी, डा० मिहिजाम (संथाल परगना)।
श्री शत्रुघ्न बेसरा—मधुआ, डा० दखिन बहाल (संथाल परगना)।
श्री बद्री नारायण सिंह—बभनगामा (संथाल परगना)।
श्रीमती शैलबाला राय—देवघर (संथाल परगना)।
श्री मंगूलाल दास—मधुपुर (संथाल परगना)।
श्री सनाथ राउत—लीलाटारी, डा० लकरापहाड़ी (संथाल परगना)।
श्री बेन्जामिन हंसदा—धरमूडीह, डा० गोड्डा (संथाल परगना)।
श्री सुखू मुरमू—मिलन पहाड़ी, डा० काठीकुंड (संथाल परगना)।
श्री मणिलाल यादव—करहरियामल, डा० सरौनी बाजार (संथाल परगना)।
श्री [illegible] हेम्ब्रम—[illegible], डा० गोड्डा (संथाल परगना)।

श्री महेन्द्र महतो—[illegible], डा० [illegible] [illegible]पुर (संथाल परगना)।

श्री रामजनम महतो—भागलपुर।

श्री सैय्यद मकबूल अहमद—१०, सरकुलर रोड, पटना।

श्री भोलानाथ दास—बेलथु, डा० हरपुर (भागलपुर)।

श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल—नया बाजार, भागलपुर।

श्री मणिराम सिंह—सईदपुर (भागलपुर)।

श्री प्रभुनारायण राय—गौरीपुर, डा० बभनगावां (भागलपुर)।

श्रीमती सरस्वती देवी—तिलकपुर (भागलपुर)।

श्री शीतल प्रसाद भगत—बनहारा, डा० अमरपुर (भागलपुर)।

श्री मौलवी समीनुद्दीन—चलना, डा० अहिरो (भागलपुर)।

श्रीमती विन्ध्यवासिनी देवी—मन्दार विद्यापीठ (भागलपुर)।

श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—पंजवारा (भागलपुर)।

श्री पीरु मांझी—सिमरा, डा० बौंसी (भागलपुर)।

श्री चन्द्रशेखर सिंह—मल्लेपुर (मुंगेर)।

श्री भागवत मुरमू—मटिया (मुंगेर)।

श्री हरि प्रसाद शर्मा—सिकन्दरा (मुंगेर)।

श्री भोला मांझी—खैरमा, डा० जमुई (मुंगेर)।

श्री श्रीकृष्ण सिंह—४, किंग जॉर्ज एवेन्यू (पटना)।

श्रीमती लीला देवी—नौगढ़ी टोला चरवन (मुंगेर)।

श्री कपिलदेव सिंह—बरहिया (मुंगेर)।

श्री कार्यानन्द शर्मा—सूरजगढ़ (मुंगेर)।

श्री बासुकीनाथ राय—सोण्डिहा, डा० तारापुर (मुंगेर)।

श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह—खड़गपुर बाजार, डा० हवेली खड़गपुर (मुंगेर)।

श्री निरापद मुखर्जी—मुंगेर।

श्री जोगेन्द्र महतो—परिया, डा० बरियारपुर (मुंगेर) ।
श्रीमती लक्ष्मी देवी—खुर्द डुमरिया, डा० कवेला (मुंगेर) ।
श्री घनश्याम सिंह—बोरना, टोला देवका, डा० चौथम (मुंगेर) ।
श्री चौधरी मोहम्मद सलाहउद्दीन—सिमरी बख्तियारपुर (मुंगेर) ।
श्री आजाद केदार नारायण सिंह—सोन्हौली, डा० खगड़िया (मुंगेर) ।
श्री मिश्री सदा—सोनिहार, डा० बखरी बाजार (मुंगेर) ।
श्री ब्रह्मदेव नारायण सिंह—रशीदपुर (सदानन्दपुर) डा० लखमिनिया (मुंगेर) ।
श्री सरयू प्रसाद सिंह—बेगूसराय (मुंगेर) ।
श्री मेदनी पासवान—पोखरिया, डा० बेगूसराय (मुंगेर) ।
श्री हरिहर महतो—अमरडीह, डा० अमारी (मुंगेर) ।
श्री रामचरित्र सिंह—बीहट (मुंगेर) ।
श्री वैद्यनाथ प्रसाद सिंह—रुदौली (मुंगेर) ।
श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह—बिन्द (पटना) ।
श्री जगदीश नारायण सिंह—हाथीदह, मोकामा (पटना) ।
श्री राम यतन सिंह—रूपस, बाढ़ (पटना) ।
श्री शिव महादेव प्रसाद—नाथपुर, फतुहा (पटना) ।
श्री केशव प्रसाद—रसलपुर, डा० फतुहा (पटना) ।
श्री सैयद मुहम्मद अकिल—उच्चपदाधिकारी आवास संख्या ६, बेली रोड, पटना ।
श्री गिरिवरधारी सिंह—लोदीपुर, डा० कसियावां (पटना) ।
श्री श्यामसुन्दर प्रसाद—राजगृह (पटना) ।
श्री बलदेव प्रसाद—नेरुत (पटना) ।
श्री देवगन प्रसाद सिंह—सैदानपुर, डा० हिलसा (पटना) ।
श्री लाल सिंह त्यागी—गोमहर, डा० अंगारी (पटना) ।
श्री नवलकिशोर सिंह—[illegible], डा० [illegible] (पटना) ।

श्रीमती सरस्वती चौधरी—जयहिन्दपुर, डा० पुनपुन (पटना)।

श्री रामखेलावन सिंह—इसमाइलपुर ढिबरा, डा० सोरामपुर (पटना)।

श्री बद्रीनाथ वर्मा—पटना।

श्रीमती जहरा अहमद—खाजेकलां (पटना सिटी)।

श्री रामशरण साव—बाकरगंज (पटना-४)।

श्री जगत नारायण लाल—२, स्ट्रैन्ड रोड, पटना।

श्री श्रीभगवान सिंह—जयराखन टोला (पटना)।

श्रीमती मनोरमा देवी—बोरिंग रोड, पटना-१।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा—पुरुषोत्तमपुर पैनाठी, डा० बहपुरा (पटना)।

श्री झमन प्रसाद—आरा (शाहाबाद)।

श्री रंगबहादुर प्रसाद—आरा (शाहाबाद)।

श्री अम्बिका सिंह—४, गार्डिनर रोड (पटना)।

श्री रामानन्द तिवारी—रामदेहरा, डा० बेनवलिया (शाहाबाद)।

श्री ललन प्रसाद सिंह—सुहिया (शाहाबाद)।

श्री गंगा प्रसाद सिंह—डुमरी (शाहाबाद)।

श्री राजाराम आर्य—गांव ढोबछआ, डा० सिकरौल लौक (शाहाबाद)।

श्री शिवकुमार ठाकुर—सिविल लाइन्स, बक्सर (शाहाबाद)।

श्री दशरथ तिवारी—भरिगावां, डा० रामगढ़ (शाहाबाद)।

श्री बद्री सिंह—पिपरिया (शाहाबाद)।

श्री अलीवारिस खां—जगदीशपुर (शाहाबाद)।

श्री दुलारचन्द राम—कोइलवर (शाहाबाद)।

श्री विपिन बिहारी सिंह—तिलौथू (शाहाबाद)।

श्री रामाधार दुसाध—दरिगांव (शाहाबाद)।

श्री बसावन सिंह—डालमियानगर (शाहाबाद)।

श्री जगदीश प्रसाद—नासरीगंज (शाहाबाद)।

श्री रामअशीश सिंह—धनेज (शाहाबाद)।
श्रीमती मनोरमा पाण्डेय—ससराम (शाहाबाद)।
श्री कृष्ण राज सिंह—सूरजपूरा (शाहाबाद)।
श्रीमती सुमित्रा देवी—मसूरी, डा० कहतू मसूरी (शाहाबाद)।
श्री नगीना दुसाध—बरौली, डा० पीरो (शाहाबाद)।
श्री शिवपूजन राय—जमुआवां (शाहाबाद)।
श्री बुधन मेहता—सिपाह, डा० अरवल (गया)।
श्री कामेश्वर शर्मा—गोआवां (गया)।
श्री मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह—लारी (गया)।
श्री फिदा हुसैन—जहानाबाद (गया)।
श्री महावीर चौधरी—कुरवा, डा० खिजिरसराय (गया)।
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा—मुगांव (गया):
श्री रामेश्वर मांझी—ककरिया, डा० मखदुमपुर (गया)।
श्री अहमद सईद कादरी—कारा (गया)।
रिक्त।
श्री देवधारी राम—अरई (गया)।
श्री प्रियव्रत नारायण सिंह—औरंगाबाद (गया)।
श्री सरयू प्रसाद सिंह—औरंगाबाद (गया)।
श्री अम्बिका प्रसाद सिंह—४, गार्डिनर रोड (पटना)।
श्री मोहम्मद शाहजहां—मारूफगंज (गया)।
श्री श्रीधर नारायण—अदलपुर, डा० भदेया (गया)।
श्रीमती शांति देवी—मोचरिम (गया)।
श्री गनौरी प्रसाद सिंह—मई, डा० खिजिरसराय (गया)।
सरदार मोहम्मद लतीफुर रहमान—नगमतिया हाउस, गया।
श्री हरदेव सिंह—रकसिया, डा० टेकारी (गया)।
श्री शिवरतन सिंह—जेठियन (गया)।
श्रीमती राजकुमारी देवी—सुलतानपुर, डा० खिजिरसराय (गया)।

श्री मंजूर अहमद—नवादा (गया)।

श्री रामकिशुन सिंह—सिमरी, डा० वारसलीगंज (गया)।
श्री चेतूराम—डेल्हुआ, डा० गोविन्दपुर (गया)।
श्री रामस्वरूप प्रसाद यादव—झिकटौरा, डा० सिसवां (गया)।
श्री नागेश्वर राय—मरगोडा, डा० जवाहरनगर (हजारीवाग)।
श्री गोपाल रविदास—जगमनरायडीह, डा० राज धनवार (हजारीवाग)।
श्री इन्द्र नारायण सिंह—गांव नौडीहा (हजारीवाग)।
श्री कामाख्या नारायण सिंह—पद्मा (हजारीवाग)।
श्री हेमलाल प्रगनैत—नगरी (हजारीवाग)।
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद सिंह—हजारीवाग।
श्री कैलाशपति सिंह—कसतूरी खाप (हजारीवाग)।
श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—वड़ा वाजार (हजारीवाग)।
डाक्टर जी० पी० त्रिपाठी—झुमरी तिलैया (हजारीवाग)।
श्री नन्द किशोर सिंह—लोरम, डा० इटखोरी (हजारीवाग)।
श्री शालिग्राम सिंह—हिरिंग, डा० हंटरगंज (हजारीवाग)।
श्रीमती शशांक मंजरी—पद्मा (हजारीवाग)।
श्री वसन्त नारायण सिंह—राज वंगला (हजारीवाग)।
श्री मोतीराम—करियटपुर, डा० ईचाक (हजारीवाग)।
श्री तारा प्रसाद वक्शी—लोअर वडम वाजार, हजारीवाग।
श्री रामेश्वर मांझी—पोंडा, डा० कसमर (हजारीवाग)।
श्रीमती मनोरमा सिंह—नागरीकोला, डा० सिजुआ (धनवाद)।
श्री रामलाल चमार—छाताटांड़ वाजार, डा० कुसुंडा (धनवाद)।
श्री पुरुषोत्तम चौहान—झरिया (धनवाद)।

श्री राम नारायण शर्मा—झरिया (धनवाद)।

श्री लक्ष्मी नारायण मांझी--गुआकोला, डा० ओझनडीह कटनिया (धनबाद)।
श्री हरदयाल शर्मा—चिकसिया, डा० चास (धनवाद)।
श्री रामचन्द्र प्रसाद शर्मा—सलनपुर (धनवाद)।
श्री शिशिर कुमार महतो—बलियागुरी (सिंहभूम)।
श्री श्यामचरन मुरमू—पौरा, डा० घाटशिला (सिंहभूम)।
श्री सुपाइ सोरेन—घूरा, डा० राजनगर (सिंहभूम)।
श्री केदार दास—३३, सरकार विल्डिग, साकची, जमशेदपुर।
श्री बी० जी० गोपाल--१८-के० रोड, जमशेदपुर।
श्री आदित्य प्रताप देव सिंह—सरायकेला (सिंहभूम)।
श्री सुखदेव मांझी—पोटका, डा० चक्रधरपुर (सिंहभूम)।
श्री सनातन समद—तेनपारा, डा० कटवनी (सिंहभूम)।
श्री सरन वालमुच—चाईवासा।
श्री शुभनाथ देवगम—दुम्वीसद, डा० चाईबासा (सिंहभूम)।
श्री श्यामल कुमार पसारी—चाईवासा (सिंहभूम)।
श्री हरिचरन सोय—गोपीडीह, डा० अमदा (सिंहभूम)।
श्री धनंजय महतो—गुंडा, डा० नीमडीह (सिंहभूम)।
श्री यतीन्द्रनाथ रजक—चलियामा, डा० नीमडीह (सिंहभूम)।
श्री धानसिंह मुंडा—वरलंगा, डा०सरजामडीह तमार (रांची)।
श्री भोलानाथ भगत—सिल्ली (रांची)।
श्री जगन्नाथ महतो—कथरटोली (रांची)।
श्री रामरतन राम—हिन्दपीरी (रांची)।
श्री चिन्तामणि शरण नाथ शाह देव—रातू (रांची)।
श्री बीर सिंह मुंडा—चरीद, डा० मुरहू (रांची)।
श्री जूलियस मुंडा—सिमदेगा (रांची)।
श्री सुशील [illegible] (रांची)।

श्री मार्शल कुल्लू—कोबंग, डा० तमरा (रांची)।

श्री फाबियानुस ओरांव—चैनपुर (रांची)।
श्री सुकरा ओरांव—पट्टी, डा० टोटो (रांची)।
श्री कृपा ओरांव—कासीटोली, डा० टोटो (रांची)।
श्री प्रीतम कुजुर—जरिया, डा० लोहरदग्गा (रांची)।
श्री रामविलास प्रसाद—लोहरदग्गा (रांची)।
श्री इग्नेस कुजुर—कुम्हारटोली (रांची)।
श्री लाल जग्द्धात्री नाथ सहदेव—कामता, डा० चंदवा (पलामू)।
श्री जौन मुंजनी—अमवाटोली, डा० महुआडांर (पलामू)।
श्री उमेश्वरी चरण—डाल्टेनगंज (पलामू)।
श्रीमती राजेश्वरी सरोज दास—अवादगंज, डा० डाल्टेनगंज (पलामू)।
श्री यदुनन्दन तिवारी—अटावाला (पलामू)।
श्री रामदेनी चमार—वभंडी (पलामू)।
श्री राजकिशोर सिंह—बभंडीह, डा० हरिहरगंज (पलामू)।
श्री रामकृष्ण राम—अररुआ खुर्द, डा० हरिहरगंज (पलामू)।
श्रीमती एल्सी औगीयर—क्लब कौटेज (रांची)।

बिहार विधान परिषद्

पदाधिकारी

श्री श्यामा प्रसाद सिंह सभापति—६, सरकुलर रोड, पटना।
श्री राय ब्रजराज कृष्ण, उपसभापति—पटना सिटी।
श्रीं चन्द्रलाल, सचिव—माल रोड, पटना।

सदस्य

श्री कृष्ण बहादुर—भट्टाचार्य रोड (पटना-१)।
श्री सिंहेश्वरी प्रसाद—कमदकुआं, कांग्रेस मैदान (पटना)।
श्री सांवलिया विहारी लाल वर्मा—सीतामढ़ी (मुजफ्फरपुर)।
श्री लक्ष्मी नाथ झा—मगरौरी (दरभंगा)।
श्री रावणेश्वर मिश्र—आदमपुर, भागलपुर।

श्री अनिल कुमार सेन—साकची, जमशेदपुर।
श्री जगदीश शर्मा—पुंडारक (पटना)।
श्री मथुरा प्रसाद दूबे—ब्राह्मण टोली (मुजफ्फरपुर)।
श्री बिन्ध्येश्वर मिश्र—सुलतानगंज (भागलपुर)।
श्री हरगौरी तिवारी—बी० पी० हाई स्कूल, बेगूसराय (मुंगेर)।
श्री महेन्द्र प्रसाद—खूंटी (रांची)।
श्री शशांक शेखर घोष—झालदा (मानभूम)।
श्री देव शरण सिंह—बाढ़ (पटना)।
श्री महादेवनन्द गीर—आरा।
श्री राम विलास शर्मा—पेमा, डा० जैतिया (गया)।
श्री रितलाल प्रसाद वर्मा—मोरासपुर, डा० बिहारशरीफ (पटना)।
श्री विष्णु शंकर—आरा।
श्री मथुरा प्रसाद सिंह—कुशाहन, डा० सिरदल्ला (गया)।
श्री ब्रजेन्द्र बहादुर सिंह—दौलतगंज (छपरा)।
श्री कुमार कल्याण लाल—दरभंगा।
श्री लक्ष्मीकान्त झा—दरभंगा।
श्री ब्रजबिहारी प्रसाद—मुजफ्फरपुर।
श्री हरि शंकर प्रसाद—दरभंगा।
श्री श्रीनिवास नारायण सिंह—चैनपुर (सारन)।
श्री वीरनारायण चन्द—पूर्णिया।
श्री जागेश्वर मंडल—भीखनपुर, डा० कटहरा (भागलपुर)।
श्री सागर मोहन पाठक—डुमरिया (संथाल परगना)।
श्री जमुना प्रसाद सिंह—मसौढ़ी, डा० जमुई (मुंगेर)।
श्री मायानन्द ठाकुर—बलुआ, डा० पलासी (पूर्णिया)।
श्री कुदरतुल्लाह—मधेपुरा, डा० मधेपुरा (सहरसा)।
श्री आर० नरसिंह राव—चक्रधरपुर (सिंहभूम)।
श्री राम प्रकाश लाल—बोड्म बाजार (हजारीबाग)।
श्री अजीत प्रसाद सिंह देव—काशीपुर, डा० पंचकोट राज (मानभूम)।
श्री ब्रज मोहन अग्रवाल—धनसार (धनबाद)।

श्री सुबोध कुमार सेन—चाईबासा (सिंहभूम)।
श्री हरिकृष्ण लाल—लोहरदगा (रांची)।
श्री अबुल हयात चांद—राही, डा० विक्रम (पटना)।
श्री सैयद अमीन अहमद—ब्रजकिशोर पथ (पटना)।
श्री बसन्त चन्द्र घोष—पटना हाईकोर्ट (पटना)।
श्री कुमार गंगानन्द सिंह—श्रीनगर (पूर्णिया)।
श्री गौरीशंकर डालमिया—जसीडीह (संथाल परगना)।
श्रीमती राम प्यारी देवी—कांग्रेस नगर (पटना-३)।
श्री हबीबुल हक—दरियागंज, डा० बांकीपुर (पटना)।
श्री बरियार हेम्ब्रोम—सराईडाहा, डा० माहुल पहाड़ी (संथाल परगना)।
श्री जाफर इमाम—दरजी टोला, डा० बांकीपुर; पटना-४।
श्री जीतू लाल—पटना सिटी।
रिक्त।
श्री नूरुल्लाह—मुंगेर।
श्री राधा गोविन्द प्रसाद—७, हार्डिञ्ज रोड (पटना)।
श्री शाह ओजैर मुनेमी—२, टेलर रोड (पटना)।
श्रीमती अभिरामा देवी—नयाटोला, भीखनपुर (भागलपुर)।
श्री कुशेश्वर सिंह—तूमौल, डा० हरिपुर (दरभंगा)।
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह—कुरसेला, डा० अयोध्यागंज (पूर्णिया)।
श्री रामशेखर सिंह—विन्दगामा, डा० गुलटेनगंज (सारन)।
श्री श्रीकृष्ण सिंह—लहेरियासराय (दरभंगा)।
श्री कामता प्रसाद सिंह 'काम'—भवानीपुर, डा० देव (गया)।
श्री श्यामा प्रसाद सिंह—६, सरकुलर रोड (पटना)।
श्री सीताराम जगतरामका—चकुलिया (सिंहभूम)।
श्री ब्रजेन्द्र नारायण यादव—हाजीपुर, डा० खगड़िया (मुंगेर)।

श्री सीताराम यादव—चकमहिला, डा० सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर।
श्री मोहन लाल महतो 'वियोगी'—गया।
श्री जगन्नाथ प्रसाद मिश्र—राजटैंक, लहेरियासराय।

डा० त्रिदिव नाथ बनर्जी—पटना।
लेडी अनीस इमाम—अनीसावाद (पटना)।
श्री नारायणजी—निवारण आश्रम (रांची)।
श्री व्रजनन्दन प्रसाद—कदमकुआं (पटना)।
श्री फतह नारायण सिंह—रामजीचक, डा० दीघा घाट (पटना)।
श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह—साम्बे, डा० वारसलीगंज (गया)।
राय ब्रजराज कृष्ण—पटना सिटी।
श्री हरेन्द्र बहादुर चंद्र—कदमकुआं (पटना)।
श्री राम चरण सिंह—लहेरियासराय (दरभंगा)।
श्री जयदेव प्रसाद—दरियापुर, डा० वांकीपुर (पटना)।

लोक सभा के सदस्य बिहार राज्य से

१. श्री शारंगधर सिंह—एक्जिविशन रोड, पटना।
२. श्री कैलाशपति सिंह—कदमकुआं, पटना।
३. श्रीमती तारकेश्वरी सिंह—आर-ब्लॉक, पटना।
४. श्री बलिराम भगत—१०, रायसिना रोड, नई दिल्ली।
५. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद—गया।
६. श्री रामधनी दास—सबलपुर (पटना)
७. श्रीमती सत्यभामा देवी—डा० मझवे (गया)।
८. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह—न्यू-कदमकुआँ, पटना।
९. डा० राम सुभग सिंह—खजुरिया, अमरा, शाहाबाद।
१०. श्री जगजीवन राम—३, क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली।

११. श्री कमल सिंह—'भोजपुर हाउस', डुमरांव।
१२. श्री झूलन सिंह—हाजीपुर, डा० गोपालगंज, सारन।
१३. श्री महेन्द्रनाथ सिंह—गरीब टोला, डा० सिताब दियारा, सारन।
१४. श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह—छपरा।
१५. पं० द्वारिका नाथ तिवारी—भैरोपुर, डा० दिघवारा, सारन।
१६. श्री विभूति मिश्र—मंगुराहा, डा० रधिया, चम्पारण।
१७. श्री भोला राउत—बेतिया (चम्पारण)।
१८. श्री विपिन बिहारी वर्मा—शिकारपुर, चम्पारण।
१९. डॉ० सैयद महमूद—२, यार्कप्लेस, नई दिल्ली।
२०. श्री दिग्विजय नारायण सिंह—मुजफ्फरपुर।
२१. रिक्त।
२२. श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी—मुजफ्फरपुर।
२३. श्री राजेश्वर पटेल—हाजीपुर, मुजफ्फरपुर।
२४. श्री रामेश्वर साहु—गदियानी, डा० मधुवनी, दरभंगा।
२५. श्री सत्य नारायण सिंह—१९, अकबर रोड, नई दिल्ली।
२६. श्री श्रीनारायण दास—केवटी, दरभंगा।
२७. श्री अनिरुद्ध सिंह—लहेरियासराय।
२८. श्री श्यामनन्दन मिश्र—२७, जनपथ, नई दिल्ली।
२९. श्री ललित नारायण मिश्र—बलुआ बाजार, सहरसा।
३०. श्री भोली सरदार—चरनई, डा० परसागढ़ी, सहरसा।
३१. श्री बनारसी प्रसाद सिंह—बनपारा, डा० खड़गपुर (मुंगेर)।
३२. श्री नयन तारादास—मुंगेर।
३३. श्री मथुरा प्रसाद मिश्र—पचम्भा, डा० सुहृदयनगर, मुंगेर।
३४. श्री जियालाल मंडल—बख्तियारपुर (मुंगेर)।
३५. श्री जे० बी० कृपलानी—लखनऊ।
३६. श्री मोहम्मद ताहिर—पूर्णियां।

३७. श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला—भागलपुर।

३८. श्रीमती शकुन्तला देवी—मंगरबीघा, डा० राजगीर (पटना)।
३९. श्री अवधेश कुमार सिंह—मुरादपुर, डा० अयोध्या गंज (पूर्णियां)।
४०. श्री फणिगोपाल सेन गुप्त—भट्टा बाजार, पूर्णियां।
४१. श्री पैका मुरमु—कदमा, डा० ओसाबनी (संताल परगना)।
४२. श्री सुरेशचन्द्र चौधरी—दुमका (संथाल परगना)।
४३. श्री देवी सोरेन—नवडीहा (संताल परगना)।
४४. श्रीमती विजया राजे—राजबंगला, हजारीबाग।
४५. श्री काजी एस० ए० मार्टिन—बोद्दम बाजार, हजारीबाग।
४६. श्रीमती ललिता राजलक्ष्मी—पदमा, हजारीबाग।
४७. श्री एम० आर० मसानी—बरौदावाला बिल्डिंग, बम्बई—२६।
४८. श्री जयपाल सिंह—खूंटी, रांची।
४९. श्री गजेन्द्र प्रसाद सिंह—डाल्टेनगंज, पलामू।
५०. श्री एम० के० घोष—सरकुलर रोड, जमशेदपुर।
५१. श्री प्रभात चन्द्र बोस—झरिया (मानभूम)।
५२. श्री शम्भु चरण—द्वारका रोड, बरमामाइंस, जमशेदपुर।
५३. श्री इग्नेस बेक—रांची।

राज्य सभा के सदस्य बिहार राज्य से

१. श्री रामगोपाल अग्रवाल—डोमचांच, हजारीबाग।
२. श्री काजी अहमद हुसेन—फुलवारी शरीफ, पटना।
३. श्री थियोडोर बोदरा—रांची।
४. श्री मोहम्मद्र उमैर शाह साहब—मख्दुमपुर, डा० अरवल (गया)।
५. श्री सैयद मजहर इमाम—गुजरी, पटना सिटी।

६. श्री महेश शरण––बांकीपुर, पटना।
७. श्री कैलाश बिहारी लाल––नाथनगर, भागलपुर।
८. श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह––दहिला, मुजफ्फरपुर।
९. श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन––पटना।
१०. डॉ० पूर्णचन्द्र मित्र––रांची।
११. श्री शीलभद्र याजी, पटना।
१२. श्री किशोरी राम––चाकंद, गया।
१३. श्री कामेश्वर सिंह––दरभंगा।
१४. श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह––वजीरगंज, गया।
१५. श्री गंगा शरण सिंह––खड़गपुर, डा० अमहारा (पटना)।
१६. श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, उर्फ बालाजी––सूरजपुरा (शाहाबाद)।
१७. श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह––मुजफ्फरपुर।
१८. श्री राम बहादुर सिंह––लहेरियासराय, दरभंगा।
१९. प्रो० रामधारी सिंह "दिनकर"––सिमरिया, मुंगेर।
२०. श्री तज्जमुल हुसेन––पटना सिटी।
२१. श्री माइकेल जान––जमशेदपुर।
२२. श्री कृष्णमोहन प्यारे सिंह––बरबिघा (मुंगेर)।

भारत सरकार

राष्ट्रपति

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

उप-राष्ट्रपति

डॉ० सर्वपल्लि राधाकृष्णन

मंत्री मंडल के सदस्य

१. श्री जवाहरलाल नेहरू—प्रधान मंत्री और परराष्ट्र-मंत्री; प्रधान-मंत्री-भवन, नयी दिल्ली।

२. मौलाना अबुल कलाम आजाद—शिक्षा और वैज्ञानिक शोध; ४, किंग एडवर्ड रोड, नई दिल्ली।

३. श्री गोविन्दवल्लभ पंत—गृह; ६, किंग एडवर्ड रोड, नई दिल्ली।

४. श्री मोरारजी देसाई—वाणिज्य और उद्योग; १, विलिंगडन क्रेसेन्ट, नई दिल्ली।

५. श्री जगजीवन राम—रेलवे; ३, क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली।

६. श्री गुलजारीलाल नन्दा—श्रम, नियोजन और योजना; ६, हेस्टिंग्स रोड, नई दिल्ली।

७. श्री तिरुवलूर थत्तै कृष्णमाचारी—वित्त; ५, डुप्ले रोड, नई दिल्ली।

८. सरदार स्वर्ण सिंह—इस्पात, खान और ईंधन; ७, हेस्टिंग्स रोड, नई दिल्ली।

९. श्री लाल बहादुर शास्त्री—परिवहन और संचारण; १, यार्क प्लेस, नई दिल्ली।

१०. श्री कस्याम्वल्ली चगलरैया रेड्डी—लोक कार्य, गृहनिर्माण और पूर्त्ति; ६, जन पथ, नई दिल्ली।

११. श्री अजित प्रसाद जैन—खाद्य और कृषि; ४, हेस्टिंग्स रोड, नई दिल्ली।

१२. श्री वंगलील कृष्णन कृष्ण मेनन—रक्षा; १६, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।

१३. श्री सदाशिव कनोजी पाटिल—सिंचाई और विद्युत्; ५, क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली।

राष्ट्र मंत्री

१. श्री सत्यनारायण सिंह—संसदीय कार्य; १६, अकबर रोड, नई दिल्ली।

२. डॉ० बालकृष्ण विश्वनाथ केस्कर—सूचना और प्रसार; ८, हेस्टिंग्स रोड, नई दिल्ली।

३. श्री दत्तात्रेय परशुराम करमरकर—स्वास्थ्य; ७, रेस कोर्स रोड, नई दिल्ली।

४. श्री पंजाबराव एस० देसमुख—सहकारिता; १२, जनपथ, नई दिल्ली।

५. श्री केशवदेव मालवीय—खान और तेल; २७, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली।

६. श्री मेहरचंद खन्ना—पुनर्वासन और अल्पसंख्यक जातियां; ४, कोटा हाऊस, नई दिल्ली।

७. श्री नित्यानन्द कानुनगो—वाणिज्य; ६, यार्क रोड, नई दिल्ली।

८. श्री राज बहादुर—परिवहन और संचारण; ६, अकबर रोड, नई दिल्ली।

९. श्री बलवन्त नागेश दातर—गृह; ३, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली।

१०. श्री मनुभाई शाह—उद्योग; १२, तुगलक रोड, नई दिल्ली।

११. श्री सुरेन्द्र कुमार दे—सामूहिक विकास; १, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।

१२. डॉ० कलुलाल श्रीमाली—शिक्षा और वैज्ञानिक शोध; २०, अशोक रोड, नई दिल्ली।

१३. श्री अशोक कुमार सेन—विधि; १, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली।

१४. श्री हुमायूं कबीर—परिवहन और संचार; १, क्वीन विक्टोरिया रोड, नई दिल्ली।

उपमंत्री

१. सरदार सूरजीत सिंह मजीठिया—रक्षा; ९, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।

२. श्री आबिद अली—श्रम; ७, अशोक रोड, नई दिल्ली।

३. श्री अनिल कुमार चन्द—कार्य, गृहनिर्माण और आपूर्त्ति; ४, सुनहरीबाग, नई दिल्ली।

४. श्री मोठाकयाली वेंकट रमणगौड कृष्णप्पा—खाद्य; ५, ओल्ड मिल रोड, नई दिल्ली।

५. श्री जैसुखलाल लालशंकर हठी—सिंचाई और विद्युत्; ११, अशोक रोड, नई दिल्ली।

६. श्री सतीश चन्द्र—वाणिज्य और उद्योग; २, जन्तर मन्तर रोड, नई दिल्ली।

७. श्री श्यामनन्दन मिश्र—योजना; २५ गुरुद्वारा रोड, नई दिल्ली।

८. श्री बलिराम भगत—वित्त; १०, रायसिना रोड, नई दिल्ली।

९. डॉ० मनमोहन दास—शिक्षा और वैज्ञानिक शोध; १३, अशोक रोड, नई दिल्ली।

१०. श्री शाहनवाज खां—रेलवे तथा परिवहन; ४, ओल्ड मिल रोड, नई दिल्ली।

११. श्रीमती लक्ष्मी मेनन—परराष्ट्र; ३२, वेस्टर्न कोर्ट, नई दिल्ली।

१२. श्रीमती वायलेट अलवा—स्वराष्ट्र; ३, अशोक रोड, नई दिल्ली।

१३. श्री कोठा रघुरामिया—रक्षा; १३, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।

१४. श्री ए० एम० टामस—खाद्य और कृषि; ७१-बी, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।

विभिन्न राज्यों के राज्यपाल

असम : श्री फजले अली।

बंगाल : श्रीमती पद्मजा नायडू।

बिहार : डॉ० जाकिर हुसैन।

बम्बई : श्री श्रीप्रकाश।

मध्य-प्रदेश : श्री हरि विनायक पातस्कर।

मद्रास : श्री प० वे० राजामन्नार (स्थानापन्न)।

उड़ीसा : श्री य० न० सुकठंकर।

पंजाब : श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंह।

उत्तर-प्रदेश : श्री व० व० गिरि।

आन्ध्र : श्री भीमसेन सच्चर।

राजस्थान : श्री गुरमुखनिहाल सिंह।

केरल : डॉ० ब० रामकृष्ण राव।

मैसूर : महाराज श्री जय चामराज वाडियार बहादुर।

विदेश स्थित भारतीय राजदूत एवं अन्य प्रतिनिधि
दूतावास

अफगानिस्तान : श्री स० न० हक्सर।
अर्जण्टाइन : श्री न० राघवन (साथ ही चीली के लिए मंत्री भी)।
बेल्जियम : श्री व० न० कौल (साथ ही लक्जेमवर्ग के लिए मंत्री भी)।
ब्राजील : श्री ल० र० स० सिंह।
बर्मा : श्री लालजी मेहरोत्रा।
चीन : श्री र० क० नेहरू।
जेकोस्लोवाकिया : श्री ज० न० खोसला।
मिस्र : श्री नवाव अलियावर जंग (साथ ही लेवनान और लिबिया के लिए भी)।
थियोपिया : श्री निरंजन सिंह गिल।
फ्रांस : सरदार क० म० पनिकर (साथ ही नारवे के लिए मंत्री भी)।
जर्मनी : श्री अ० स० न० नम्बियर।
ईरान : श्री वे० फ० ह० ब० तैयवजी।
जापान : श्री चन्द्रेखर झा।
नेपाल : श्री भगवान सहाय।
नेदरलैण्ड्स : श्री व० क० कपूर।
तुर्की : (रिक्त)।
हिन्द-एशिया (इण्डोनेशिया) : श्री ग० पार्थसारथी।
रूस : श्री क० प० स० मेनन (साथ ही हंगरी के लिए मंत्री भी)।
आयरलैण्ड : श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित।
इटली : श्री जॉन थिवी।
पोलैण्ड : श्री क० प० स० मेनन।
स्विजरलैण्ड : श्री मोहन सिंह मेहता।
युगोस्लाविया : श्री रा० दयाल।

ईराक : श्री र० स० मणि।
स्वीडेन : श्री इ० स० चोपड़ा।

हाई-कमीशन

आस्ट्रेलिया : श्री प० अ० मेनन, हाई-कमिश्नर (साथ ही न्यूजीलैण्ड के लिए भी)।
पाकिस्तान : श्री च० च० देसाई, हाई-कमिश्नर (करांची)।
ब्रिटेन : श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, हाई-कमिश्नर (साथ ही आयरलैंड के लिए राजदूत भी)।
कनाडा : श्री रघुनाथ सिंह।
सिलोन : .० द० गुनदेविया।

भारत का नया मानचित्र

राज्य पुनर्गठन अधिनियम और बिहार पश्चिम बंगाल (क्षेत्र हस्तांतरण) अधिनियम के अनुसार १ नवम्बर, १९५६ ई० से भारत में १४ राज्य बनाए गए। इनके नाम हैं, आन्ध्र-प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्छिमी बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर और उड़ीसा। इन राज्यों के अलावा ६ केन्द्र शासित प्रदेश बने : अंदमन और निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप और अमीन द्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा।

भारत सरकार और राज्यों के आँकड़े निम्नांकित हैं :—

राज्य।	क्षेत्रफल १,००० वर्गमील में।	जनसंख्या लाख में।	जिलाओं की संख्या।	जिला का औसत-क्षेत्रफल १,००० वगमील में।	जिला का औसत-जनसंख्या लाखें में।	जनसंख्या की सघनता।	१९५७-५८ का वजट (करोड़ में)। आय।	व्यय।
							रु०	रु०
१। आन्ध्र	१०६	३१२	२०	५.३	१५.६	२९५	५०.२३	५५.५३
२। असम ..	८५	९०	१२	७	७.५	१७६	२१.५१	२६.७५

३ बिहार..	६७	३८८	१७	४	२३	५७२	७४.४७	१२०.७४
४ बंबई ..	१९१	४८३	४३	४.४	११.२	२५३	१०६.३२	१०८.६९
५ जम्मू और कश्मीर।	८६	४४	१२	७	३.७	५१	६.७३	७.०६ (१९५६-५७)
६ केरल	१५	१३५	७	२.१	१९.३	९०१	२६.५०	२७.५२
७ मध्य प्रदेश	१७१	२६१	४०	४.३	६.५	१५२	४८.६६	५१.२३
८ मद्रास	५०	३६०	१२	४.२	२५	५९८	५२.६५	५७.७१
९ मैसूर ..	७४	१९४	१९	३.९	१०.२	२६१	४९.०५	६१.०३
१० उड़ीसा	६०	१४६	१३	४.६	११.२	२४४	१७.०१	२१.५७

राज्य ।	क्षेत्रफल १,००० वर्गमील में ।	जनसंख्या लाख में ।	जिलाओं की संख्या ।	जिला का औसत-क्षेत्रफल १,००० वर्गमील में ।	जिला का औसत जनसंख्या लाख में ।	जनसंख्या की सघनता ।	१९५७-५८ का बजट (करोड़ में) । आय ।	व्यय ।
							रु०	रु०
१[illegible] । पंजाब	४७	१६१	२१	२.२	७.७	३४०	४०.११	४३.७३
१[illegible] । राजस्थान	१३२	१५९	२६	५	६	१२१	२७.३७	३१.७९
१[illegible] । उत्तर प्रदेश	११३	६३२	५१	२.२	१२.४	५५७	९६.६६	१०८.३३

१४। पश्चिम-बंगाल।	३४	२६३	१६	२.१	१६.५	७७५	६०.६९	७१.४२
१५। हिमाचल-प्रदेश।	११	११	५.	२.२	२.२	१०२	२.४७	४.६९
१६। दिल्ली..	०.६	१७	१	०.६	१७	३,०१७	५.४१	७.०२
भारत सरकार	..	..	३३०	..	..	३१२	६३६.२२	६६३.०९

बिहार राज्य के जिलों का क्षेत्रफल और जनसंख्या

		क्षेत्रफल (वर्गमील)।	जनसंख्या।
पटना	..	२,१६४	२५,२८,२७२
गया	..	४,७६६	३०,७०,४९९
शाहाबाद	..	४,४०६	२६,८८,४४०
सारन	..	२,६६९	३१,५५,१४४
चम्पारण	..	३,५५३	२५,१५,३४३
मुजफ्फरपुर	..	३,०१८	३५,२०,७३९
दरभंगा	..	३,३४५	३७,६९,५३४
मुंगेर	..	३,९७५	२८,४९,१२७
भागलपुर	..	२,१८४	१४,२९,०६९
सहरसा	..	२,०९२	१३,०८,१९८
पूर्णिया	..	४,२३९	२२,४७,९४३
सन्ताल परगना	..	५,४५२	२३,२२,०९२
हजारीबाग	..	७.०१६	१९,३७,२१०
रांची	..	७,१५९	८,६१,२०७
धनबाद	..	१,१११	९,०५,७८३
पलामू	.	४,८९६	९,८५,७६७
सिंहभूम	..	५,१०२	१६,८५,१९५

बिहार के प्रमुख नगरों की जनसंख्या

(१९५१ ई० की जनगणना के अनुसार)

			जनसंख्या।
पटना	..	..	२,८३,४७९
जमशेदपुर	..	..	२,१८,१६२
गया	..	..	१,३३,७००
भागलपुर	..	..	१,१४,५३०
रांची	..	..	१,०६,८४९

बिहार का मुख्य खनिज पदार्थ

खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से बिहार राज्य का संसार में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। यहां अच्छे लोहे की संसार-प्रसिद्ध खानें हैं। लोहा-उत्पादन की दृष्टि से ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बिहार का दूसरा स्थान है। इसके अतिरिक्त अबरख के लिए तो संसार में बिहार का स्थान सर्व-प्रथम है।

साथ ही निम्नलिखित खनिज पदार्थ भी बिहार में बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हैं :—

(१) फिटकिरी (ऐलम)—रोहतासगढ़ के समीप।

(२) अपाटाइट—ढालभूम।

(३) एण्टीमोनी—हजारीबाग।

(४) एस्बेस्टस—सराईकेला, मुंगेर और ढालभूम

(५) बराइटिस—रांची और सराइकेला।

(६) बॉक्साइट—रांची और पलामू।

(७) कोयले की खानें—पलामू, हजारीबाग, धनबाद और सन्ताल परगना।

(८) चीनी मिट्टी (केओलिन)—सिंहभूमि जिला, राजमहल पहाड़ियां, भागलपुर और मुंगेर जिला।

(९) फायरक्ले—मुंगेर और सिंहभूमि जिला।

(१०) तांबा—सिंहभूमि, खरसांवां और सराइकेला।

(११) लोहा और मैंगनीज—सिंहभूमि।

(१२) अबरख—गया, हजारीबाग और मुंगेर। धनबाद, रांची और सिंहभूमि जिलों में भी कुछ अबरख पायक जाता है।

मेले

पटना प्रमण्डल

पटना जिला : (१) बांकीपुर (पटना)—श्रावण के प्रत्येक सोमवार को; (२) राजगीर (बिहार सबडिवीजन)—मलमास में, एक महीना; (३) बिहटा (दानापुर सबडिवीजन)—फाल्गुन और बैसाख की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि को, ४ दिन; (४) ओंगारी (बिहार सबडिवीजन)—कार्त्तिक और चैत्र की शुक्ल पक्ष की छठ को, २ दिन; (५) बड़गांव (बिहार सबडिवीजन)—छठ, २ दिन; (६) बैकठपुर (बाढ़ सबडिवीजन—महाशिवरात्रि, २ दिन; (७) पुनपुन—पितृपक्ष, १५ दिन; (८) बिहारशरीफ—इदुज्जोहा, ४ दिन; (९) फुलवारी—फातिहा दुआजदहुम, २ दिन।

शाहाबाद जिला : (१) ब्रह्मपुर—फाल्गुनी शिवरात्रि, १ सप्ताह; (२) ब्रह्मपुर—बैसाखी शिवरात्रि, ४ दिन; (३) बक्सर—संक्रांति, १ सप्ताह; (४) नेयाजीपुर—नवम्बर, ५ दिन; (५) मधुबन—कार्त्तिक शु० षष्ठि, १ सप्ताह; (६) मधुबन—बैसाख शु० षष्ठि, १ सप्ताह; (७) जखनी—चैत्र रामनवमी, १ दिन; (८) जखनी—चैत्र पूर्णिमा, १० दिन।

गया जिला : (१) गया—पितृपक्ष मेला, आश्विन कृष्ण पक्ष, १५ दिन; (२) गया—कार्त्तिक पूर्णिमा, १ सप्ताह; (३) गया—चैत्र संक्रांति, १ सप्ताह; (४) देव—कार्त्तिक शु० षष्ठि, ३ दिन; (५) देव—चैत्र शु० षष्ठि, ३ दिन; (६) औरंगाबाद—कार्त्तिक शु० षष्ठि, ३ दिन; (७) औरंगाबाद—चैत्र शु० षष्ठि, ३ दिन; (८) देवकुण्ड—फाल्गुनी शिवरात्रि, १ सप्ताह; (९) देवकुण्ड—बैसाखी शिवरात्रि, १ सप्ताह; (१०) कमालत—चैत्र संक्रांति, १ दिन।

तिर्हुत प्रमण्डल

मुजफ्फरपुर जिला : (१) जैंतपुर—आश्विन शु० दशमी, २० दिन ; (२) हाजीपुर—कार्त्तिक पूर्णिमा, ४ दिन ; (३) सीतामढ़ी—अग्रहण शु० पंचमी, १ महीना ; (४) सीतामढ़ी—चैत्र शु० नवमी, १ महीना ; (५) वैशाली—२८ मार्च, ३ दिन ; (६) भरोस्थान—फाल्गुनी शिवरात्रि, १५ दिन।

सारन जिला : हरिहर क्षेत्र (सोनपुर)—कार्त्तिक पूर्णिमा, १ महीना।

दरभंगा जिला : (१) मुक्तापुर—अग्रहण विवाह पंचमी, १५ दिन ; (२) मुक्तापुर—चैत्र रामनवमी, १५ दिन ; (३) जटमलपुर—फाल्गुनी शिवरात्रि, १५ दिन ; (४) कुशेश्वरस्थान—फाल्गुनी शिवरात्रि, २ दिन ; (५) कुशेश्वर स्थान—मकर संक्रान्ति, २ दिन ; (६) हीरोपट्टी—चैत्र, १० दिन ; (७) अहल्या स्थान—चैत्र रामनवमी, ४ दिन ; (८) कपिलेश्वर स्थान—फाल्गुनी शिवरात्रि, ३ दिन ; (९) सिघवारा—आश्विन शु० सप्तमी से दशमी, ४ दिन ; (१०) गौसाघाट—कार्त्तिक पूर्णिमा, २ दिन ; (११) गौसाघाट—माघी पूर्णिमा ; (१२) राजनगर—आश्विन शु० सप्तमी से दशमी, ४ दिन ; (१३) सोरथ—विवाह-शादी के मौसम में ४ दिन।

चम्पारण जिला : (१) अरेराज—फाल्गुन कृ० त्रयोदशी, ७ दिन ; (२) राजपुर—आश्विन शु० दशमी, ७ दिन ; (३) मधुबन—आश्विन शु० दशमी, १५ दिन ; (४) कोतिया—आश्विन शु० दशमी, १५ दिन।

भागलपुर प्रमण्डल

भागलपुर जिला : (१) मैरवा—भाद्र पूर्णिमा, ३ दिन ; (२) सुलतानगंज घाट—माघ पूर्णिमा, ३ दिन ; (३) सुलतानगंज घाट—फाल्गुनी शिवरात्रि, २ दिन ; (४) बटेश्वर स्थान—माघ पूर्णिमा, ३ दिन ; (५) बटेश्वर स्थान— फाल्गुनी शिवरात्रि, २ दिन ; (६) बौंसी—मकर संक्रांति, ७ दिन ; (७) धनकुण्ड—फाल्गुनी शिवरात्रि, ५ दिन।

मुंगेर जिला : (१) मुंगेर—आश्विन शु० दशमी, ४ दिन ; (२) आसरगंज—आश्विन शु० दशमी, ६ दिन ; (३) गिधौर—आश्विन शु० दशमी, ४ दिन ; (४) लछुआर—कार्त्तिक पूर्णिमा, ४ दिन ; (५) डेघरा—फाल्गुनी शिवरात्रि, ३ दिन ; (६) रजगांव—फाल्गुनी शिवरात्रि, २ दिन ; (७) गिधेश्वर मेला—फाल्गुनी शिवरात्रि, २ दिन ; (८) महादेव सिमरिया—फाल्गुनी शिवरात्रिं, २ दिन ; (९) मुंगेर—माघ पूर्णिमा, १ दिन ; (१०) सिमरिया—कार्त्तिक पूर्णिमा, १ महीना, (११) खगड़िया—गोपाष्टमी मेला।

पूर्णिया जिला : (१) खगड़ा मेला—दिसम्बर महीने के अंत में १ महीना ; (२) गुलावबाग—अग्रहण पूर्णिमा, २१ दिन ; (३) कंठनगर (काढ़ागोला)—माघी पूर्णिमा, १५ दिन ; (४) महिहारी—बारुनी गंगा उत्सव, ३ दिन ; ग्रहण, कार्त्तिक पूर्णिमा और शिवरात्रि के अवसर पर भी।

सहरसा उप-जिला : (१) सुपौल—२६ जनवरी, २० दिन ; (२) मोहद्दीपुर—माघ बसंत पंचमी, १५ दिन ; (३) सिंहेश्वर स्थान—फाल्गुनी शिवरात्रि, १ महीना ; (४) रानी—फाल्गुन पूर्णिमा, १५ दिन ; (५) त्रिवेणीगंज़—चैत्र रामनवमी, १५ दिन।

सन्ताल परगना जिला : (१) हिजला—फरवरी का प्रथम सप्ताह, ८ दिन ; (२) काठीकुण्ड—फाल्गुनी शिवरात्रि, ३ दिन ; (३) बासुकीनाथ—फाल्गुनी शिवरात्रि, ३ दिन ; (४) मेहरमा—चैत्र रामनवमी, ७ दिन ; (५) वसन्तराम—चैत्र संक्रांति, १० दिन ; (६) हिरनपुर—जनवरी का अंतिम सप्ताह, ७ दिन ; (७) पाकुर—फरवरी, ७ दिन ; (८) जामतारा—रासमेला, नवम्बर, १ महीना ; (९) करमदहा—माघ कृ० १, सात दिन ; (१०) केवटजाली—गांधी मेला, जनवरी, ३ दिन ; (११) शंकरपुर—मार्च, ४ दिन ; (१२) पालोजोरी—दिसम्बर, ३ दिन ; (१३) देवघर—माघी बसन्त पंचमी, २ दिन; (१४) देवघर—फाल्गुनी शिवरात्रि, ३ दिन ; (१५) देवघर—भाद्र पूर्णिमा, २ दिन ; (१६) देवघर—श्रावण कृ० चतुर्दशी, १ दिन ; (१७) कन्हैयास्थान—मार्च का अंतिम सप्ताह, ८ दिन।

छोटानागपुर प्रमण्डल

रांची जिला : (१) सिमदेगा—गांधी मेला, २६ जनवरी से २८ जनवरी ; (२) रामरेखा—कार्त्तिक पूर्णिमा, २ दिन ; (३) गुमला—फरवरी, ७ दिन (यात्रा मेला) ; (४) जगन्नाथपुर—आषाढ़ शु० द्वितीया, १ दिन ; (५) मुर्मा—आश्विन पूर्णिमा, २ दिन ; (६) बुन्दू—वैशाख या ज्येष्ठ, ९ दिन ; (७) सतीघाट—माघ कृ० १, एक दिन ; (८) कमदारा—फरवरी, ७ दिन।

धनबाद जिला : (१) झरिया—आश्विन शु० अष्टमी, ३ दिन ; (२) टूंड़ी—आश्विन शु० अष्टमी, ३ दिन ; (३) पोद्दरडीह—कार्तिक पूर्णिमा, ३ दिन ; (४) धैपा—माघ, ३ दिन ; (५) पोरुघा—माघ, ४ दिन ;

(६) रघुनाथपुर—फल्गुन, ६ दिन; (७) प्रधान खन्ता—मकर संक्रान्ति, १ दिन; (८) गोशाला—कार्त्तिक, ३ दिन।

पलामू जिला: (१) जौर—शिवरात्रि, १ दिन; (२) लेस्लीगंज—माघ त्रयोदशी, ८ दिन; (३) नगरुन्तरी—शिवरात्रि, १० से १५ दिन; (४) लटेहर—शिवरात्रि, १५ दिन; (५) हरवरी—पौष पूर्णिमा; (६) हरैया—चैत्र अमावस्या, १ सप्ताह।

सिंहभूम: (१) चित्रेश्वर—फाल्गुनी शिवरात्रि, २ दिन; (२) जैंतगढ़—पौष पूर्णिमा, १ दिन; (३) निशिन्तपुर—चैत्र पूर्णिमा, २ दिन।

खरसांवां

पद्मपुर—कार्त्तिक अमावस्या, ६ दिन।

हजारीबाग जिला: (१) नरसिंहवागी—कार्त्तिक पूर्णिमा, १ दिन; (२) सिलवर पहाड़—आषाढ़ शु० द्वितीया, १ दिन; (४) रजरप्पा—आश्विन शु० दशमी; (४) सूरजकुण्ड—३ दिन; (५) रामगढ़—अक्तूबर, २ दिन; (६) कवलेश्वरी पहाड़—आश्विन शु० दशमी; (७) लवलौंग—२ दिन; (८) पारसनाथ—मकर संक्रांति, १ सप्ताह; (९) पचम्बा—गोपाष्टमी, ३ दिन।

युवक-होस्टल

बिहार में निम्नलिखित २० स्थानों पर युवक-होस्टलों का निर्माण हुआ है:—

(१) वैशाली, (२) राजगीर, (३) जेठियन, (४) सासाराम, (५) गया, (६) बोधगया, (७) तिलैया झील, (८) सिंदरी, (९) नेतरहाट, (१०) तोपचांची, (११) मसानजोर, (१२) पारसनाथ, (१३) डुमरू,

(१४) चकुलिया, (१५) हजारीबाग, (१६) दिग्घल-पहाड़ी, (१७) हवेली खड़गपुर, (१८) मिहिजाम, (१९) कोनार, और (२०) नालंदा।

बिहार की प्रगति

(प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएँ)

३१ मार्च, १९५६ ई० को प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि समाप्त हो गई, और १ अप्रील, १९५६ ई० से द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार में कुल २१४ विकास-योजनाएं स्थापित हुईं, और कुल ७२ करोड़ ५१ लाख रुपये खर्च हुए जबकि योजना में व्यय के लिए कुल ६७ करोड़ ७९ लाख ४० हजार रुपये की व्यवस्था थी, अर्थात निर्धारित राशि से ४ करोड़ ७१ लाख ६० हजार रुपये अधिक खर्च हुए। बिहार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १ अरब ९० करोड़ २२ लाख रुपयों के व्यय की व्यवस्था है, अर्थात प्रति व्यक्ति ४९ रुपये के लगभग जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति १६ रु० ९ आने खर्च हुए; और द्वितीय योजना में भारत के अन्य सभी राज्यों के लिए, कुल मिलाकर, प्रति व्यक्ति पर लगभग ६१ रु० ३ आने खर्च होने वाले हैं। द्वितीय योजना में बिहार का तीसरा स्थान आता है, अर्थात बंबई और उत्तर प्रदेश के बाद; और प्रथम योजना में बिहार का पांचवां स्थान था।

कृषि

प्रथम योजना के अंत में बिहार की उपज ५७ लाख टन से बढ़ कर ६४ लाख टन तक पहुंच गई अर्थात् १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि विभाग ने लगभग १२ करोड़ रुपये के खर्च से ४९ योजनाएं कार्यान्वित

की थीं, जिनमें ४०८ मध्यम बांध, ४,९५३ लघु बांध, १६,४५९ कुएं, ११६ नलकूप, ७,०८२ खुले बोरिंग, ३,५६४ रहट पंप और २,३४८ लिफ्ट-इंजिन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग ने भी ४७,८८० लघु-सिंचाई-योजनाएं कार्यान्वित कीं जिनसे लगभग ९,४१,५२० एकड़ जमीन को लाभ पहुंचा। द्वितीय योजना की अवधि में २४ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था की जाने वाली है जिससे प्रतिवर्ष ४ लाख मन अतिरिक्त गल्ला पैदा होने लगेगा। द्वितीय योजना की अवधि में सिंचाई विभाग द्वारा ७२५ लघु-सिंचाई-योजनाएं, १५० नलकूप, १५,००० कुएं, ७,५०० खुले बोरिंग तैयार किए जाने वाले हैं तथा ४,००० रहट पंपों और ४,००० बिजली के पंपिंग सेटों की बिक्री की जाने वाली है।

खाद—प्रथम योजना की अवधि में १३,५८६ टन सिंगल सुपरफास्फेट और हड्डी का चूर्ण; ६३,३५३ टन अमोनियम सल्फेट और ३,११,०७२ टन शहरी कंपोस्ट की बिक्री की गयी। साथ ही, २,७४२ मन सुधरे हुए धान के बीज और ७८३ मन गेहूं के बीज वितरित किए गए।

द्वितीय योजना की अवधि में ८७,५०० टन उर्वरक, १२,५०० टन हड्डी का चूर्ण का वितरण किया जानेवाला है। रासायनिक खादों की बिक्री पर २५ प्रतिशत अर्थ-साहाय्य दिया जानेवाला है जिसके लिए १ लाख रुपये की राशि रख छोड़ी गई है। रासायनिक खाद की वार्षिक खपत ४० हजार टन से बढ़ाकर २॥ लाख टन की जाने वाली है और हरीखादवाले क्षेत्र को लगभग एक लाख एकड़ से बढ़ाकर ४० लाख एकड़ कर दिया जाने वाला है।

बीज-वृद्धि——द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बीजों के बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। १९५६--६१ ई० के अन्त तक राज्य भर में ५७४ बीज-वृद्धि-प्रक्षेत्र खोल देने की योजना है। अर्थात् प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खंड में १ बीज-वृद्धि-प्रक्षेत्र रहेगा। इस योजना पर २ करोड़ ३५ लाख रुपये की व्यय-राशि अनुमित है।

शोध——कृषि-विषयक शोध का भी पर्याप्त प्रसार हुआ है। किसानों को स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए, चार क्षेत्रों में, अर्थात् पटना, सबौर, पूसा और कांके में चार नये कृषि-शोध-प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं। चावल की नई किस्में विकसित की गई हैं जिससे एक एकड़ में ५० मन तक पैदावार हो सकती है। इसी प्रकार गेहूं, जौ, चना, मटर, रहर, मूंग और तेलहनों के संबंध में भी सुधार किया गया है। फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए उपाय किये गये हैं। गन्ने में भी सुधार किया गया है जिससे अधिक पैदावार हो सकती है।

बंजरभूमि की आबादी——कृषि संबंधी शोध-कार्य के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में ९० लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी, और द्वितीय योजना में भी ६५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बिक्रमगंज (शाहाबाद) और मुरलीगंज (सहरसा) में १,०९,००० रु० के व्यय पर सिंचाई शोध-केन्द्र स्थापित किए जाने वाले हैं।

प्रथम योजना की अवधि में शारीरिक श्रम द्वारा २,४८,०५४.६६ एकड़ बंजर भूमि आबाद की गई और राजकीय ट्रैक्टरों की सहायता से ७,२११.२६ एकड़। भूमि-सुधार-ऋण के रूप में १,१२,२६,५७९ रु० वितरित किए गए। सरकारी प्रेरणा से ७९,१६०.६२ एकड़ बंजरभूमि आबाद की गई। इसके अतिरिक्त

राज्य-सरकार ने २ लाख से अधिक रुपये की सहायता दी थी जिसके सहारे ४,००० एकड़ बंजर भूमि आबाद की गई। रेलवे की फालतू जमीन की बन्दोबस्ती वाली योजना के अन्तर्गत २२ हजार एकड़ से अधिक जमीन बन्दोबस्त की गई और लगान में ६ लाख से कुछ अधिक रुपये प्राप्त हुए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि-उत्पादन में लगभग २० प्रतिशत वृद्धि करने और १५ लाख टन अतिरिक्त गल्ला पैदा करने की व्यवस्था है। साथ ही, यह भी व्यवस्था की गयी है कि किसान की आय में प्रति व्यक्ति १३ प्रतिशत की वृद्धि हो जाय। इसके लिए सिंचाई किये जाने वाले क्षेत्र में ५० प्रतिशत की वृद्धि होगी और मुख्य फसलों के खेत के ७० प्रतिशत भाग में उन्नत बीजों का व्यवहार होगा। रासायनिक खाद की खपत ४०,००० टन से बढ़ाकर २॥ लाख टन कर दी जानेवाली है। कृषि की पैदावार बढ़ाने और उसमें सुधार करने के लिए अन्य प्रबंध भी किए जानेवाले हैं। खेतों की चकबंदी, ग्रामीण-ऋण, बिक्री और दूकान आदि की दिशा में भी सुधार किये जाने वाले हैं।

कृषि की मद में १४,१६,६३,००० रु० के खर्च की व्यवस्था है जिसमें से ८,०१,२२,००० रु० कृषि-उत्पादन पर, ३,६६,६१,००० रु० लघु-सिंचाई-योजनाओं पर, और २,२६,७८,००० रु० भूमि-विकास पर खर्च किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, मत्स्य-विकास पर ५४,२४,००० रु० खर्च करने की व्यवस्था है।

मत्स्य-पालन—प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में मछली के जीरा के १७ केन्द्र खोले गये और प्रत्येक वर्ष लगभग ४० लाख जीरे वितरित्त किये गयें। प्रथम योजना की अवधि में कुल १,८२,०६,८१६ जीरे वितरित्त हुए और अतिरिक्त ३,४३,२५५ मन मछली प्राप्त हुई।

सिंचाई

१९४७ ई० के पूर्व, बिहार में सरकारी नहरों से केवल ७॥ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होती थी, अर्थात् राज्य के कुल खेतों का ३.५ प्रतिशत। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सभी सिंचाई-योजनाओं के पूरा हो जाने के बाद सिंचाई वाला खेत लगभग ८ लाख एकड़ से बढ़कर लगभग १३,६०,००० एकड़ तक पहुंच गया।

उत्तर बिहार में ८ सिंचाई-योजनाएं, २८ जल-निकासी-योजनाएं, १३ बाढ़-रक्षा-योजनाएं और ७ नदी-नियंत्रण-योजनाएं २ करोड़ ३० लाख रुपये के खर्च पर पूरी की गईं। इन योजनाओं से कुल ८ लाख एकड़ जमीन को लाभ पहुंचा है। साथ ही, सिंचाई की ५, जल-निकासी की २६, बाढ़-रक्षा की ३३ और नदी-नियंत्रण की ३ योजनाएं सम्पन्न की जा रही हैं। इन योजनाओं पर कुल अनुमित व्यय ११ करोड़ रुपये हैं और इनसे ९ लाख एकड़ जमीन को लाभ पहुंचने की आशा है।

दक्षिण बिहार में ६३ बृहत् और मध्यम सिंचाई-योजनाएं, छोटानागपुर और संताल परगना की २६ योजनाओं के अतिरिक्त सम्पन्न की जा चुकी हैं।

उत्तर बिहार में सारन, चम्पारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों में, मुख्यतः गन्ना-उत्पादक क्षेत्रों में, विद्युत्चालित नलकूपों की व्यवस्था की गयी है और दक्षिण बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिलों में भी ऐसे नलकूपों की व्यवस्था है। सिंचाई विभाग ने कुल ९६५ नलकूप बिठाये हैं जिससे ४ लाख एकड़ से अधिक जमीन की सिंचाई की निश्चित व्यवस्था हो गई है।

प्रथम योजना में सिंचाई की मद में १६ करोड़ लाख रुपये की व्यवस्था थी जिसमें से उक्त अवधि में ९६ प्रतिशत राशि खर्च की गयी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और भी ५.३२ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई की सुविधा हो जायगी जिसमें कोशी और गंडक योजनाओं से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं। द्वितीय योजना की अवधि में कार्यान्वित योजनाओं के पूर्ण विकसित हो जाने पर लगभग ११.१४ लाख एकड़ जमीन को लाभ पहुंचने की आशा है। सिंचाई की मद में कुल ३२,५८,५०,००० रु० की व्यवस्था है।

गंडक घाटी योजना का अनुमित व्यय ३७,२३,००,००० रुपये हैं और इससे चम्पारण, सारन और मुजफ्फरपुर जिलों में २७ लाख एकड़ जमीन को लाभ पहुंचने की आशा है। यह योजना कार्यान्वयन के लिए तैयार हो चुकी है। सोन योजना भी द्वितीय योजना काल में कार्यान्वयन के लिए तैयार की जा सकती है।

राजस्व विभाग द्वारा १९४८ ई० में शुरू किया गया लघु-सिंचाई-आन्दोलन प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में भी चालू रहा। १९४८-४९ ई० से १९५५-५६ ई० तक कुल ८,५६,८६,३१० रु० ७ आने ६ पाई के व्यय पर ४७,८८० लघु-सिंचाई-योजनाएं कार्यान्वित की गयीं जिनसे ९,४१,५२० एकड़ जमीन को लाभ पहुंचा। यह योजना द्वितीय योजना की अवधि में भी चालू रहेगी।

विद्युत् योजनाएं

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में विद्युत् योजनाओं की दिशा में भी अच्छी प्रगति हुई। १९५१ ई० में कुल उत्पादन जहां ४७ मेगावाट था वहां १९५५-५६ ई० में २०८ मेगावाट हो गया, और १९६१ ई० तक ४२८ मेगावाट हो जाने की आशा की जाती है। बिजली की प्रति व्यक्ति खपत १९५१ ई० में ३ यूनिट थी और १९५६ ई० में ४.२ यूनिट तक पहुंच गयी। बिजली की ३,००० मील, लम्बी लाइनें बिछायी गयी हैं और

१,५०० ट्रांस्फार्मर स्टेशन बनवाये गये हैं। तीन सौ गांवों में बिजली की व्यवस्था हुई है। नलकूपों और कुओं से पानी-निकासी के लिए १,००० गांवों में बिजली सुलभ है। बिजली वाले शहरों की संख्या १९५१ ई० में १० थी और १९५६ ई० में यह संख्या २७ तक पहुंच गयी। दक्षिण बिहार में अधिकांश बिजली दामोदर घाटी निगम से मिलती है। उत्तर बिहार में ११ बिजली-उत्पादक केन्द्र स्थापित किये गये हैं जो ९ मेगावाट बिजली तैयार कर सकेंगे।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए दामोदर घाटी योजना के अतिरिक्त बिजली की २० योजनाएं हैं। दक्षिण बिहार में ११ केन्द्रों में बिजली अधिकांशतः दामोदर घाटी निगम से खरीदी जायगी और इन केन्द्रों से बिजली की मात्रा १२० मेगावाट तक पहुंच जाने की संभवना है। लगभग ९,००० मील लम्बी बिजली की लाइनें बिछायी जायंगी। द्वितीय योजना की अवधि में २ से ५ हजार तक की आबादी वाले ६०० गांवों में बिजली पहुंच जायगी। उत्तर बिहार में एक और थरमल पावर स्टेशन की व्यवस्था की गयी है। तीन जल-विद्युत् केन्द्र स्थापित करने का प्रश्न परीक्षणाधीन है। बिजली की मद में २६,८५,१७,००० रु० की व्यवस्था है।

यातायात

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों के विकास की मद में पहले ८ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसे बाद में बढ़ाकर १० करोड़ ७५ लाख रुपये कर दिया गया। इसके अतिरिक्त भारत-सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान की राशि से ५४ लाख रुपये, राष्ट्रीय राजपथों पर २ करोड़ २० लाख रुपये और केन्द्रीय सड़क कोष से [illegible] करोड़ २० लाख रुपये खर्च किये गये। फलस्वरूप, प्रथम योजना के अन्त में, जिला-बोर्डों की पक्की सड़कों

को छोड़कर लोक-निर्माण विभाग के अधीन ३,८६० मील लंबी सड़कें थीं, फिर भी, १९६० ई० में बिहार में प्रति एक लाख की आबादी पर ९.६ मील से अधिक सड़क होगी। द्वितीय योजना में सड़कों की मद में १६,९५,०९,००० रु० की व्यवस्था है। कुल २,३३७ मील सड़कों का काम हाथ में लेने का विचार है जिसमें से १,५५७ मील सड़कें द्वितीय योजना की अवधि में सुधारी जायंगी और शेष ७८० मील तृतीय योजना की अवधि में।

सहकारिता

राज्य-सहकारिता बैंक में हिस्सा-पूंजी के रूप में राज्य-सरकार ने ४० लाख रुपये लगाये हैं और द्वितीय योजना की अवधि में यह राशि ६० लाख रुपये और बढ़ा दी जायगी।

१९५४-५५ ई० में बुनकर सहकारिता समिति के ३८,००० सदस्य थे, ३८१ बुनकर सहकारिता समितियां थीं और ५४ विक्रय-केन्द्र थे जिनकी संख्या बढ़कर १९५५-५६ ई० में क्रमशः ८५,०००, ५१२ और ६९ तक पहुंच गयी।

सभी राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंडों में बहुधंधी सहकारिता समितियां संघटित करने का विचार है और आशा है कि प्रत्येक खंड में ऐसी ७० से ८० तक समितियां हो जायंगी। वर्त्तमान १२,०५२ बहुधंधी सहकारिता समितियों को खंड-विकास-समितियों में संघटित किया जा रहा है।

सहकारिता के क्षेत्र में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ३,५८,८७,००० रु० के खर्च की व्यवस्था है। उस अवधि में बड़ी-बड़ी ५०० और छोटी-छोटी ८,००० बहुधंधी सहकारिता समितियां बनायी जायंगी, किसानों को ऋण देने के लिए जमीन रेहन बैंक भी खोलने का विचार है। दो सहकारिता चीनी मिलें और रुई

के गट्ठर बांधने के दो यंत्र बिठाये जाने वाले हैं

एक दूसरा सहकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पूसा में चालू किया जाने वाला है। एक राज्य कृषि ऋण निधि भी स्थापित करने की योजना है।

राष्ट्रीय विस्तार-सेवा और सामुदायिक विकास

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंडों की प्रगति संतोषजनक रही है।

कार्यक्रम के अनुसार बिहार में ५९७ अंचल-सह-विकस-खंड स्थापित किये जाने वाले हैं जिनमें से ९९ खंड राष्ट्रीय विस्तार-सेवा के अन्तर्गत आ चुके हैं। इनमें से २२ विकास-खंड हैं और शेष ७७ राष्ट्रीय विस्तर-सेवा-खंड। इन ९९ खंडों के अन्तर्गत १४,८३७ गांव आते हैं जिनका कुल क्षेत्रफल १२,९९५ वर्गमील है।

समुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार-सेवा के काम में लोगों का सहयोग उत्साहवर्द्धक रहा है। इसका एक प्रमाण यह है कि जहां सरकार की ओर से ३ करोड़ २४ लाख ९७ हजार रुपये खर्च किये गये वहां लोगों ने नकद, सामग्री या श्रम के रूप में ३ करोड़ ३२ लाख ९८ हजार रुपये लगाये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनेक राष्ट्रीय विस्तार-सेवा-खंडों को सामुदायिक विकास खंडों में परिवर्तित कर दिया जायगा। प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार-सेवाखंड के सामुदायिक विकास-खंड में परिवर्तित होने में औसतन डेढ़ वर्ष का समय लगेगा। सामुदायिक विकास-खंड की सामान्य अवधि तीन वर्ष है। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के लिये कुल चार वर्ष का समय लग जाय। इसके बाद सामुदायिक विकास-खंड पुनः प्रशासन के राष्ट्रीय विस्तार के सेवा के रूप में परिवर्तित हो जायगा।

चिकित्सा और जन-स्वास्थ्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में सभी जिला और सबडिविजनल अस्पतालों का प्रान्तीयकरण हो गया और साथ-साथ अस्पतालों में सुविधाएं भी बढ़ा दी गयीं। १९५१ ई० में कुल ७२८ अस्पताल थे जिनमें से केवल ४० सरकारी अस्पताल थे, और १९५५-५६ ई० में कुल ८१६ अस्पताल थे जिनमें से राज्य सरकार के प्रबन्ध में १३७ अस्पताल थे। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक नया राजेन्द्र सर्जिकल ब्लॉक बनाया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में ३०० अस्पताल और औषधालय और स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने वाले हैं जिनसे कुल संख्या १,११६ हो जायगी जिनमें ५२८ सरकारी अस्पताल होंगे।

१९५१-५२ ई० में रजिस्टर्ड डाक्टरों की संख्या ४,८१३ थी और १९५५-५६ ई० में यह संख्या ५,६३० हो गयी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक यह संख्या बढ़कर ६,९४० तक पहुंच जायगी। राज्य में इससमय दो मेडिकल कॉलेज हैं। एक तीसरा कॉलेज राँची में खोलने का निश्चय हो चुका है। रांची मेडिकल कॉलेज के लिए ९·७००६ लाख रुपये के सामान खरीदे जा चुके हैं। प्राध्यापकों तथा शिक्षकों के आवास के निर्माण केलिए सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अब कॉलेज भवन तथा तत्संबन्धी अस्पताल के मकान का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ होनेवाला है। प्रथम योजना के प्रारम्भ में परिचारिकाओं की संख्या ३४४ थी जो १९५५-५६ ई० में बढ़कर ७४४ हो गयी। और द्वितीय योजना के अन्ततक इससे बढ़कर १,२०० तक पहुंच जाने की आशा है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य में चार फार्मेसी स्कूल खोले जाने वाले हैं, प्रत्येक डिविजन में एक।

१९५१ ई० में ११० प्रशिक्षित सफाई निरीक्षक और १,००० प्रशिक्षित टीका देने वाले थे, १९५६ ई० में ये संख्यायें क्रमशः ४२० और १,६८५ तक पहुंच गयीं तथा १९६१ ई० तक ये संख्याएं क्रमशः १,००५ और २,००० तक पहुंच जायंगी, ऐसी आशा है।

लोक-स्वास्थ्य-व्यवस्था के फलस्वरूप हैजे से होने वाली मृत्यु-संख्या प्रति १० लाख पर १,३०० से घटकर ३४ और चेचक से मृत्यु-संख्या प्रति १० लाख पर ३०० से घटकर १६ तक पहुंच गयी है। पच्चीस हजार की आबादी वाले प्रत्येक शहर में नल के पानी की व्यवस्था की गयी है और उत्तर बिहार के बाढ़-पीड़ित क्षेत्र में चिकित्सा, आदि की पूरी व्यवस्था कर दी गयी है। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १५,००० या इससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों में नल के पानी की व्यवस्था हो जायगी। ग्रामीण क्षेत्रों में नल के पानी का प्रबन्ध किया जायगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में खोले गये सभी आयुर्वेदिक औषधालय सरकारी प्रबन्ध में लिए जायंगे। साथ ही राज्य के सभी आयुर्वेदिक कॉलेजों के प्रान्तीयकरण का विचार है। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं तैयार करने के लिए एक अलग फार्मेसी पटना में स्थापित की जायगी। पटना में होमियोपैथी की एक सरकारी फार्मेसी खोलने का आयोजन है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में दरभंगा और रांची में यक्ष्मा प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाने वाले हैं। प्रत्येक जिला में दांत के रोगों के इलाज के लिए औषधालय खोले जायंगे। ५० मातृ-सदन और शिशु-कल्याण-केन्द्र तथा ५५ परिवार-आयोजन-केन्द्र खोले जायंगे।

जन-स्वास्थ्य और चिकित्सा की मद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १६,११,७१,००० रु० की व्यवस्था है।

उद्योग

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में गैर-सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी में एक सीमेंट फैक्टरी और सरकारी क्षेत्र में सिन्दरी में रासायनिक खाद की फैक्टरी खुली थी। लघु और कुटीर उद्योगों ने, विशेष कर हाथ-करघा उद्योग ने, जिसके लिए १ करोड़ १२ लाख रुपये की व्यवस्था थी, अच्छी उन्नति की। द्वितीय योजना में इनके लिए १२ करोड़ रुपये की व्यवस्था है और लोगों को रोजगार देने के लिये लगभग ४०,००० नये धन्धों की सृष्टि की जायगी। केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य-सरकार मध्यम कोटि के औद्योगिक कारखाने खोलने वाली है। साथ ही, एक सहकारिता चीनी मिल और पाट के गट्ठर तैयार करने का एक सहकारिता कारखाना खोलने का आयोजन है।

कुटीर और लघु उद्योगों के विकास के लिए द्वितीय योजना में (१) प्रशिक्षण, (२) शोध और विस्तार, और (३) विक्रय, ऋण, आदि की सुविधा की व्यवस्था है।

पटना-स्थित कुटीर-उद्योग-प्रतिष्ठान को केन्द्रीय पोलीटेक्निक के रूप में पुनः संघटित किया जा रहा है। दो महिला औद्योगिक विद्यालयों का विस्तार किया जायगा तथा ऐसे और चार नये विद्यालय खोले जायंगे।

राष्ट्रीय-विस्तार-सेवा क्षेत्रों में लगभग ३०० नये उत्पादन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का आयोजन है। कुटीर और लघु उद्योग के विकास के उद्देश्य से तीन शोध-प्रतिष्ठान स्थापित किये जायंगे। सिन्दरी में अवस्थित किये जानेवाले लघु-उद्योग-शोध-प्रतिष्ठान में विविध प्रकार के कार्य होंगे। वर्त्तमान हाथकरघा शोध और डिजाइन केन्द्र को और भी विकसित किया जायगा। पूना-स्थित संस्था के ढंग पर एक ग्राम-उद्योग-प्रयोगात्मक कारखाना मुजफ्फरपुर में स्थापित किया जायगा।

हाथकरघों की जगह बिजली-चालित करघे का प्रयोग चार चुने हुए स्थानों पर किया जायगा। निम्नलिखित ग्रामोद्योगों के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है :—

(१) तेल, (२) चमड़ा, (३) गुड़ और खांडसारी, (४) ताड़ का गुड़, (५) मिट्टी के बर्त्तन, (६) हाथ-बना कागज, (७) मधुमक्खी-पालन, (८) दियासलाई, (९) रेशे की चीजों की तैयारी, (१०) बांस की चीजें, (११) साबुन, और (१२) हाथ से चावल की कुटाई और आटे की पिसाई।

रेशम के कीड़ों का पालन, सीप का बटन और कांटा-छुरी शिल्प के उद्योगों के भी विकास की योजना है।

सरकार द्वारा एक केन्द्रीय वर्कशॉप स्थापित किया जाने वाला है। इसके आस-पास छोटे-छोटे यूनिट स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को ऋण, आदि देकर प्रोत्साहित कर, साइकिल के कल-पुर्जे, खेल-कूद के सामान, प्लास्टिक के सामान, आदि तैयार किये जायंगे।

राज्य सरकार लघु और मध्यम उद्योगों के लिए औद्योगिक नियोजन और परामर्श के रूप में सेवाएं प्रदान करेगी। उपभोक्ता-सामग्री-उद्योगों के विकास के लिए एक बड़ा और दो छोटे औद्योगिक इस्टेट और वर्कशॉप स्थापित करने का निश्चय किया गया है। पटने में दीघा के निकट बड़े औद्योगिक इस्टेट की नींव डाली जा चुकी है। किन्तु ऋण की पर्याप्त व्यवस्था के बिना इन सारी योजनाओं में कठिनाई हो सकती है, अतः इसके लिए द्वितीय योजना में उचित व्यवस्था कर दी गयी है।

भारत सरकार ने चौथे लोहा और इस्पात कारखाने को बोकारो में स्थापित करने का निश्चय किया है, और इसके द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में चालू हो जाने की आशा है।

शिक्षा

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सर्वतोमुखी प्रसार और सुधार हुआ। सभी कोटियों की शिक्षा संस्थाओं को अनुदान दिये गये ; शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हुई ; स्कूलों और कॉलेजों में विज्ञान के शिक्षण के लिए विस्तृत सुविधाएं प्रदान की गयीं ; कई स्कूलों में विविध अध्ययन-क्रम चालू किये गये ; छात्रों को रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार विषय चुनने की अधिक सुविधाएं दी गयीं ; पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहित किया गया ; बड़े पैमाने पर वयस्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी ; तथा प्राच्य भाषाओं के अध्ययन के पुनरुद्धार की व्यवस्था की गयी।

प्राइमरी स्तर पर ५वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी है। प्राइमरी शिक्षा के प्रसार और शिक्षित बेकारों को रोजगार देने के कार्यक्रम के अनुसार १९५३-५४ ई० और १९५४-५५ ई० में नियुक्त ६,२५० शिक्षकों के अतिरिक्त और भी २,५०० शिक्षक १९५६ ई० में नियुक्त किये गये। अतिरिक्त १,७९,४०० रु० के आवर्त्तक व्यय पर २०० लोअर प्राइमरी स्कूलों का स्तर बढ़ाकर उन्हें अपर प्राइमरी स्कूल बना दिया गया।

इस समय राज्य में ५ पूर्व-आधार विद्यालय, ५१९ आधार विद्यालय, २० सीनियर शिक्षण स्कूल, १४ आधारोत्तर स्कूल, और ५ शिक्षक प्रशिक्ष णकॉलेज और ४१ जूनियर बुनियादी प्रशिक्षण स्कूल राज्य सरकार के प्रबन्ध में है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित एक-शिक्षक वाले विद्यालयों को द्वितीय योजना की अवधि में विकसित किया जायगा। मिडिल स्कूलों में शिल्प-शिक्षा की व्यवस्था की जायगी। वर्त्तमान १,३५० प्राइमरी

और मिडिल स्कूलों के भवनों के जीर्णोद्धार की व्यवस्था होगी। ११ जूनियर बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों का स्तर बढ़ाकर उन्हें सीनियर बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय कर दिया गया है। साथ ही, २० सीनियर बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों का प्रसार और सुधार किया जायगा। अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के लिए उचित व्यवस्था कर दी गयी है।

माध्यमिक शिक्षा—१९५६-५७ में माध्यमिक विद्यालयों (आधारोत्तर विद्यालयों के सहित) की संख्या १,६६५ थी। विगत वर्ष में २२ गैर-सरकारी हाई स्कूलों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिवर्त्तित किया गया है।

प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव दूर कर देने के लिए १९५५-५६ ई० में रांची ट्रेनिंग कॉलेज खोला गया। इस प्रकार विहार राज्य में पांच ट्रेनिंग कॉलेज हो गये जिनमें एक कॉलेज महिलाओं के लिए है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा के लिए ५ करोड़ १० लाख रुपये की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष ५० की दर से हाई स्कूलों की संख्या में वृद्धि होती जायगी। छोटानागपुर और संताल परगना के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में ५५ पूर्णतः साहाय्यप्रदत्त हाई स्कूल खोले जायंगे। लगभग ५० स्कूल विविध विषयक स्कूलों में परिवर्त्तित किये जायंगे। गैर-सरकारी सेकेन्डरी हाई स्कूल के सुधार के लिए प्रतिवर्ष ४ लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जायगा। साथ ही शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष २५ लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जायगा।

स्त्री-शिक्षा—राज्य में इस समय स्त्री-शिक्षा के लिए प्रत्येक जिला के सदर मुकाम में एक सरकारी हाई स्कूल और कुल ४० सरकारी मिडिल स्कूल हैं। सभी

गैर-सरकारी हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों को सरकारी

अनुदान दिये जाते हैं। अध्यापिकाओं की कमी दूर करने के उद्देश्य से ऐसी १०० छात्राओं को वृत्तियां देने की व्यवस्था की गयी है जो मैट्रिकुलेशन के बाद अध्यापन-कार्य करने को तैयार हों। स्कूलों में अधिकाधिक बालिकाओं को आकृष्ट करने के लिए कुछ विशेष योजनाएं तैयार की गयी हैं।

विश्वविद्यालय—बिहार विश्वविद्यालय को १९५५-५६ ई० में मुजफ्फरपुर, रांची और भागलपुर के महिला कॉलेजों का विकास करने के लिए ४८,३३८ रुपये का अनावर्त्तक अनुदान दिया गया।

१९५६-५७ ई० में बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में आइ० एस-सी० कक्षा में १,८७२ नए स्थानों की स्वीकृति दी गयी। द्वितीय योजना की अवधि में रांची में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने वाला है। सन् १९५६-५७ में बिहार विश्वविद्यालय को कुल ५३,२८,६८७ रु० का अनुदान स्वीकृत किया गया।

जैन दर्शन, प्राकृत भाषा और साहित्य के क्षेत्र में अध्ययन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए वैशाली में एक प्रतिष्ठान स्थापित किया गया है। राष्ट्रभाषा परिषद् के प्रसार की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक डिवीजन के सदर मुकाम में एक संस्कृत कॉलेज स्थापित किया गया है।

शारीरिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी स्वास्थ्य और शारीरिक-शिक्षा-कॉलेज को विकसित करने की व्यवस्था की गयी है। एक पूर्ण-कालिक शारीरिक शिक्षक रखने के लिए चुने हुए हाई स्कूलों को साहाय्य प्रदान किया जायगा।

सामाजिक शिक्षा—१९५४-५५ ई० में सामाजिक शिक्षा के केन्द्रों की संख्या १,[illegible]१२ थी और १९५५-५६ ई० में

बढ़कर २,११५ हो गयी। सामाजिक शिक्षा और सामाजिक सेवा में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। तुर्कीस्थित जनता कॉलेज में दो शाखाएं खोली जायंगी जिनमें से एक महिलाओं के लिए होगी और दूसरी पुरुषों के लिए। सामाजिक शिक्षा और वयस्क-शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था की गयी है।

प्राविधिक शिक्षा—प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण प्रथम योजना के कार्यान्वियन में कठिनाई होते देखकर द्वितीय योजना में इसकी पूर्त्ति की व्यवस्था की गयी है। प्रथम योजना-काल में एक और सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज, दो इंजीनियरिंग स्कूल, एक जूनियर टेक्निकल स्कूल और इंस्ट्रक्टरों के प्रशिक्षण के लिए अध्ययन-क्रम चालू किए गए थे। दूसरी योजना के अन्तर्गत सिन्दरीस्थित बिहार इंस्टिच्यूट ऑफ टेक्नालौजी का बहुत कुछ विकास किया जायगा। वर्त्तमान तीन इंजीनियरिंग स्कूलों (रांची, भागलपुर और पटना) के अतिरिक्त एक और इंजीनियरिंग स्कूल खोला जायगा। द्वितीय योजना-काल में १० और जूनियर टेक्निकल स्कूल खोले जायेंगे। रांची में एक नया कृषि-कॉलेज खोला गया है। कृषि-स्कूलों की संख्या बढ़कर १७ हो गई है। एक नया विस्तार-प्रशिक्षण-केन्द्र खोला गया है।

पशु-चिकित्सा कॉलेज में डिग्री कोर्स के लिए दो शिफ़्ट की व्यवस्था कर दी गई है जिससे वहां से अधिकाधिक संख्या में छात्र तैयार होकर निकलें। साथ ही डिप्लोमा कोर्स भी शुरू कर दिया गया है। द्वितीय योजना के अन्त तक आशा की जाती है कि पशु-चिकित्सा के ८८७ स्नातक तैयार होकर निकल सकेंगे। भागलपुर में पशुधन-सर्वेक्षक- प्रशिक्षण-केन्द्र खोला गया है। दरभंगे में स्टॉकमैन का प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया है। सहकारिता समितियों के संघटन और सर्वेक्षण के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

पशु-चिकित्सा और पशुपालन

प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुरू में इस राज्य में १६८ मवेशी अस्पताल और दवाखाने थे और योजना के अन्त तक इनकी संख्या २२३ तक पहुंच गई। द्वितीय योजना में १,३८,११,००० रु० के अनुमित व्यय पर ३८० नये मवेशी दवाखाने खोले जायंगे। सभी जिला मवेशी अस्पतालों का लगभग ११,८३,००० रु० के व्यय पर प्रांतीयकरण किया जाने वाला है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १९५६-५७ के अन्त तक १२ मवेशी अस्पतालों का प्रांतीयकरण किया गया। पशु-चिकित्सा सेवा के प्रसार और सुधार पर कुल अनुमित व्यय-राशि १,४९,९४,००० रु० है।

द्वितीय योजना-काल में प्रत्येक राष्ट्रीय-विस्तार सेवा-प्रखंड में एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और तीन उप-केन्द्र खोले जायंगे। प्रत्येक जिले में मुर्गी-विकास-केन्द्र खोलने की योजना है। १९६१ तक ४ बड़े फार्म और १३ मुर्गी-विकास-केन्द्र स्थापित किया जाने वाला है।

कल्याण-कार्य

प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित वनजातियों के कल्याण के लिए १४१.४ लाख रुपए की स्वीकृत व्यय-राशि की जगह २५७.७ लाख रुपए का व्यय किया गया। इस संबंध में १५,३९३ छात्रवृत्तियां दी गयीं और ५७ छात्रावास खोले गए। ३,९८१ छात्रों को पाठ्य-पुस्तक खरीदने के लिए तथा विश्वविद्यालय के परीक्षा-शुल्क के लिए अनुदान दिए गए।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए ४५,२०९ छात्रवृत्तियां दी गयीं तथा ३८

छात्रावास खोले गए। अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के कुल १४,७०३ छात्रों को पाठ्य-पुस्तक तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा-शुल्क के लिए अनुदान दिए गए। पिछड़ी मुस्लिम जाति के छात्रों को १३,१७५ छात्रवृत्तियां दी गयीं तथा ३ छात्रावास खोले गए।

अनुसूचित वनजातियों तथा अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए ३९० गल्ला गोदाम खोले गए। इसके अतिरिक्त उनके लिए शुद्ध पेयजल के कुएं बनवाए गये, नई सहयोग समितियां खोली गयीं, नई सड़कों का निर्माण किया गया, आवास तथा जोत के लिए सरकार की ओर से जमीनें दी गयीं तथा जमीन संबंधी उनके हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा विशेष कानून बनाये गए।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में अनुसूचित जन-जातियों के लिए निम्नलिखित कार्य किये जायंगे:—(१) २०० नये स्कूल और ५१ छात्रावास खोले जायंगे ; (२) पुस्तक अनुदान तथा विश्वविद्यालय परीक्षा-शुल्क के अतिरिक्त १२,८९० वृत्तियां दी जायंगी ; (३) नये २६ अनाज के गोले खुलेंगे और गोलों के २६ भवन बनवाये जायंगे ; (४) ३३८ आदिवासी परिवारों को बसाया जायगा ; (५) कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए ५०० व्यक्तियों को ऋण दिए जायंगे ; (६) ८,३९५ कुएं और ५०६ मील ग्रामीण सड़कें बनायी जायंगी ; और इसके अतिरिक्त अन्य शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के कार्य किए जायंगे।

अनुसूचित जातियों के लिए निम्नलिखित कार्य किये जायंगे :—(१) २९,८०० वृत्तियां दी जायंगी ; (२) २ छात्रावास-भवन बनेंगे ; (३) ५०० स्कूल खुलेंगे ; (४) १४ सहकारिता समितियां संघटित होंगी ; (५) २२६ अनाज के गोले खुलेंगे ; (६) ५,२[illegible] कुएं

बनेंगे ; (७) कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए ७५० व्यक्तियों को ऋण दिए जायंगे। भूतपूर्व अपराधी जातियों के पुनर्वास और अस्पृश्यता-निवारण की भी कई योजनाएं हैं।

पिछड़े वर्गों के लिये १६,७२५ वृत्तियां दी जायंगी ; ५ छात्रावास खोले जायंगे और ५ छात्रावास-भवन बनाए जायंगे; चम्पारण में थारू समुदाय के लिए खोले गए स्कूलों का स्तर बढ़ाया जायगा ; कुटीर-उद्योगों के विकास के लिए २०० व्यक्तियों को ऋण दिए जायंगे ; और ७२ कल्याण-विस्तार-योजना-केंद्र खोले जायंगे।

कल्याण-कार्यों की सभी योजनाओं के लिए कुल ५ करोड़ ७० लाख रुपये की व्यवस्था है।

श्रम-कल्याण

श्रमिकों की सुविधाएं बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक व्यवस्थाएं की गयी हैं। खेतिहर-मजदूरों और दूकान के मजदूरों के हित-रक्षण के लिए भी उचित व्यवस्था की गयी है।

प्रथम योजना-काल में राज्य में ५ आदर्श कल्याण-केंद्र खोले गये थे ; द्वितीय योजना-काल में और भी ५ केंद्र खोले जायेंगे। रिक्शा चालकों के लिए ३५ लाख रुपये के अनुमित व्यय पर २५ विश्राम-स्थल बनाये जायेंगे।

नियोजनालयों के कार्यों का विकास किया जानेवाला है।

आवास-व्यवस्था

जुलाई १९५५ ई० में एक आवास-विभाग खोला गया जिसके जिम्मे निम्नलिखित योजनाएं हैं :—(१)

औद्योगिक-आवास, (२) अल्प-आय-वर्ग-आवास, (३) भंगी-आवास, (४) भूमि और गृहहीन हरिजनों के लिए आवास, (५) भूतपूर्व अपराधी जनजातियों के लिए आवास, (६) बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में आवास, (७) भारत सरकार की साहाय्य-प्रदत्त आवास-योजना, (८) बागान के मजदूरों के लिए आवास, (९) मजदूरों के गंदे मुहल्लों की सफाई, (१०) मध्यम-आय-वर्ग-आवास-योजना, और (११) ग्रामीण-आवास-योजना।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में कारखानों को, कर्मचारियों के लिए घर बनवाने के लिए १,१२,५०,००० रु० ऋण दिए गए। अल्प-आय-वर्ग-आवास-योजना के अन्तर्गत अब तक १० लाख रुपये का ऋण पटना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दिया गया है।

आवास-योजना की मद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५ करोड़ ९२ लाख और ४३ हजार रुपये की व्यय-राशि व्यवस्था है।

सड़क-परिवहन का राष्ट्रीयकरण

सड़क-परिवहन के राष्ट्रीयकरण की दिशा में कार्यारंभ १९४८ ई० में हुआ था, जब सराइकेला राज्य के बिहार में विलयन के बाद राज्य सरकार ने वहाँ के सड़क-परिवहन को अपने हाथ में ले लिया था, फिर १४ अगस्त १९५२ ई० को जमशेदपुर में सड़क-परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ।

'राज्य-ट्रांसपोर्ट' की स्थापना २६ जनवरी १९५३ ई० को हुई थी; उसी दिन पटना में और पटना के आसापास के सड़क-परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया।

१ जनवरी १९५४ ई० को जमशेदपुर-चाईवासा और जमशेदपुर-मोसावनी की सड़कें राज्य-ट्रांसपोर्ट-व्यवस्था

के अन्तर्गत आ गईं। १ अप्रील १९५४ ई० को गया जिले की महत्वपूर्ण सड़कें और २६ जनवरी १९५६ ई० को मुंगेर जिले की पक्की सड़कें और मुंगेर से भागलपुर तक की सड़कें राज्य-ट्रांसपोर्ट के अन्तर्गत आयीं। द्वितीय योजना-काल में इस व्यवस्था का कार्य-विस्तार किया जायगा और इसके लिए ४३० गाड़ियों की व्यवस्था की गयी है।

जंगल

गंगा के दक्षिणी भाग में एक वनरोपण प्रमंडल काम कर रहा है और उसने लगभग ५,५०० एकड़ बंजर भूमि में वृक्ष लगाए हैं। उत्तरी विभाग में भी एक प्रमंडल काम कर रहा है जो कोसी के तटबन्धों पर वृक्ष लगाने में लगा हुआ है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में मुख्यत: दो काम किया जाने वाला है:—(१) मिट्टी-संरक्षण, और (२) जंगल विकास।

मिट्टी-संरक्षक-योजनाओं पर कुल खर्च ५७ लाख रु० का और जंगल-विकास-योजनाओं पर कुल ४,१७,७८,००० रु० की व्यय-राशि की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय गीत

जन-गण-मन-अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता ।
पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा,
द्राविड़, उत्कल, बंग,
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि-तरंग ।
तव शुभ-नामे जागे,
तव शुभ आशीष मांगे,
गाये तव जय गाथा ।
जन-गण-मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता,
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय , जय हे ।

कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ द्वारा रचित यह पद्य २४ जनवरी, १९५० ई० को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृत हुआ । साथ ही, बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित "वन्दे-मातरम्" को भी राष्ट्रीय गीत का स्थान दिया गया। "वन्दे-मातरम्" का पद्य निम्नलिखित है:—

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफलां मलयज शीतलां
शस्यश्यामलां मातरम्
शुभ्रज्योत्सनापुलकितयामिनीं
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं
सुहासिनीं मधुरभाषिनीं
सुखदां वरदां मातरम् ।

राष्ट्रीय चिन्ह

स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के सारनाथ-स्थित सिंहशीर्ष पर आधारित है। यद्यपि मूल सिंह-शीर्ष में चार सिंह हैं; राष्ट्रीय चिन्ह में केवल तीन सिंह ही दीख पड़ते हैं। सिंहों के पाद-तल में एक चक्र बना हुआ है और इसके एक ओर घोड़ा और दूसरी ओर बैल बना हुआ है। सबसे नीचे नागरी लिपि में मुंडकोपनिषद् का "सत्यमेव जयते" अंकित है।

राष्ट्रीय झंडा

स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय झंडा चतुर्भुजाकार और तिरंगा है जिसमें सबसे ऊपर गाढ़ा केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे गाढ़ा हरा रंग है और झंडे के तीनों भाग बराबर हैं। झंडे के बीच में सफेद अंश पर, गाढ़े पीले रंग में एक चक्र अंकित है जो सिंहशीर्ष पर के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। चक्र के व्यास की लम्बाई सफेद अंश की चौड़ाई के बराबर होती है और उसमें अरों की संख्या २४ है।

राष्ट्रीय झंडे का उपयोग निर्धारित नियमावली के अनुसार ही होना चाहिए।

विभिन्न प्रकार के कागज और उनके आकार

फूलसकेप	१३½" × १७½"
क्राउन	१५" × २०"
लार्ज पोस्ट	१६½" × २१"
डिमाई	१७½" × २२½"
मीडियम	१८" × २३"
रवाएल	२०" × २५"
सुपर रवाएल	२०" × २७"
इम्पीरिएल	२२" × ३०"
डबल फूलसकेप	१७½" × २७½"
डबल क्राउन	२०" × ३०"
डबल डिमाई	२२२/३" × ३५"
डबल रवाएल	२५" × ४०"
डबल सुपर रवाएल	२७" × ४०"
क्वैड फूलसकेप	२७" × ३५"
क्वैड क्राउन	३०" × ४०"
क्वैड डिमाई	३५" × ४५"
क्वैड रवाएल	४०" × ५०"

दैनिक वेतन की तालिका

मासिक वेतन	२८ दिन		३० दिन		३१ दिन	
रुपये	रु०	न० पै०	रु०	न० पै०	रु०	न० पै०
१	०	४	०	३	०	३
२	०	७	०	७	०	६
३	०	११	०	१०	०	१०
४	०	१४	०	१४	०	१३
५	०	१८	०	१७	०	१६
६	०	२१	०	२०	०	१९
७	०	२५	०	२३	०	२२
८	०	२९	०	२७	०	२६
९	०	३२	०	३०	०	२९
१०	०	३६	०	३३	०	३२
११	०	३९	०	३६	०	३५
१२	०	४३	०	४०	०	३९
१३	०	४६	०	४३	०	४२
१४	०	५०	०	४७	०	४५

मासिक वेतन	२८ दिन		३० दिन		३१ दिन	
रुपये	रु०	न० पै०	रु०	न० पै०	रु०	न० पै०
१५	०	५४	०	५०	०	४८
१६	०	५७	०	५३	०	५२
१७	०	६१	०	५७	०	५५
१८	०	६४	०	६०	०	५८
१९	०	६८	०	६४	०	६१
२०	०	७१	०	६७	०	६५
२१	०	७५	०	७०	०	६८
२२	०	७९	०	७३	०	७१
२३	०	८२	०	७७	०	७४
२४	०	८६	०	८०	०	७८
२५	०	८९	०	८३	०	८१
३०	१	०७	१	००	०	९७
३५	१	२५	१	१७	१	१३
४०	१	४३	१	३३	१	२९

पुराने सिक्कों का नये सिक्कों में बदलना

आने	पाइयाँ	नये पैसे	आने	पाइयाँ	नये पैसे	आने	पाइयाँ	नये पैसे	आने	पाइयाँ	नये पैसे
०	३	२	४	३	२७	८	३	५२	१२	३	७७
०	६	३	४	६	२८	८	६	५३	१२	६	७८
०	९	५	४	९	३०	८	९	५५	१२	९	८०
१ आना		६	५ आने		३१	९ आने		५६	१३ आने		८१
१	३	८	५	३	३३	९	३	५८	१३	३	८३
१	६	९	५	६	३४	९	६	५९	१३	६	८४
१	९	११	५	९	३६	९	९	६१	१३	९	८६
२ आने		१२	६ आने		३७	१० आने		६२	१४ आने		८७
२	३	१४	६	३	३९	१०	३	६४	१४	३	८९
२	६	१६	६	६	४१	१०	६	६६	१४	६	९१
२	९	१७	६	९	४२	१०	९	६७	१४	९	९२
३ आने		१९	७ आने		४४	११ आने		६९	१५ आने		९४
३	३	२०	७	३	४५	११	३	७०	१५	३	९५
३	६	२२	७	६	४७	११	६	७२	१५	६	९७
३	९	२३	७	९	४८	११	९	७३	१५	९	९८
४ आने		२५	८ आने		५०	१२ आने		७५	१६ आने		१००

लम्बाई-चौड़ाई के नाप की दाशमिक प्रणाली

१ इंच	..	०.०२५४ मिटर।
१ फुट	..	०.३०४८ ,,
१ गज	..	०.९१४४ ,,
१ मील	..	१६०९.३४४ ,,
१० मिलिमिटर	..	१ सेन्टिमिटर।
१० सेन्टिमिटर	..	१ डेसिमिटर।
१० डेसिमिटर	..	१ मिटर।
१० मिटर	..	१ डेकामिटर।
१० डेकामिटर	..	१ हेक्टोमिटर।
१० हेक्टोमिटर	..	१ किलोमिटर।

तौल की दाशमिक प्रणाली

१ ग्रेन	..	०.००००६४७९९ किलोग्राम।
१ औंस	..	०.०२८३४९५ ,,
१ पौंड	..	०.४५३५९२४ ,,
१ हण्डरवेट	..	५०.८०२ ,,
१ टन	..	१०१६.०५ ,,
१ तोला	..	०.०११६६३८ ,,
१ सेर	..	०.९३३१० ,,
१ मन	..	३७.३२४२ ,,
१० मिलिग्राम	..	१ सेन्टिग्राम।
१० सेन्टिग्राम	..	१ डेसिग्राम।
१० डेसिग्राम	..	१ ग्राम।
१० ग्राम	..	१ डेकाग्राम।
१० डेकाग्राम	..	१ हेक्टोग्राम।
१० हेक्टोग्राम	...	१ किलोग्राम।
१० किलोग्राम	..	१ मिरियोग्राम।
१० मिरियोग्राम	..	१ क्विन्टल।
१० क्विन्टल	..	१ मेट्रिक टन।

स्मृति पत्र

एन. एल. गुप्ता
गुप्ता ब्रदर्स
गवर्नमेंट क्वार्टर
220 बी. हीरानगर

{ प्रसाद जी की पाण्डुलिपि।
श्री [illegible] जी के जीवनी।
[illegible] के पत्र-प्रतिलिपि।

विष्णुमित्र
संपादक
(कलाविद)
[illegible] जी के प्रदर्शित

बुधवार **१ जनवरी, १९५८**

फस० २५ पूस १३६५ | शक० ११ पौष, १८७९
वि० ११ पौष शु० २०१४ | भरणी नक्षत्र
सूर्योदय—६-४६ | सूर्यास्त—५-१४

वृहस्पतिवार **२ जनवरी, १९५८**

फस० २६ पूस १३६५ | शक० १२ पौष, १८७९
वि० १२ पौष शु० २०१४ | कृति० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४६ | सूर्यास्त—५-१४

शुक्रवार **३ जनवरी, १९५८**

फस० २७ पूस १३६५ | शक० १३ पौष, १८७९
वि० १३ पौष शु० २०१४ | रोहिनी नक्षत्र
सूर्योदय—६-४६ | सूर्यास्त—५-१४

शनिवार **४ जनवरी, १९५८**

फस० २८ पूस १३६५ | शक० १४ पौष, १८७९
वि० १४ पौष शु० २०१४ | मृग० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४६ | सूर्यास्त—५-१४

रविवार **५ जनवरी, १९५८**

फस० २९ पूस १३६५
वि० पौष पूर्णिमा २०१४
सूर्योदय—६-४५

शक० १५ पौष, १८७९
आर्द्रा नक्षत्र
सूर्यास्त—५-१५

सोमवार **६ जनवरी, १९५८**

फस० १ माघ १३६५
वि० १ माघ कृ० २०१४
सूर्योदय—६-४५

शक० १६ पौष, १८७९
पुनर्व० नक्षत्र
सूर्यास्त—५-१५

मंगलवार **७ जनवरी, १६५८**

फस० २ माघ १३६५ — शक० १७ पौष, १८७६

वि० २ माघ कृ० २०१४ — पुष्य नक्षत्र

सूर्योदय—६-४५ — सूर्यास्त—५-१५

बुधवार **८ जनवरी, १६५८**

फस० ३ माघ १३६५ — शक० १८ पौष, १८७६

वि० ३ माघ कृ० २०१४ — श्लेषा नक्षत्र

सूर्योदय—६-४५ — सूर्यास्त—५-१५

वृहस्पतिवार **९ जनवरी, १९५८**

फस० ४ माघ १३६५
वि० ४ माघ कृ० २०१४
सूर्योदय—६-४४

शक० १९ पौष, १८७९
मघा नक्षत्र
सूर्यास्त—५-१६

शुक्रवार **१० जनवरी, १९५८**

फस० ५ माघ १३६५
वि० ५ माघ कृ० २०१४
सूर्योदय—६-४४

शक० २० पौष, १८७९
पू० फा० नक्षत्र
सूर्यास्त—५-१६

शनिवार ११ जनवरी, १९५८

फस० ६ माघ १३६५ शक० २१ पौष, १८७९
वि० ६ माघ कृ० २०१४ उ० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४४ सूर्यास्त—५-१६

रविवार १२ जनवरी, १९५८

फस० ७ माघ १३६५ शक० २२ पौष, १८७९
वि० ७ माघ कृ० २०१४ हस्त नक्षत्र
सूर्योदय—६-४३ सूर्यास्त—५-१७

सोमवार **१३ जनवरी, १९५८**

फस० ८ माघ १३६५ शक० २३ पौष, १८७९
वि० ८ माघ कृ० २०१४ चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-४३ सूर्यास्त—५-१७

परवा
अजित आकांक्षा

मंगलवार **१४ जनवरी, १९५८**

फस० ९ माघ १३६५ शक० २४ पौष, १८७९
वि० १० माघ कृ० २०१४ स्वा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४३ सूर्यास्त—५-१७

(मकर संक्रान्तेः)

परवा
अजित आकांक्षा

बुधवार   १५ जनवरी, १९५८

फस० १० माघ १३६५   शक० २५ पौष, १८७९

वि० ११ माघ कृ० २०१४   विशा० नक्षत्र

सूर्योदय—६-४२   सूर्यास्त—५-१८

वृहस्पतिवार   १६ जनवरी, १९५८

फस० ११ माघ १३६५   शक० २६ पौष, १८७९

वि० १२ माघ कृ० २०१४   अनुरा० नक्षत्र

सूर्योदय—६-४२   सूर्यास्त—५-१८

शुक्रवार १७ जनवरी, १९५८

फस० १२ माघ १३६५ शक० २७ पौष, १८७९
वि० १३ माघ कृ० २०१४ ज्येष्टा नक्षत्र
सूर्योदय—६-४२ सूर्यास्त—५-१८

परता
कान्ति कुलश्रेष्ठा

शनिवार १८ जनवरी, १९५८

फस० १३ माघ १३६५ शक० २८ पौष, १८७९
वि० १४ माघ कृ० २०१४ मूल नक्षत्र
सूर्योदय—६-४१ सूर्यास्त—५-१९

परता
कान्ति कुलश्रेष्ठा

रविवार १९ जनवरी, १९५८

फस० १४ माघ १३६५ शक० २९ पौष, १८७९
वि० माघ अमावस्या २०१४ पू० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४१ सूर्यास्त—५-१९

परना

सोमवार २० जनवरी, १९५८

फस० १५ माघ १३६५ शक० १ माघ १८७९
वि० १ माघ शु० २०१४ उ० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४० सूर्यास्त—५-२०

परना
आज ब्यावरिस्
आचार्य पोदिवल्लीनि
आज्ञा २ बैठ के उद्घाटन)

फस० १६ माघ १३६५ शक० २ माघ, १८७९
वि० २ माघ शु० २०१४ श्रवण नक्षत्र
सूर्योदय—६-४० सूर्यास्त—५-२०

फस० १७ माघ १३६५ शक० ३ माघ, १८७९
वि० ३ माघ शु० २०१४ धनिष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय—६-३९ सूर्यास्त—५-२१

बृहस्पतिवार २३ जनवरी, १९५८

फस० १८ माघ १३६५ शक० ४ माघ, १८७९
वि० ३ माघ शु० २०१४ शतभि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३९ सूर्यास्त—५-२१

शुक्रवार २४ जनवरी, १९५८

फस० १९ माघ १३६५ शक० ५ माघ, १८७९
वि० ४ माघ शु० २०१४ पू० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३८ सूर्यास्त—५-२२

शनिवार 25 जनवरी, १९५८

फस० २० माघ १३६५ शक० ६ माघ, १८७९
वि० ५ माघ शु० २०१४ उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३८ सूर्यास्त—५-२२
(वसन्त पञ्चमी)

रविवार २६ जनवरी, १९५८

फस० २१ माघ १३६५ शक० ७ माघ, १८७९
वि० ६ माघ शु० २०१४ रेवती नक्षत्र
सूर्योदय—६-३७ सूर्यास्त—५-२३
(भारतीय जनतन्त्र दिवस)

सोमवार 	२७ जनवरी, १९५८

फस० २२ माघ १३६५ 	शक० ८ माघ, १८७९
वि० ७ माघ शु० २०१४ 	अश्विनि नक्षत्र
सूर्योदय—६-३७ 	सूर्यास्त—५-२३

मंगलवार 	२८ जनवरी, १९५८

फस० २३ माघ १३६५ 	शक० ९ माघ, १८७९
वि० ८ माघ शु० २०१४ 	भरणी नक्षत्र
सूर्योदय—६-३६ 	सूर्यास्त—५-२४

बुधवार

२९ जनवरी, १९५८

फस० २४ माघ १३६५
वि० ९ माघ शु० २०१४
सूर्योदय—६-३५

शक० १० माघ, १८७९
भरणी नक्षत्र
सूर्यास्त—५-२५

वृहस्पतिवार

३० जनवरी, १९५८

फस० २५ माघ १३६५
वि० १० माघ शु० २०१४
सूर्योदय—६-३५

शक० ११ माघ, १८७९
कृत्तिका नक्षत्र
सूर्यास्त—५-२५

शुक्रवार 31 जनवरी, १९५८

फ.स० २६ माघ १३६५ शक० १२ माघ, १८७९
वि० ११ माघ शु० २०१४ रोहिणी नक्षत्र
सूर्योदय—६-३४ सूर्यास्त—५-२६

शनिवार १ फरवरी, १९५८

फस० २७ माघ १३६५ शक० १३ माघ, १८७९
वि० १२ माघ शु० २०१४ मृ० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३४ सूर्यास्त—५-२६

रविवार २ फरवरी, १९५८

फस० २८ माघ १३६५ शक० १४ माघ, १८७९
वि० १३ माघ शु० २०१४ आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-३३ सूर्यास्त—५-२७

सोमवार ३ फरवरी, १९५८

फस० २९ माघ १३६५ शक० १५ माघ, १८७९
वि० १४ माघ शु० २०१४ पूनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३३ सूर्यास्त—५-२७

मंगलवार ४ फरवरी, १९५८

फस० ३० माघ १३६५ शक० १६ माघ, १८७९
वि० माघ पूर्णिमा २०१४ श्लेषा नक्षत्र
सूर्योदय—६-३२ सूर्यास्त—५-२८

बुधवार ५ फरवरी, १९५८

फस० १ फागुन १३६५ शक० १७ माघ, १८७९
वि० १ फाल्गुन कृ० २०१४ मघा नक्षत्र
सूर्योदय—६-३१ सूर्यास्त—५-२९

बृहस्पतिवार ६ फरवरी, १९५८

फस० २ फागुन १३६५ शक० १८ माघ, १८७९
वि० २ फाल्गुन कृ० २०१४ पू० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३१ सूर्यास्त—५-२९

शुक्रवार ७ फरवरी, १९५८

फस० ३ फागुन १३६५ शक० १९ माघ, १८७९
वि० ४ फाल्गुन कृ० २०१४ उ० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३० सूर्यास्त—५-३०

[illegible]

शनिवार | ८ फरवरी, १९५८

फस० ४ फागुन १३६५ — शक० २० माघ, १८७९
वि० ५ फाल्गुन कृ० २०१४ — हस्त नक्षत्र
सूर्योदय—६-३० — सूर्यास्त—५-३०

रविवार | ९ फरवरी, १९५८

फस० ५ फागुन १३६५ — शक० २१ माघ, १८७९
वि० ६ फाल्गुन कृ० २०१४ — चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-२९ — सूर्यास्त—५-३१

सोमवार १० फरवरी, १९५८

फस० ६ फागुन १३६५
शक० २२ माघ, १८७९
वि० ७ फाल्गुन कृ० २०१४
स्वा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२८
सूर्यास्त—५-३२

मंगलवार ११ फरवरी, १९५८

फस० ७ फागुन १३६५
शक० २३ माघ, १८७९
वि० ८ फाल्गुन कृ० २०१४
विसा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२८
सूर्यास्त—५-३२

बुधवार　　१२ फरवरी, १९५८

फस० ८ फागुन १३६५　　शक० २४ माघ, १८७९
वि० ९ फाल्गुन कृ० २०१४　　अनुराधा नक्षत्र
सूर्योदय—६-२७　　सूर्यास्त—५-३३

वृहस्पतिवार　　१३ फरवरी, १९५८

फस० ९ फागुन १३६५　　शक० २५ माघ, १८७९
वि० १० फाल्गुन कृ० २०१४　　ज्येष्टा नक्षत्र
सूर्योदय—६-२६　　सूर्यास्त—५-३४

शुक्रवार **१४ फरवरी, १९५८**

फस० १० फागुन १३६५ शक० २६ माघ, १८७९
वि० ११ फाल्गुन कृ० २०१४ मूल नक्षत्र
सूर्योदय—६-२५ सूर्यास्त—५-३५

शनिवार **१५ फरवरी, १९५८**

फस० ११ फागुन १३६५ शक० २७ माघ, १८७९
वि० १२ फाल्गुन कृ० २०१४ पू० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२५ सूर्यास्त—५-३५

रविवार १६ फरवरी, १९५८

फस० १२ फागुन १३६५ शक० २८ माघ, १८७९
वि० १३ फाल्गुन कृ० २०१४ उ० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२४ सूर्यास्त—५-३६

(महाशिवरात्रि)

सोमवार १७ फरवरी, १९५८

फस० १३ फागुन १३६५ शक० २९ माघ, १८७९
वि० १४ फाल्गुन कृ० २०१४ श्रवणा नक्षत्र
सूर्योदय—६-२४ सूर्यास्त—५-३६

मंगलवार **१८ फरवरी, १९५८**

फस० १४ फागुन १३६५ शक० ३० माघ, १८७९
वि० फाल्गुन अमावस्या २०१४ धनि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२३ सूर्यास्त—५-३७

बुधवार **१९ फरवरी, १९५८**

फस० १५ फागुन १३६५ शक० १ फ ल्गुन १८७९
वि० १ फाल्गुन शु० २०१४ शतभि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२२ सूर्यास्त—५-३८

बृहस्पतिवार — **२० फरवरी, १९५८**

फस० १६ फागुन १३६५ — शक० २ फाल्गुन, १८७९
वि० २ फाल्गुन शु० २०१४ — पू० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२१ — सूर्यास्त—५-३९

शुक्रवार — **२१ फरवरी, १९५८**

फस० १७ फागुन १३६५ — शक० ३ फाल्गुन, १८७९
वि० ३ फाल्गुन शु० २०१४ — उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२१ — सूर्यास्त—५-३९

शनिवार | २२ फरवरी, १९५८

फस० १८ फागुन १३६५ | शक० ४ फाल्गुन, १८७९
वि० ४ फाल्गुन शु० २०१४ | उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२० | सूर्यास्त—५-४०

रविवार | २३ फरवरी, १९५८

फस० १९ फागुन १३६५ | शक० ५ फाल्गुन, १८७९
वि० ४ फाल्गुन शु० २०१४ | रेवती नक्षत्र
सूर्योदय—६-१९ | सूर्यास्त—५-४१

सोमवार | २४ फरवरी, १९५८

फस० २० फागुन १३६५ | शक० ६ फाल्गुन, १८७९
वि० ५ फाल्गुन शु० २०१४ | अश्वनि नक्षत्र
सूर्योदय—६-१९ | सूर्यास्त—५-४१

मंगलवार | २५ फरवरी, १९५८

फस० २१ फागुन १३६५ | शक० ७ फाल्गुन, १८७९
वि० ६ फाल्गुन शु० २०१४ | भरणी नक्षत्र
सूर्योदय—६-१८ | सूर्यास्त—५-४२

बुधवार २६ फरवरी, १९५८

फस० २२ फागुन १३६५ शक० ८ फाल्गुन, १८७९
वि० ७ फाल्गुन शु० २०१४ कृत्ति० नक्षत्र
सूर्योदय—६-१७ सूर्यास्त—५-४३

प्रस्ता
आकस्मिक अवकाश

बृहस्पतिवार २७ फरवरी, १९५८

फस० २३ फागुन १३६५ शक० ९ फाल्गुन, १८७९
वि० ८ फाल्गुन शु० २०१४ रोहि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-१६ सूर्यास्त—५-४४

प्रस्ता
आकस्मिक अवकाश

शुक्रवार २८ फरवरी, १९५८

फस० २४ फागुन १३६५ शक० १० फाल्गुन, १८७९
वि० ९ फाल्गुन शु० २०१४ मृ० नक्षत्र
सूर्योदय—६-१६ सूर्यास्त—५-४४

परना
आकस्मिक अवकाश

शनिवार १ मार्च, १९५८

फस० २५ फागुन १३६५ शक० ११ फाल्गुन, १८७९
वि० १० फाल्गुन शु० २०१४ आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-१५ सूर्यास्त—५-४५

रविवार **२ मार्च, १९५८**

फस० २६ फागुन १३६५ शक० १२ फाल्गुन, १८७९
वि० ११ फाल्गुन शु० २०१४ पुनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—६-१४ सूर्यास्त—५-४६

सोमवार **३ मार्च, १९५८**

फस० २७ फागुन १३६५ शक० १३ फाल्गुन, १८७९
वि० १२ फाल्गुन शु० २०१४ पुष्य नक्षत्र
सूर्योदय—६-१३ सूर्यास्त—५-४७

मंगलवार ४ मार्च, १९५८

फस० २८ फागुन १३६५ शक० १४ फाल्गुन, १८७९
वि० १३ फाल्गुन शु० २०१४ श्लेषा नक्षत्र
सूर्योदय—६-१२ सूर्यास्त—५-४८

बुधवार ५ मार्च, १९५८

फस० २९ फागुन १३६५ शक० १५ फाल्गुन, १८७९
वि० फाल्गुन पूर्णिमा २०१४ माघा नक्षत्र
सूर्योदय—६-११ सूर्यास्त—५-४९

बृहस्पतिवार — ६ मार्च, १९५८

फस० १ चैत्र १३६५ — शक० १६ फाल्गुन १८७९

वि० १ चैत्र कृ० २०१४ — पू० फा० नक्षत्र

सूर्योदय—६-११ — सूर्यास्त—५-४९

(होली)

शुक्रवार — ७ मार्च, १९५८

फस० २ चैत्र १३६५ — शक १७, फाल्गुन १८७९

वि० २ चैत्र कृ०२०१४ — हस्त नक्षत्र

सूर्योदय—६-१० — सूर्यास्त—५-५०

शनिवार ८ मार्च, १९५८

फस० ३ चैत्र १३६५ शक १८ फाल्गुन १८७९
वि० ३ चैत्र कृ० २०१४ चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-९ सूर्यास्त—५-५१

रविवार ९ मार्च, १९५८

फस० ४ चैत्र १३६५ शक १९ फाल्गुन १८७९
वि० ४ चैत्र कृ० २०१४ स्वाती नक्षत्र
सूर्योदय—६-८ सूर्यास्त—५-५२

सोमवार — **१० मार्च, १९५८**

फस० ५ चैत्र १३६५ — शक २० फाल्गुन १८७९

वि० ५ चैत्र कृ० २०१४ — विशा० नक्षत्र

सूर्योदय—६-८ — सूर्यास्त—५-५२

देहली

आ[illegible] [illegible]

मंगलवार — **११ मार्च, १९५८**

फस० ६ चैत्र १३६५ — शक २१ फाल्गुन १८७९

वि० ७ चैत्र कृ० २०१४ — अनु० नक्षत्र

सूर्योदय—६-७ — सूर्यास्त—५-५३

देहली से

[illegible] [illegible]

११ बजे की [illegible]

बुधवार १२ मार्च, १९५८

फस० ७ चैत्र १३६५ शक २२ फाल्गुन १८७९
वि० ८ चैत्र कृ० २०१४ ज्येष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय ६-६ सूर्यास्त ५-५४

वृहस्पतिवार १३ मार्च, १९५८

फस० ८ चैत्र १३६५ शक २३ फाल्गुन १८७९
वि० ९ चैत्र कृ० २०१४ मूल नक्षत्र
सूर्योदय—६-५ सूर्यास्त—५-५५

शुक्रवार **१४ मार्च, १९५८**

फस० ९ चैत्र १३६५ शक २४ फाल्गुन १८७९
वि० १० चैत्र कृ० २०१४ पू० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-५ सूर्यास्त—५-५५

प्रातः [illegible] किया।

शनिवार **१५ मार्च, १९५८**

फस० १० चैत्र १३६५ शक २५ फाल्गुन १८७९
वि० ११ चैत्र कृ० २०१४ उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४ सूर्यास्त—५-५६

प्रातः [illegible] किया।

रविवार **१६ मार्च, १९५८**

फस० ११ चैत्र १३६५ शक २६ फाल्गुन १८७९
वि० १२ चैत्र कृ० २०१४ श्रावण नक्षत्र
सूर्योदय—६-३ सूर्यास्त—५-५७

सोमवार **१७ मार्च, १९५८**

फस० १२ चैत्र १३६५ शक २७ फाल्गुन १८७९
वि० १२ चैत्र कृ० २०१४ धनि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३ सूर्यास्त—५-५७

[illegible]

मंगलवार १८ मार्च, १९५८

फस० १३ चैत्र १३६५ शक २८ फाल्गुन १८७९
वि० १३ चैत्र कृ० २०१४ शत० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२ सूर्यास्त—५-५८

3·1 आर्थिक अपवादों

बुधवार १९ मार्च, १९५८

फस० १४ चैत्र १३६५ शक २९ फाल्गुन १८७९
वि० १४ चैत्र कृ० २०१४ शत० नक्षत्र
सूर्योदय—६-१ सूर्यास्त—५-५९

बृहस्पतिवार — २० मार्च, १९५८

फस० १५ चैत्र १३६५ — शक ३० फाल्गुन १८७९
वि० चैत्र अमावश्या २०१४ — पू० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-० — सूर्यास्त—६-०

शुक्रवार — २१ मार्च, १९५८

फस० १६ चैत्र १३६५ — शक १ चैत्र १८८०
वि० १ चैत्र शु० २०१५ — उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-५९ — सूर्यास्त—६-१

(सम्वत् नव वर्ष)

शनिवार २२ मार्च, १९५८

फस० १७ चैत्र १३६५ शक २ चैत्र १८८०
वि० २ चैत्र शु० २०१५ रेवती नक्षत्र
सूर्योदय—५-५९ सूर्यास्त—६-१

रविवार २३ मार्च, १९५८

फस० १८ चैत्र १३६५ शक ३ चैत्र १८८०
वि० ३ चैत्र शु० २०१५ अश्वनि नक्षत्र
सूर्योदय—५-५८ सूर्यास्त—६-२

सोमवार **२४ मार्च, १९५८**

फस० १९ चैत्र १३६५ शक ४ चैत्र १८८०
वि० ४ चैत्र शु० २०१५ भरणी नक्षत्र
सूर्योदय—५-५७ सूर्यास्त—६-३

मंगलवार **२५ मार्च, १९५८**

फस० २० चैत्र १३६५ शक ५ चैत्र १८८०
वि० ५ चैत्र कृ० २०१५ कृ० नक्षत्र
सूर्योदय—५-५६ सूर्यास्त—६-४

बुधवार २६ मार्च, १९५८

फस० २१ चैत्र १३६५ शक ६ चैत्र १८८०
वि० ६ चैत्र शु० २०१५ रोहि० नक्षत्र
सूर्योदय—५-५६ सूर्यास्त—६-४

वृहस्पतिवार २७ मार्च, १९५८

फस० २२ चैत्र १३६५ शक ७ चैत्र १८८०
वि० ७ चैत्र शु० २०१५ मृ० नक्षत्र
सूर्योदय—५-५५ सूर्यास्त—६-५

शुक्रवार २८ मार्च, १९५८

फस० २३ चैत्र १३६५ शक ८ चैत्र १८८०
वि० ८ चैत्र शु० २०१५ आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—५-५५ सूर्यास्त—६-५

शनिवार २९ मार्च, १९५८

फस० २४ चैत्र १३६५ शक ९ चैत्र १८८०
वि० ९ चैत्र शु० २०१५ पुनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—५-५४ सूर्यास्त—६-६

(श्री राम नवमी)

रविवार ३० मार्च, १९५८

फस० २५ चैत्र १३६५
वि० १० चैत्र शु० २०१५
सूर्योदय—५-५३

शक १० चैत्र १८८०
पुष्य नक्षत्र
सूर्यास्त—६-७

सोमवार ३१ मार्च, १९५८

फस० २६ चैत्र १३६५
वि० ११ चैत्र शु० २०१५
सूर्योदय—५-५२

शक ११ चैत्र १८८०
श्लेषा नक्षत्र
सूर्यास्त—६-८

मंगलवार | १ अप्रील, १९५८

फस० २७ चैत्र १३६५ | शक १२ चैत्र १८८०
वि० १२ चैत्र शु० २०१५ | माघा नक्षत्र
सूर्योदय—५-५२ | सूर्यास्त—६-८

बुधवार | २ अप्रील, १९५८

फस० २८ चैत्र १३६५ | शक १३ चैत्र १८८०
वि० १३ चैत्र शु० २०१५ | पू० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-५१ | सूर्यास्त—६-९

वृहस्पतिवार ३ अप्रील, १९५८

फस० २९ चैत्र १३६५ शक १४ चैत्र १८८०
वि० १४ चैत्र शु० २०१५ उ० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-५० सूर्यास्त—६-१०

शुक्रवार ४ अप्रील, १९५८

फस० ३० चैत्र १३६५ शक १५ चैत्र १८८०
वि० चैत पूर्णिमा २०१५ हस्त नक्षत्र
सूर्योदय—५-४९ सूर्यास्त—६-११

शनिवार ५ अप्रील, १९५८

फस० १ वैशाख १३६५ शक १६ चैत्र १८८०
वि० २ वैशाख कृ० २०१५ चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—५-४९ सूर्यास्त—६-११

रविवार ६ अप्रील, १९५८

फस० २ वैशाख १३६५ शक १७ चैत्र १८८०
वि० ३ वैशाख कृ० २०१५ स्वा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४९ सूर्यास्त—६-११

सोमवार ७ अप्रील, १९५८

फस० ३ वैशाख १३६५ शक १८ चैत्र १८८०
वि० ४ वैशाख कृ० २०१५ अनुराधा नक्षत्र
सूर्योदय—५-४८ सूर्यास्त—६-१२

मंगलवार ८ अप्रील, १९५८

फस० ४ वैशाख १३६५ शक १९ चैत्र १८८०
वि० ५ वैशाख कृ० २०१५ ज्येष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय—५-४७ सूर्यास्त—६-१३

बुधवार — ९ अप्रील, १९५८

फस० ५ वैशाख १३६५ — शक २० चैत्र १८८०

वि० ६ वैशाख कृ० २०१५ — मूल नक्षत्र

सूर्योदय—५-४६ — सूर्यास्त—६-१४

बृहस्पतिवार — १० अप्रील, १९५८

फस० ६ वैशाख १३६५ — शक २१ चैत्र १८८०

वि० ७ वैशाख कृ० २०१५ — पू०षा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-४५ — सूर्यास्त—६-१५

शुक्रवार **११ अप्रील, १९५८**

फस० ७ वैशाख १३६५ शक २२ चैत्र १८८०
वि० ८ वैशाख कृ० २०१५ उ०षा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४५ सूर्यास्त—६-१५

शनिवार **१२ अप्रील, १९५८**

फस० ८ वैशाख १३६५ शक २३ चैत्र १८८०
वि० ९ वैशाख कृ० २०१५ श्रावण नक्षत्र
सूर्योदय—५-४४ सूर्यास्त—६-१६

रविवार

१३ अप्रील, १९५८

फस० ९ वैशाख १३६५
वि० १० वैशाख कृ० २०१५
सूर्योदय—५-४३

शक २४ चैत्र १८८०
श्रवण नक्षत्र
सूर्यास्त—६-१७

सोमवार

१४ अप्रील, १९५८

फस० १० वैशाख १३६५
वि० ११ वैशाख कृ २०१५
सूर्योदय—५-४२

शक २५ चैत्र १८८०
धनि० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-१८

मंगलवार — १५ अप्रील, १९५८

फस० ११ वैशाख १३६५ — शक २६ चैत्र १८८०

वि० १२ वैशाख कृ० २०१५ — शत० नक्षत्र

सूर्योदय—५-४२ — सूर्यास्त—६-१८

बुधवार — १६ अप्रील, १९५८

फस० १२ वैशाख १३६५ — शक २७ चैत्र १८८०

वि० १३ वैशाख कृ० २०१५ — पू० भा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-४१ — सूर्यास्त—६-१९

फस० १३ वैशाख १३६५ शक २८ चैत्र १८८०

वि० १४ वैशाख कृ० २०१५ उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४० सूर्यास्त—६-२०

अनीता कुमार
की आकृति गुरुकुल ... पूर्ण
के लिए आई पाठविधियों
की प्रतिलिपि ... कार्यकर्ता ... वाले
ओ३म्

शुक्रवार १८ अप्रील, १९५८

फस० १४ वैशाख १३६५ शक २९ चैत्र १८८०
वि० १५ वैशाख कृ० २०१५ रेवती नक्षत्र
सूर्योदय—५-३९ सूर्यास्त—६-२१

शनिवार **१९ अप्रील, १९५८**

फस० १५ वैशाख १३६५ शक ३० चैत्र १८८०
वि० वैशाख अमावस्या २०१५ अश्व० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३८ सूर्यास्त—६-२२
(खण्ड ग्रास सूर्य ग्रहणम्)

रविवार **२० अप्रील, १९५८**

फस० १६ वैशाख १३६५ शक ३१ चैत्र १८८०
वि० १ वैशाख शु० २०१५ भरणी नक्षत्र
सूर्योदय—५-३७ सूर्यास्त—६-२३

सोमवार — २१ अप्रील, १९५८

फस० १७ वैशाख १३६५ — शक १ वैशाख १८८०
वि० २ वैशाख शु० २०१५ — कृ० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३७ — सूर्यास्त—६-२३

मंगलवार — २२ अप्रील, १९५८

फस० १८ वैशाख १३६५ — शक २ वैशाख १८८०
वि० ३ वैशाख शु० २०१५ — रोहि० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३६ — सूर्यास्त—६-२४

बुधवार

२३ अप्रील, १९५८

फस० १९ वैशाख १३६५ | शक ३ वैशाख १८८०
वि० ४ वैशाख शु० २०१५ | रोहिणी नक्षत्र
सूर्योदय—५-३६ | सूर्यास्त—६-२४

वृहस्पतिवार

२४ अप्रील, १९५८

फस० २० वैशाख १३६५ | शक ४ वैशाख १८८०
वि० ५ वैशाख शु० २०१५ | मृ० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३५ | सूर्यास्त—६-२५

शुक्रवार　　　　२५ अप्रील, १९५८

फस० २१ वैशाख १३६५　　　　शक ५ वैशाख १८८०
वि० ६ वैशाख शु० २०१५　　　　आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—५-३४　　　　सूर्यास्त—६-२६

शनिवार　　　　२६ अप्रील, १९५८

फस० २ वैशाख १३६५　　　　शक ६ वैशाख १८८०
वि० ७ वैशाख शु० २०१५　　　　पुनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३४　　　　सूर्यास्त—६-२६

[illegible]

फस० २३ वैशाख १३६५ शक ७ वैशाख १८८०
वि० ८ वैशाख शु० २०१५ पुष्य नक्षत्र
सूर्योदय—५-३३ सूर्यास्त—६-२७

फस० २४ वैशाख १३६५ शक ८ वैशाख, १८८०
वि० ९ वैशाख शु० २०१५ श्लेषा नक्षत्र
सूर्योदय—५-३२ सूर्यास्त—६-२८

मंगलवार **२६ अप्रील, १९५८**

फस० २५ वैशाख १३६५ शक ९ वैशाख १८८०
वि० १० वैशाख शु० २०१५ माघा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३१ सूर्यास्त—६-२९

बुधवार **३० अप्रील, १९५८**

फस० २६ वैशाख १३६५ शक १० वैशाख १८८०
वि० ११ वैशाख शु० २०१५ उ० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३१ सूर्यास्त—६-२९

बृहस्पतिवार — १ मई, १९५८

फस० २७ वैशाख १३६५ — शक ११ वैशाख १८८०

वि० १३ वैशाख शु० २०१५ — हस्त० नक्षत्र

सूर्योदय—५-३० — सूर्यास्त—६-३०

शुक्रवार — २ मई, १९५८

फस० २८ वैशाख १३६५ — शक १२ वैशाख १८८०

वि० १४ वैशाख शु० २०१५ — चित्रा नक्षत्र

सूर्योदय—५-३० — सूर्यास्त—६-३०

४० पब०

शनिवार **३ मई, १९५८**

फस० २९ वैशाख १३६५ शक १३ वैशाख १८८०
वि० वैशाख पूर्णिमा २०१५ स्वा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-२९ सूर्यास्त—६-३१

रविवार **४ मई, १९५८**

फस० १ जेठ १३६५ शक १४ वैशाख १८८०
वि० १ ज्येष्ठ कृ० २०१५ विशा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-२९ सूर्यास्त—६-३१

सोमवार **५ मई, १९५८**

फस० २ जेठ १३६५ | शक १५ वैशाख १८८०
वि० २ ज्येष्ठ कृ० २०१५ | अनुराधा नक्षत्र
सूर्योदय—५-२८ | सूर्यास्त—६-३२

मंगलवार **६ मई, १९५८**

फस० ३ जेठ १३६५ | शक १६ वैशाख १८८०
वि० ३ ज्येष्ठ कृ० २०१५ | ज्येष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय—५-२७ | सूर्यास्त—६-३३

बुधवार	७ मई, १९५८

फस० ४ जेठ १३६५ — शक १७, वैशाख १८८०

वि० ४ ज्येष्ठ कृ० २०१५ — मूल० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२७ — सूर्यास्त—६-३३

चेतनज्योति कालेज —
प्रोग्रेस को [illegible]
कार्य

बृहस्पतिवार	८ मई, १९५८

फस० ५ जेठ १३६५ — शक १८ वैशाख १८८०

वि० ५ ज्येष्ठ कृ० २०१५ — पू० षा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२६ — सूर्यास्त—६-३४

प्रोग्रेस एक
चेतनज्योति कालेज
[illegible] कार्य
की

शुक्रवार ९ मई, १९५८

फस० ६ जेठ १३६५ शक १९ वैशाख १८८०
वि० ६ ज्येष्ठ कृ० २०१५ उ० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-२६ सूर्यास्त—६-३४

साहित्य के लिए डा॰ हि॰ प्रो॰ त्रिवेदी को आमंत्रण

शनिवार १० मई, १९५८

फस० ७ जेठ १३६५ शक २० वैशाख १८८०
वि० ७ ज्येष्ठ कृ० २०१५ श्रवणा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-२५ सूर्यास्त—६-२५

दर्शन प्रभाकर के लिए उपाध्याय

रविवार ११ मई, १९५८

फस० ८ जेठ १३६५ | शक २१ वैशाख १८८०

वि० ८ ज्येष्ठ कृ० २०१५ | धनि० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२५ | सूर्यास्त—६-३५

सोमवार १२ मई, १९५८

फस० ९ जेठ १३६५ | शक २२ वैशाख १८८०

वि० ९ ज्येष्ठ कृ० २०१५ | शत० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२५ | सूर्यास्त—६-३५

मंगलवार **१३ मई, १९५८**

फस० १० जेठ १३६५ — शक २३ वैशाख १८८०

वि० १० ज्येष्ठ कृ० २०१५ — पू० भा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२४ — सूर्यास्त—६-३६

अर्जित अवकाश

बुधवार **१४ मई, १९५८**

फस० ११ जेठ १३६५ — शक २४ वैशाख १८८०

वि० ११ ज्येष्ठ कृ० २०१५ — उ० भा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२३ — सूर्यास्त—६-३७

अर्जित अवकाश

बृहस्पतिवार | १५ मई, १९५८

फस० १२ जेठ १३६५ | शक २५ वैशाख १८८०

वि० १२ ज्येष्ठ कृ० २०१५ | रेवती नक्षत्र

सूर्योदय—५-२३ | सूर्यास्त—६-३७

शुक्रवार | १६ मई, १९५८

फस० १३ जेठ १३६५ | शक २६ वैशाख १८८०

वि० १३ ज्येष्ठ कृ० २०१५ | अश्व० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२२ | सूर्यास्त—६-३८

शनिवार १७ मई, १९५८

फस० १४ जेठ १३६५ शक २ वैशाख १८८०
वि० १४ ज्येष्ठ कृ० २०१५ अश्व० नक्षत्र
सूर्योदय—५-२२ सूर्यास्त—६-३८

रविवार १८ मई, १९५८

फस० १५ जेठ १३६५ शक० २८ वैशाख १८८०
वि० ज्येष्ठ अमावस्या २०१५ भरणी नक्षत्र
सूर्योदय—५-२१ सूर्यास्त—६-३९

सोमवार १९ मई, १९५८

फस० १६ जेठ १३६५ — शक २९ वैशाख १८८०

वि० १ ज्येष्ठ शु० २०१५ — कृ० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२१ — सूर्यास्त—६-३९

मंगलवार २० मई, १९५८

फस० १७ जेठ १३६५ — शक ३० वैशाख १८८०

वि० २ ज्येष्ठ शु० २०१५ — रो० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२० — सूर्यास्त—६-४०

बुधवार **२१ मई, १९५८**

फस० १८ जेठ १३६५
वि० ३ ज्येष्ठ शु० २०१५
सूर्योदय—५-२०

शक० १ ज्येष्ठ १८८०
मृ० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-४०

अर्धवैतनिक कार्य

वृहस्पतिवार **२२ मई, १९५८**

फस० १९ जेठ १३६५
वि० ४ ज्येष्ठ शु० २०१५
सूर्योदय—५-१९

शक २ ज्येष्ठ १८८०
आर्द्रा नक्षत्र
सूर्यास्त—६-४१

अर्धवैतनिक कार्य

शुक्रवार **२३ मई, १९५८**

फस० २० जेठ १३६५
शक ३ ज्येष्ठ १८८०
वि० ५ ज्येष्ठ शु० २०१५
पुनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१९
सूर्यास्त—६-४१

शनिवार **२४ मई, १९५८**

फस० २१ जेठ १३६५
शक ४ ज्येष्ठ १८८०
वि० ६ ज्येष्ठ शु० २०१५
पुष० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१८
सूर्यास्त—६-४२

रविवार | २५ मई, १९५८

फस० २२ जेठ १३६५ | शक ५ ज्येष्ठ १८८०

वि० ७ ज्येष्ठ शु० २०१५ | श्लेषा नक्षत्र

सूर्योदय—५-१८ | सूर्यास्त—६-४२

सोमवार | २६ मई, १९५८

फस० २३ जेठ १३६५ | शक ६ ज्येष्ठ १८८०

वि० ८ ज्येष्ठ शु० २०१५ | मावा नक्षत्र

सूर्योदय—५-१८ | सूर्यास्त—६-४२

मंगलवार २७ मई, १९५८

फस० २४ जेठ १३६५ शक ७ ज्येष्ठ १८८०
वि० ९ ज्येष्ठ शु० २०१५ पू० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१७ सूर्यास्त—६-४३

बुधवार २८ मई, १९५८

फस० २५ जेठ १३६५ शक ८ ज्येष्ठ १८८०
वि० १० ज्येष्ठ शु० २०१५ उ० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१७ सूर्यास्त—६-४३

वृहस्पतिवार २९ मई, १९५८

फस० २६ जेठ १३६५ शक ९ ज्येष्ठ १८८०
वि० ११ ज्येष्ठ शु० २०१५ हस्त० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१७ सूर्यास्त—६-४३

आर्य विटनाव कार्य

शुक्रवार ३० मई, १९५८

फस० २७ जेठ १३६५ शक १० ज्येष्ठ १८८०
वि० १२ ज्येष्ठ शु० २०१५ चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—५-१६ सूर्यास्त—६-४४

आर्य विटनाव कार्य

शनिवार **३१ मई, १९५८**

फस० २८ जेठ १३६५ शक ११ ज्येष्ठ १८८०
वि० १३ ज्येष्ठ शु० २०१५ विशा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१६ सूर्यास्त—६-४४

रविवार **१ जून, १९५८**

फस० २९ जेठ १३६५ शक १२ ज्येष्ठ १८८०
वि० ज्येष्ठ पूर्णिमा २०१५ अनुराधा नक्षत्र
सूर्योदय—५-१६ सूर्यास्त—६-४४

सोमवार — २ जून, १९५८

फस० १ आषाढ़ १३६५ — शक १३ ज्येष्ठ १८८०

वि० १ आषाढ़ कृ० २०१५ — ज्येष्ठा नक्षत्र

सूर्योदय—५-१५ — सूर्यास्त—६-४५

सात पत्रों के उत्तर

मंगलवार — ३ जून, १९५८

फस० २ आषाढ़ १३६५ — शक १४ ज्येष्ठ १८८०

वि० २ आषाढ़ कृ० २०१५ — मूल नक्षत्र

सूर्योदय—५-१५ — सूर्यास्त—६-४५

डा० [illegible] शास्त्री जी के
[illegible]

बुधवार ४ जून, १९५८

फस० ३ आषाढ़ १३६५ शक १५ ज्येष्ठ १८८०
वि० ३ आषाढ़ कृ० २०१५ पू० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१५ सूर्यास्त—६-४५

बृहस्पतिवार ५ जून, १९५८

फस० ४ आषाढ़ १३६५ शक १६ ज्येष्ठ १८८०
वि० ४ आषाढ़ कृ० २०१५ उ०षा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१४ सूर्यास्त—६-४६

शुक्रवार — ६ जून, १६५८

फस० ५ आषाढ़ १३६५ — शक १७ ज्येष्ठ १८८०

वि० ५ आषाढ़ कृ० २०१५ — श्रवणा नक्षत्र

सूर्योदय—५-१४ — सूर्यास्त—६-४६

हिन्दी कवियों की

शनिवार — ७ जून, १६५८

फस० ६ आषाढ़ १३६५ — शक १८ ज्येष्ठ १८८०

वि० ६ आषाढ़ कृ० २०१५ — धनि० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१४ — सूर्यास्त—६-४६

रविवार **८ जून, १९५८**

फस० ७ आषाढ़ १३६५ — शक १९ ज्येष्ठ १८८०

वि० ७ आषाढ़ कृ० २०१५ — शत० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१४ — सूर्यास्त—६-४६

सोमवार **९ जून, १९५८**

फस० ८ आषाढ़ १३६५ — शक २० ज्येष्ठ १८८०

वि० ८ आषाढ़ कृ० २०१५ — पू० भा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१४ — सूर्यास्त—६-४६

मंगलवार **१० जून, १९५८**

फस० ९ आषाढ़ १३६५ — शक २१ ज्येष्ठ १८८०

वि० ९ आषाढ़ कृ० २०१५ — उ० भा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१४ — सूर्यास्त—६-४६

[illegible]

बुधवार **११ जून, १९५८**

फस० १० आषाढ़ १३६५ — शक २२ ज्येष्ठ १८८०

वि० १० आषाढ़ कृ० २०१५ — उ० भा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१३ — सूर्यास्त—६-४७

[illegible]

बृहस्पतिवार १२ जून, १९५८

फस० ११ आषाढ़ १३६५ शक २३ ज्येष्ठ १८८०
वि० १० आषाढ़ कृ० २०१५ रेवती नक्षत्र
सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

शुक्रवार १३ जून, १९५८

फस० १२ आषाढ़ १३६५ शक २४ ज्येष्ठ १८८०
वि० ११ आषाढ़ कृ० २०१५ अश्व नक्षत्र
सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

शनिवार १४ जून, १९५८

फस० १३ आषाढ़ १३६५ शक २५ ज्येष्ठ १८८०

वि० १२ आषाढ़ कृ० २०१५ भर० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

रविवार १५ जून, १९५८

फस० १४ आषाढ़ १३६५ शक २६ ज्येष्ठ १८८०

वि० १३ आषाढ़ कृ० २०१५ कृ० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

सोमवार १६ जून, १९५८

फस० १५ आषाढ़ १३६५ शक २७ ज्येष्ठ १८८०
वि० १४ आषाढ़ कृ० २०१५ रो० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

मंगलवार १७ जून, १९५८

फस० १६ आषाढ़ १३६५ शक २८ ज्येष्ठ १८८०
वि० आषाढ़ अमावश्या २०१५ मृग० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

बुधवार १८ जून, १९५८

फस० १७ आषाढ़ १३६५ शक २९ ज्येष्ठ १८८०
वि० १ आषाढ़ शु० २०१५ आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

बृहस्पतिवार १९ जून, १९५८

फस० १८ आषाढ़ १३६५ शक ३० ज्येष्ठ १८८०
वि० २ आषाढ़ शु० २०१५ पुनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

(रथ यात्रा)

शुक्रवार २० जून, १९५८

फस० १९ आषाढ़ १३६५ शक ३१ ज्येष्ठ १८८०
वि० ३ आषाढ़ शु० २०१५ पुष नक्षत्र
सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

शनिवार २१ जून, १९५८

फस० २० आषाढ़ १३६५ शक १ आषाढ़ १८८०
वि० ४ आषाढ़ शु० २०१[illegible] श्लेषा नक्षत्र
सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

रविवार

२२ जून, १६५८

फस० २१ आषाढ़ १३६५
वि० ५ आषाढ़ शु० २०१५
सूर्योदय—५-१३

शक २ आषाढ़ १८८०
माघा नक्षत्र
सूर्यास्त—६-४७

सोमवार

२३ जून, १६५८

फस० २२ आषाढ़ १३६५
वि० ७ आषाढ़ शु० २०१५
सूर्योदय—५-१३

शक ३ आषाढ़ १८८०
पू० फा० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-४७

मंगलवार २४ जून, १९५८

फस० २३ आषाढ़ १३६५ — शक ४ आषाढ़ १८८०

वि० ८ आषाढ़ शु० २०१५ — उ० फा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१३ — सूर्यास्त—६-४७

[illegible]

बुधवार २५ जून, १९५८

फस० २४ आषाढ़ १३६५ — शक ५ आषाढ़ १८८०

वि० ९ आषाढ़ शु० २०१५ — हस्त नक्षत्र

सूर्योदय—५-१३ — सूर्यास्त—६-४७

श्री [illegible] ने तीन घंटे तक सेन्ट्रल कालेज में काम किया

बृहस्पतिवार	२६ जून, १९५८

फस० २५ आषाढ़ १३६५ — शक ६ आषाढ़ १८८०

वि० १० आषाढ़ शु० २०१५ — चित्रा नक्षत्र

सूर्योदय—५-१३ — सूर्यास्त—६-४७

शुक्रवार	२७ जून, १९५८

फस० २६ आषाढ़ १३६५ — शक ७ आषाढ़ १८८०

वि० ११ आषाढ़ शु० २०१५ — स्वाती नक्षत्र

सूर्योदय—५-१३ — सूर्यास्त—६-४७

(विष्णु शयनी एकादशी)

शनिवार

२८ जून, १९५८

फस० २७ आषाढ़ १३६५
वि० १२ आषाढ़ शु० २०१५
सूर्योदय—५-१३

शक ७ आषाढ़ १८८०
विशा० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-४७

रविवार

२९ जून, १९५८

फस० २८ आषाढ़ १३६५
वि० १३ आषाढ़ शु० २०१५
सूर्योदय—५-१३

शक ८ आषाढ़ १८८०
अनुराधा नक्षत्र
सूर्यास्त—६-४७

सोमवार ३० जून, १९५८

फस० २९ आषाढ़ १३६५ शक १० आषाढ़ १८८०
वि० १४ आषाढ़ शु० २०१५ ज्येष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय—५-१३ सूर्यास्त—६-४७

(बंक लेखा की अर्द्धवार्षिक बंदी)

मंगलवार १ जुलाई, १९५८

फस० ३० आषाढ़ १३६५ शक ११ आषाढ़ १८८०
वि० आषाढ़ पूर्णिमा २०१५ मल नक्षत्र
सूर्योदय—५-१४ सूर्यास्त—६-४६

[illegible]

बुधवार — २ जुलाई, १९५८

फस० १ सावन १३६५ — शक १२ आषाढ़ १८८०

वि० १ श्रावण कृ० २०१५ — पू० फा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१४ — सूर्यास्त—६-४६

[illegible]

बृहस्पतिवार — ३ जुलाई, १९५८

फस० २ सावन १३६५ — शक १३ आषाढ़ १८८०

वि० २ श्रावण कृ० २०१५ — उ० फा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१४ — सूर्यास्त—६-४६

[illegible]

शुक्रवार **४ जुलाई, १९५८**

फस० ३ सावन १३६५ शक १४ आषाढ़ १८८०
वि० ३ श्रावन कृ० २०१५ श्रावणा नक्षत्र
सूर्योदय—५-१४ सूर्यास्त—६-४६

शनिवार **५ जुलाई, १९५८**

फस० ४ सावन १३६५ शक १५ आषाढ़ १८८०
वि० ४ श्रावण कृ० २०१५ धनि० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१४ सूर्यास्त—६-४६

रविवार **६ जुलाई, १९५८**

फस० ५ सावन १३६५
वि० ५ श्रावण कृ० २०१५
सूर्योदय—५-१५

शक १६ आषाढ़ १८८०
शत० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-४५

सोमवार **७ जुलाई, १९५८**

फस० ६ सावन १३६५
वि० ६ श्रावण कृ० २०१५
सूर्योदय—५-१५

शक १७ आषाढ़ १८८०
पू० भा० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-४५

मंगलवार ८ जुलाई, १९५८

फस० ७ सावन १३६५ शक १८ आषाढ़ १८८०
वि० ७ श्रावण कृ० २०१५ उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१५ सूर्यास्त—६-४५

राजन् दुधुक्षसि यदि क्षितिधेनुमेनां
तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण ।
तस्मिंश्च सम्यगनिशं परिपुष्यमाणे
नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमिः
भर्तृहरि

बुधवार ९ जुलाई, १९५८

फस० ८ सावन १३६५ शक १९ आषाढ़ १८८०
वि० ८ श्रावण कृ० २०१५ रेवती नक्षत्र
सूर्योदय—५-१५ सूर्यास्त—६-४५

वृहस्पतिवार　　　　　　　　　　　　　　　　　　１० जुलाई, १९५८

फस० ९ सावन १३६५　　　　　　　　शक १९ आषाढ़ १८८०
वि० ९ श्रावण कृ० २०१५　　　　　　अस्वि नक्षत्र
सूर्योदय—५-१६　　　　　　　　　　सूर्यास्त—६-४४

शुक्रवार　　　　　　　　　　　　　　　　　　११ जुलाई, १९५८

फस० १० सावन १३६५　　　　　　　शक २१ आषाढ़ १८८०
वि० १० श्रावण कृ० २०१५　　　　　भर० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१६　　　　　　　　　　सूर्यास्त—६-४४

शनिवार

१२ जुलाई, १९५८

फस० ११ सावन १३६५
वि० ११ श्रावण कृ० २०१५
सूर्योदय—५-१६

शक २२ आषाढ़ १८८०
कृ० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-४४

रविवार

१३ जुलाई, १९५८

फस० १२ सावन १३६५
वि० १२ श्रावण कृ० २०१५
सूर्योदय—५-१७

शक २३ आषाढ़ १८८०
रो० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-४३

सोमवार — १४ जुलाई, १९५८

फस० १३ सावन १३६५ — शक २४ आषाढ़ १८८०
वि० १३ श्रावण कृ० २०१५ — मृग० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१७ — सूर्यास्त—६-४३

मंगलवार — १५ जुलाई, १९५८

फस० १४ सावन १३६५ — शक २५ आषाढ़ १८८०
वि० १४ श्रावण कृ० २०१५ — आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—५-१७ — सूर्यास्त—६-४३

बुधवार **१६ जुलाई, १९५८**

फस० १५ सावन १३६५ शक २६ आषाढ़ १८८०
वि० श्रावण अमावस्या २०१५ पुनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—५-१८ सूर्यास्त—६-४२

बृहस्पतिवार **१७ जुलाई, १९५८**

फस० १६ सावन १३६५ शक २७ आषाढ़ १८८०
वि० १ अ० श्रावण शु० २०१५ पूष नक्षत्र
सूर्योदय—५-१८ सूर्यास्त—६-४२

आज १० ३० पर आये,
(दि [illegible]) [illegible] कुछ अर्जि —
श्री (मधुसूदनसिंह) ब्रह्मचारी (इलाहाबाद) [illegible]
[illegible] होने के बाद। उपकारी प्रतिमा [illegible] (जिज्ञासी)
[illegible] १ के बाद आये। —

शुक्रवार १८ जुलाई, १९५८

फस० १७ सावन १३६५ शक २८ आषाढ़ १८८०
वि० २ अ० श्रावण शु० २०१५ श्लेषा नक्षत्र
सूर्योदय—५-१८ सूर्यास्त—६-४२

शनिवार १९ जुलाई, १९५८

फस० १८ सावन १३६५ शक २९ आषाढ़ १८८०
वि० ३ अ० श्रावण शु० २०१५ मघा नक्षत्र
सूर्योदय—५-१९ सूर्यास्त—६-४१

रविवार २० जुलाई, १९५८

फस० १९ सावन १३६५ शक० ३० आषाढ़ १८८०

वि० ४ अ० श्रावण शु० २०१५ पू० फा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-१९ सूर्यास्त—६-४१

सोमवार २१ जुलाई, १९५८

फस० २० सावन १३६५ शक ३१ आषाढ़ १८८०

वि० ५ अ० श्रावण शु० २०१५ उ० फा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२० सूर्यास्त—६-४०

मंगलवार २२ जुलाई, १६५८

फस० २१ सावन १३६५ शक १ श्रावण १८८०
वि० ६ अ० श्रावण शु० २०१५ हस्त० नक्षत्र
सूर्योदय—५-२० सूर्यास्त—६-४०

आज से "ओलम्पिक लीग" में भाग लिया

बुधवार २३ जुलाई, १६५८

फस० २२ सावन १३६५ शक २ श्रावण १८८०
वि० ७ अ० श्रावण शु० २०१५ चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—५-२१ सूर्यास्त—६-३६

ओलम्पिक लीग

बृहस्पतिवार **२४ जुलाई, १९५८**

फस० २३ सावन १३६५ — शक ३ श्रावण १८८०

वि० ८ अ० श्रावण शु० २०१५ — स्वाती नक्षत्र

सूर्योदय—५-२१ — सूर्यास्त—६-३९

[illegible]

शुक्रवार **२५ जुलाई, १९५८**

फस० २४ सावन १३६५ — शक ४ श्रावण १८८०

वि० १० अ० श्रावण शु० २०१५ — विसा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२१ — सूर्यास्त—६-३९

[illegible]

शनिवार **२६ जुलाई, १९५८**

फस० २५ सावन १३६५ — शक ५ श्रावण १८८०

वि० ११ अ० श्रावण शु० २०१५ — अनुराधा नक्षत्र

सूर्योदय—५-२२ — सूर्यास्त—६-३८

रविवार **२७ जुलाई, १९५८**

फस० २६ सावन १३६५ — शक ६ श्रावण, १८८०

वि० १२ अ० श्रावण शु० २०१५ — ज्येष्ठा नक्षत्र

सूर्योदय—५-२२ — सूर्यास्त—६-३८

सोमवार **२८ जुलाई, १९५८**

फस० २७ सावन १३६५ शक ७ श्रावण १८८०
वि० १३ अ० श्रावण शु० २०१५ मूल नक्षत्र
सूर्योदय—५-२३ सूर्यास्त—६-३७

मंगलवार **२९ जुलाई, १९५८**

फस० २८ सावन १३६५ शक ८ श्रावण १८८०
वि० १४ अ० श्रावण शु० २०१५ पू० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-२३ सूर्यास्त—६-३७

बुधवार **३० जुलाई, १९५८**

फस० २९ सावन १३६५ शक ९ श्रावण १८८०
वि० अ० श्रावण पूर्णिमा २०१५ उ० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-२४ सूर्यास्त—६-३६

वृहस्पतिवार **३१ जुलाई, १९५८**

फस० १ अ० सावन १३६५ शक १० श्रावण १८८०
वि० १ अ० श्रावण कृ० २०१५ श्रवणा नक्षत्र
सूर्योदय—५-२४ सूर्यास्त—६-३६

शुक्रवार 1 अगस्त, १९५८

फस० २ अ० सावन १३६५ शक ११ श्रावण १८८०
वि० २ अ० श्रावण कृ० २०१५ धनि० नक्षत्र
सूर्योदय—५-२५ सूर्यास्त—६-३५

शनिवार २ अगस्त, १९५८

फस० ३ अ० सावन १३६५ शक १२ श्रावण १८८०
वि० ३ अ० श्रावण कृ० २०१५ शत० नक्षत्र
सूर्योदय—५-२६ सूर्यास्त—६-३४

रविवार ३ अगस्त, १६५८

फस० ४ ग्र० सावन १३६५ शक १३ श्रावण १८८०

वि० ४ ग्र० श्रावण कृ० २०१५ पू० भा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२६ सूर्यास्त—६-३४

सोमवार ४ अगस्त, १६५८

फस० ५ ग्र० सावन १३६५ शक १४ श्रावण १८८०

वि० ५ ग्र० श्रावण कृ० २०१५ उ० भा० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२७ सूर्यास्त—६-३३

मंगलवार ५ अगस्त, १९५८

फस० ६ अ० सावन १३६५ शक १५ श्रावण १८८०

वि० ६ अ० श्रावण कृ० २०१५ रेवती नक्षत्र

सूर्योदय—५-२७ सूर्यास्त—६-३३

बुधवार ६ अगस्त, १९५८

फस० ७ अ० सावन १३६५ शक १६ श्रावण १८८०

वि० ६ अ० श्रावण कृ० २०१५ अस्वि० नक्षत्र

सूर्योदय—५-२८ सूर्यास्त—६-३२

वृहस्पतिवार **७ अगस्त, १९५८**

फस० ८ अ० सावन १३६५ शक १७ श्रावण १८८०
वि० ७ अ० श्रावण कृ० २०१५ अस्वि० नक्षत्र
सूर्योदय——५-२८ सूर्यास्त——६-३२

शुक्रवार **८ अगस्त, १९५८**

फस० ९ अ० सावन १३६५ शक १८ श्रावण १८८०
वि० ८ अ० श्रावण कृ० २०१५ भर० नक्षत्र
सूर्योदय——५-२९ सूर्यास्त——६-३१

शनिवार **९ अगस्त, १९५८**

फस० १० अ० सावन १३६५ शक १९ श्रावण १८८०
वि० ९ अ० श्रावण कृ० २०१५ कृ० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३० सूर्यास्त—६-३०

रविवार **१० अगस्त, १९५८**

फस० ११ अ० सावन १३६५ शक २० श्रावण १८८०
वि० १० अ० श्रावण कृ० २०१५ रोहि० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३० सूर्यास्त—६-३०

सोमवार **११ अगस्त, १९५८**

फस० १२ अ० सावन १३६५ शक २१ श्रावण १८८०
वि० ११ अ० श्रावण कृ० २०१५ मृग० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३१ सूर्यास्त—६-२६

मंगलवार **१२ अगस्त, १९५८**

फस० १३ अ० सावन १३६५ शक २२ श्रावण १८८०
वि० १२ अ० श्रावण कृ० २०१५ आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—५-३१ सूर्यास्त—६-२६

बुधवार **१३ अगस्त, १९५८**

फस० १४ अ० सावन १३६५
वि० १३ अ० श्रावण कृ० २०१५
सूर्योदय—५-३२

शक २३ श्रावण १८८०
पुनर्व० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-२८

वृहस्पतिवार **१४ अगस्त, १९५८**

फस० १५ अ० सावन १३६५
वि० १४ अ० श्रावण कृ० २०१५
सूर्योदय—५-३३

शकं २४ श्रावण १८८०
पुष्य नक्षत्र
सूर्यास्त—६-२७

शुक्रवार **१५ अगस्त, १९५८**

फस० १६ अ० सावन १३६५ शक २५ श्रावण १८८०
वि० अ० श्रावण अमा० २०१५ श्लेषा नक्षत्र
सूर्योदय—५-३३ सूर्यास्त—६-२७

(स्वतंत्रतादिवस)

शनिवार **१६ अगस्त, १९५८**

फस० १७ अ० सावन १३६५ शक २६ श्रावण १८८०
वि० २ श्रावण शु० २०१५ मघा नक्षत्र
सूर्योदय—५-३४ सूर्यास्त—६-२६

5-9-60

रविवार **१७ अगस्त, १९५८**

फस० १८ अ० सावन १३६५ शक २७ श्रावण १८८०
वि० ३ श्रावण शु० २०१५ पू० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३४ सूर्यास्त—६-२६

सोमवार **१८ अगस्त, १९५८**

फस० १९ अ० सावन १३६५ शक २८ श्रावण १८८०
वि० ४ श्रावण शु० २०१५ हस्त० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३५ सूर्यास्त—६-२५

मंगलवार १९ अगस्त, १९५८

फस० २० अ० सावन १३६५ शक २८ श्रावण १८८०

वि० ५ श्रावण शु० २०१५ चित्रा नक्षत्र

सूर्योदय—५-३६ सूर्यास्त—६-२४

बुधवार २० अगस्त १९५८

फस० २१ अ० सावन १३६५ शक ३० श्रावण १८८०

वि० ६ श्रावण शु० २०१५ स्वाति० नक्षत्र

सूर्योदय—५-३७ सूर्यास्त—६-२३

बृहस्पतिवार — **२१ अगस्त, १९५८**

फस० २२ अ० सावन १३६५ — शक ३१ श्रावण १८८०
वि० ७ श्रावण शु० २०१५ — विशा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-३७ — सूर्यास्त—६-२३

1- श्री राजेश्वर सिंह
पी. 11 चितपुर स्पीचर रोड
कलकत्ता. 6

2- मैनेजर. बंगाल हिन्दुस्तानी होटल
बुलानाला, बनारस

3- ग्रा० - टोला फकीरान
डा० - टोला फकीरान
जि० - बलिया

शुक्रवार — **२२ अगस्त, १९५८**

फस० २३ अ० सावन १३६५ — शक १ भाद्र १८८०
वि० ८ श्रावण शु० २०१५ — अनुराधा नक्षत्र
सूर्योदय—५-३८ — सूर्यास्त—६-२२

शनिवार २३ अगस्त, १९५८

फस० २४ अ० सावन १३६५ शक २ भाद्र १८८०
वि० ९ श्रावण शु० २०१५ ज्येष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय—५-३९ सूर्यास्त—६-२१

रविवार २४ अगस्त, १९५८

फस० २५ अ० सावन १३६५ शक ३ भाद्र १८८०
वि० १० श्रावण शु० २०१५ मूल नक्षत्र
सूर्योदय—५-३९ सूर्यास्त—६-२१

सोमवार — २५ अगस्त, १९५८

फस० २६ अ० सावन १३६५ — शक ४ भाद्र १८८०
वि० ११ श्रावण शु० २०१५ — पू० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४० — सूर्यास्त—६-२०

मंगलवार — २६ अगस्त, १९५८

फस० २७ अ० सावन १३६५ — शक ५ भाद्र १८८०
वि० १२ श्रावण शु० २०१५ — उ० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४१ — सूर्यास्त—६-१९

बुधवार २७ अगस्त, १९५८

फस० २८ अ० सावन १३६५ शक ६ भाद्र १८८०
वि० १३ श्रावण शु० २०१५ श्रवण नक्षत्र
सूर्योदय—५-४१ सूर्यास्त—६-१९

कार्यालय आदेश

माननीय सदस्य-अध्यक्ष के आदेशानुसार लोकभाषा अनुसंधान विभाग के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथशोध विभाग के कार्यों के निरीक्षण का भार प्रो० नलिन विलोचन शर्मा को सौंपा गया है। उक्त दोनों विभागों के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वे प्रो० शर्मा के साथ पूर्ण सहयोग करके उनके निर्देशानुसार विभागीय कार्यों का संपादन करें। उनसे यह भी निवेदन है कि अपने दैनिक

बृहस्पतिवार २८ अगस्त, १९५८

फस० २९ अ० सावन १३६५ शक ७ भाद्र १८८०
वि० १४ श्रावण शु० २०१५ धनि० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४२ सूर्यास्त—६-१८

कार्यों का विवरण प्रतिपंजी पर लिखकर कार्यालय-सचिव की सेवा में पूर्ववत् समर्पित किया करें।
२७/८/५८

शुक्रवार

२९ अगस्त, १९५८

फस० ३० श्र० सावन १३६५ | शक ८ भाद्र १८८०
वि० श्रावण पूर्णिमा २०१५ | शत० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४२ | सूर्यास्त—६-१८

शनिवार

३० अगस्त, १९५८

फस० १ भादों १३६५ | शक ९ भाद्र १८८०
वि० १ भाद्र कृ० २०१५ | पू० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४३ | सूर्यास्त—६-१७

रविवार **३१ अगस्त, १९५८**

फस० २ भादो १३६५ शक १० भाद्र १८८०
वि० २ भाद्र कृ० २०१५ उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४४ सूर्यास्त—६-१६

सोमवार **१ सितम्बर, १९५८**

फस० ३ भादो १३६५ शक ११ भाद्र १८८०
वि० ३ भाद्र कृ० २०१५ उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४५ सू स्त—६-१५

मंगलवार **२ सितम्बर, १९५८**

फस० ४ भादो १३६५
वि० ४ भाद्र कृ० २०१५
सूर्योदय—५-४५

शक १२ भाद्र १८८०
रेवती नक्षत्र
सूर्यास्त—६-१५

बुधवार **३ सितम्बर, १९५८**

फस० ५ भादो १३६५
वि० ५ भाद्र कृ० २०१५
सूर्योदय—५-४६

शक १३ भाद्र १८८०
अस्वि० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-१४

बृहस्पतिवार ४ सितम्बर, १९५८

फस० ६ भादो १३६५ शक १४ भाद्र १८८०
वि० ६ भाद्र कृ० २०१५ भर० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४७ सूर्यास्त—६-१३

शुक्रवार ५ सितम्बर, १९५८

फस० ७ भादो १३६५ शक १५ भाद्र १८८०
वि० ७ भाद्र कृ० २०१५ कृ० नक्षत्र
सूर्योदय—५-४८ सूर्यास्त—६-१२

(श्री कृष्ण जन्माष्टमी)

शनिवार ६ सितम्बर, १९५८

फस० ८ भादो १३६५
वि० ८ भाद्र कृ० २०१५
सूर्योदय—५-४८

शक १६ भाद्र १८८०
रोहि० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-१२

(श्री कृष्ण जन्माष्टमी)

रविवार ७ सितम्बर, १९५८

फस० ९ भादो १३६५
वि० ९ भाद्र कृ० २०१५
सूर्योदय—५-४९

शक १७ भाद्र १८८०
मृग० नक्षत्र
सूर्यास्त—६-११

सोमवार | ८ सितम्बर, १९५८

फस० १० भादो १३६५ | शक १८ भाद्र १८८०
वि० १० भाद्र कृ० २०१५ | आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—५-५० | सूर्यास्त—६-१०

मंगलवार | ९ सितम्बर, १९५८

फस० ११ भादो १३६५ | शक १९ भाद्र १८८०
वि० ११ भाद्र कृ० २०१५ | पुनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—५-५० | सूर्यास्त—६-१०

बुधवार

१० सितम्बर, १९५८

फस० १२ भादो १३६५

शक २० भाद्र १८८०

वि० १२ भाद्र कृ० २०१५

पुष्य नक्षत्र

सूर्योदय——५-५१

सूर्यास्त——६-९

बृहस्पतिवार

११ सितम्बर, १९५८

फस० १३ भादो १३६५

शक २१ भाद्र १८८०

वि० १३ भाद्र कृ० २०१५

श्लेषा नक्षत्र

सूर्यास्त——५-५२

सूर्यास्त——६-८

शुक्रवार　　　　　　　　　　　　　　१२ सितम्बर, १९५८

फस० १४ भादो १३६५　　　　　　शक २२ भाद्र १८८०
वि० १४ भाद्र कृ० २०१५　　　　　मघा नक्षत्र
सूर्योदय—५-५३　　　　　　　　सूर्यास्त—६-७

शनिवार　　　　　　　　　　　　　　१३ सितम्बर, १९५८

फस० १५ भादो १३६५　　　　　　शक २३ भाद्र १८८०
वि० भाद्र अमावश्या २०१५　　　　पू० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—५-५३　　　　　　　　सूर्यास्त—६-७

रविवार १४ सितम्बर, १९५८

फस० १६ भादो १३६५
वि० १ भाद्र शु० २०१५
सूर्योदय––५-५४

शक २४ भाद्र १८८०
उ० फा० नक्षत्र
सूर्यास्त––६-५

सोमवार १५ सितम्बर, १९५८

फस० १७ भादो १३६५
वि० २ भाद्र शु० २०१५
सूर्योदय––५-५५

शक २५ भाद्र १८८०
हस्त नक्षत्र
सूर्यास्त––६-५

मंगलवार	१६ सितम्बर, १९५८

फस० १८ भादो १३६५	शक २६ भाद्र, १८८०
वि० ३ भाद्र शु० २०१५	चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—५-५६	सूर्यास्त—६-४

बुधवार	१७ सितम्बर, १९५८

फस० १९ भादो १३६५	शक २७ भाद्र, १८८०
वि० ५ भाद्र शु० २०१५	स्वाती नक्षत्र
सूर्योदय—५-५७	सूर्यास्त—६-३

बृहस्पतिवार | १८ सितम्बर, १९५८

फस० २० भादो १३६५ | शक २८ भाद्र, १८८०
वि० ६ भाद्र शु० २०१५ | अनुराधा नक्षत्र
सूर्योदय—५-५८ | सूर्यास्त—६-३

शुक्रवार | १९ सितम्बर, १९५८

फस० २१ भादो १३६५ | शक २९ भाद्र, १८८०
वि० ७ भाद्र शु० २०१५ | ज्येष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय—५-५८ | सूर्यास्त—६-२

शनिवार   २० सितम्बर, १९५८

फस० २२ भादो १३६५ — शक ३० भाद्र, १८८०
वि० ८ भाद्र शु० २०१५ — मूल नक्षत्र
सूर्योदय—५-५९ — सूर्यास्त—६-१

रविवार   २१ सितम्बर, १९५८

फस० २३ भादो १३६५ — शक ३१ भाद्र १८८०
वि० ९ भाद्र शु० २०१५ — पू० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-० — सूर्यास्त—६-०

सोमवार **२२ सितम्बर, १९५८**

फस० २४ भादो १३६५
वि० १० भाद्र शु० २०१५
सूर्योदय——६-१

शक १ आश्विन, १८८०
उ० षा० नक्षत्र
सूर्यास्त——५-५६

मंगलवार **२३ सितम्बर, १९५८**

फस० २५ भादो १३६५
वि० ११ भाद्र शु० २०१५
सूर्योदय——६-१

शक २ आश्विन, १८८०
श्रवण नक्षत्र
सूर्यास्त——५-५६

बुधवार २४ सितम्बर, १९५८

फस० २६ भादो १३६५ शक ३ आश्विन, १८८०
वि० १२ भाद्र, शु० २०१५ धनि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२ सूर्यास्त—५-५८

वृहस्पतिवार २५ सितम्बर, १९५८

फस० २७ भादो १३६५ शक ४ आश्विन, १८८०
वि० १३ भाद्र शु० २०१५ धनि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२ सूर्यास्त—५-५८

शुक्रवार | २६ सितम्बर, १९५८

फस० २८ भादो १३६५ | शक ५ आश्विन, १८८०
वि० १४ भाद्र शु० २०१५ | शत० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३ | सूर्यास्त—५-५७

शनिवार | २७ सितम्बर, १९५८

फस० २९ भादो १३६५ | शक ६ आश्विन, १८८०
वि० भाद्र पूर्णिमा २०१५ | पू० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४ | सूर्यास्त—५-५६

रविवार **२८ सितम्बर, १९५८**

फस० १ कुआर १३६६ — शक ७ आश्विन, १८८०
वि० १ आश्विन कृ० २०१५ — उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४ — सूर्यास्त—५-५६

सोमवार **२९ सितम्बर, १९५८**

फस० २ कुआर १३६६ — शक ८ आश्विन, १८८०
वि० २ आश्विन कृ० २०१५ — रेवती नक्षत्र
सूर्योदय—६-५ — सूर्यास्त—५-५५

२. कालिदास द्वारा
कवित्त द्वारा
३. [illegible] तिवारी द्वारा
४. डा. नगेन्द्र द्वारा उपन्यास ग्रन्थ
५. [illegible] का [illegible]

मंगलवार **३० सितम्बर, १९५८**

फस० ३ कुआर १३६६ शक ९ आश्विन, १८८०
वि० २ आश्विन कृ० २०१५ अश्व० नक्षत्र
सूर्योदय—६-६ सूर्यास्त—५-५४

बुधवार **१ अक्तूबर, १९५८**

फस० ४ कुआर १३६६ शक १० आश्विन, १८८०
वि० ३ आश्विन कृ० २०१५ भरणी नक्षत्र
सूर्योदय—६-७ सूर्यास्त—५-५३

बृहस्पतिवार २ अक्तूबर, १९५८

फस० ५ कुआर १३६६ शक ११ आश्विन, १८८०
वि० ४ आश्विन कृ० २०१५ कृ० नक्षत्र
सूर्योदय—६-७ सूर्यास्त—५-५३

(महात्मा गान्धी का जन्म-दिवस)

शुक्रवार ३ अक्तूबर, १९५८

फस० ६ कुआर १३६६ शक १२ आश्विन, १८८०
वि० ५ आश्विन कृ० २०१५ रोहि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-८ सूर्यास्त—५-५२

शनिवार ४ अक्तूबर, १६५८

फस० ७ कुआर १३६६ शक १३ आश्विन, १८८०
वि० ६ आश्विन कृ० २०१५ मृग० नक्षत्र
सूर्योदय——६-६ सूर्यास्त——५-५१

रविवार ५ अक्तूबर, १६५८

फस० ८ कुआर १३६६ शक १४ आश्विन, १८८०
वि० ७ आश्विन कृ० २०१५ मृग० नक्षत्र
सूर्योदय——६-६ सूर्यास्त——५-५१

बृहस्पतिवार 	२ अक्तूबर, १९५८

फस० ५ कुआर १३६६ 	शक ११ आश्विन, १८८०
वि० ४ आश्विन कृ० २०१५ 	कृ० नक्षत्र
सूर्योदय—६-७ 	सूर्यास्त—५-५३

(महात्मा गान्धी का जन्म-दिवस)

शुक्रवार 	३ अक्तूबर, १९५८

फस० ६ कुआर १३६६ 	शक १२ आश्विन, १८८०
वि० ५ आश्विन कृ० २०१५ 	रोहि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-८ 	सूर्यास्त—५-५२

शनिवार ४ अक्तूबर, १९५८

फस० ७ कुआर १३६६ शक १३ आश्विन, १८८०
वि० ६ आश्विन कृ० २०१५ मृग० नक्षत्र
सूर्योदय—६-९ सूर्यास्त—५-५१

रविवार ५ अक्तूबर, १९५८

फस० ८ कुआर १३६६ शक १४ आश्विन, १८८०
वि० ७ आश्विन कृ० २०१५ मृग० नक्षत्र
सूर्योदय—६-९ सूर्यास्त—५-५१

सोमवार | ६ अक्तूबर, १९५८

फस० ९ कुआर १३६६ — शक १५ आश्विन, १८८०
वि० ८ आश्विन कृ० २०१५ — आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-१० — सूर्यास्त—५-५०

मंगलवार | ७ अक्तूबर, १९५८

फस० १० कुआर १३६६ — शक १६ आश्विन, १८८०
वि० ९ आश्विन कृ० २०१५ — पुनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—६-११ — सूर्यास्त—५-४९

बुधवार ८ अक्तूबर, १९५८

फस० ११ कुआर १३६६ शक १७ आश्विन, १८८०
वि० १० आश्विन कृ० २०१५ पुष्य नक्षत्र
सूर्योदय—६-१२ सूर्यास्त—५-४८

बृहस्पतिवार ९ अक्तूबर, १९५८

फस० १२ कुआर १३६६ शक १८ आश्विन, १८८०
वि० ११ आश्विन कृ० २०१५ श्लेषा नक्षत्र
सूर्योदय—६-१२ सूर्यास्त—५-४८

शुक्रवार १० अक्तूबर, १९५८

फस० १३ कुआर १३६६ शक १९ आश्विन, १८८०
वि० १२ आश्विन कृ० २०१५ पू० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-१३ सूर्यास्त—५-४७

शनिवार ११ अक्तूबर, १९५८

फस० १४ कुआर १३६६ शक २० आश्विन, १८८०
वि० १३ आश्विन कृ० २०१५ उ० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-१४ सूर्यास्त—५-४६

रविवार **१२ अक्तूबर, १९५८**

फस० १५ कुआर १३६६ शक २१ आश्विन, १८८०
वि० आश्विन अमावश्या २०१५ हस्त नक्षत्र
सूर्योदय—६-१५ सूर्यास्त—५-४५

(महालया समाप्तिः)

सोमवार **१३ अक्तूबर, १९५८**

फस० १६ कुआर १३६६ शक २२ आश्विन, १८८०
वि० १ आश्विन शु० २०१५ चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-१५ सूर्यास्त—५-४५

शुक्रवार   १० अक्तूबर, १६५८

फस० १३ कुआर १३६६   शक १६ आश्विन, १८८०
वि० १२ आश्विन कृ० २०१५   पू० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-१३   सूर्यास्त—५-४७

शनिवार   ११ अक्तूबर, १६५८

फस० १४ कुआर १३६६   शक २० आश्विन, १८८०
वि० १३ आश्विन कृ० २०१५   उ० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-१४   सूर्यास्त—५-४६

रविवार **१२ अक्तूबर, १९५८**

फस० १५ कुआर १३६६ शक २१ आश्विन, १८८०
वि० आश्विन अमावश्या २०१५ हस्त नक्षत्र
सूर्योदय—६-१५ सूर्यास्त—५-४५

(महालया समाप्तिः)

सोमवार **१३ अक्तूबर, १९५८**

फस० १६ कुआर १३६६ शक २२ आश्विन, १८८०
वि० १ आश्विन शु० २०१५ चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-१५ सूर्यास्त—५-४५

मंगलवार १४ अक्तूबर, १९५८

फस० १७ कुआर १३६६ शक २३ आश्विन, १८८०
वि० २ आश्विन शु० २०१५ स्वाती नक्षत्र
सूर्योदय—६-१६ सूर्यास्त—५-४४

श्री राम चन्द्र सहाय [illegible] देहली
दूसरा- श्री मनमोहन जी, [illegible] समाज दिल्ली [illegible]

बुधवार १५ अक्तूबर, १९५८

फस० १८ कुआर १३६६ शक २४ आश्विन, १८८०
वि० ३ आश्विन शु० २०१५ विशा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-१७ सूर्यास्त—५-४३

बृहस्पतिवार **१६ अक्तूबर, १६५८**

फस० १६ कुआर १३६६ शक २५ आश्विन, १८८०
वि० ४ आश्विन शु० २०१५ अनुराधा नक्षत्र
सूर्योदय—६-१७ सूर्यास्त—५-४३

शुक्रवार **१७ अक्तूबर, १६५८**

फस० २० कुआर १३६६ शक २६ आश्विन, १८८०
वि० ५ आश्विन शु० २०१५ ज्येष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय—६-१८ सूर्यास्त—५-४२

शनिवार **१८ अक्तूबर, १९५८**

फस० २१ कुआर १३६६ शक २७ आश्विन, १८८०
वि० ६ आश्विन शु० २०१५ मूल नक्षत्र
सूर्योदय—६-१९ सूर्यास्त—५-४१

रविवार **१९ अक्तूबर, १९५८**

फस० २२ कुआर १३६६ शक २८ आश्विन, १८८०
वि० ७ आश्विन शु० २०१५ पू० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२० सूर्यास्त—५-४०

सोमवार २० अक्तूबर, १९५८

फस० २३ कुआर १३६६ शक २९ आश्विन, १८८०
वि० ८ आश्विन शु० २०१५ उ० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२० सूर्यास्त—५-४०

मंगलवार २१ अक्तूबर, १९५८

फस० २४ कुआर १३६६ शक ३० आश्विन, १८८०
वि० ९ आश्विन शु० २०१५ श्रवण नक्षत्र
सूर्योदय—६-२१ सूर्यास्त—५-३९

बुधवार २२ अक्तूबर, १९५८

फस० २५ कुआर १३६६ शक ३१ आश्विन, १८८०
वि० १० आश्विन शु० २०१५ धनि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२२ सूर्यास्त—५-३८

(विजया दशमी)

वृहस्पतिवार २३ अक्तूबर, १९५८

फस० २६ कुआर १३६६ शक १ कार्त्तिक, १८८०
वि० ११ आश्विन शु० २०१५ शत० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२२ सूर्यास्त—५-३८

शुक्रवार २४ अक्तूबर, १९५८

फस० २७ कुआर १३६६ शक २ कार्तिक, १८८०
वि० १२ आश्विन शु० २०१५ पू० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२३ सूर्यास्त—५-३७

शनिवार २५ अक्तूबर, १९५८

फस० २८ कुआर १३६६ शक ३ कार्तिक, १८८०
वि० १३ आश्विन शु० २०१५ उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२४ सूर्यास्त—५-३६

रविवार २६ अक्तूबर, १९५८

फस० २९ कुआर १३६६ शक ४ कार्त्तिक, १८८०
वि० १४ आश्विन शु० २०१५ रेवती नक्षत्र
सूर्योदय—६-२४ सूर्यास्त—५-३६

सोमवार २७ अक्तूबर, १९५८

फस० ३० कुआर १३६६ शक ५ कार्त्तिक, १८८०
वि० आश्विन पूर्णिमा २०१५ अश्व० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२५ सूर्यास्त—५-३५

(शारदीय पूर्णिमा)

फस० १ कार्त्तिक १३६६ शक ६ कार्त्तिक, १८८०
वि० १ कार्त्तिक कृ० २०१५ भरणी नक्षत्र
सूर्योदय—६-२६ सूर्यास्त—५-३४

बुधवार २९ अक्तूबर, १९५८

फस० २ कार्त्तिक १३६६ शक ७ कार्त्तिक, १८८०
वि० २ कार्त्तिक कृ० २०१५ कृ० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२६ सूर्यास्त—५-३४

बृहस्पतिवार — ३० अक्तूबर, १९५८

फस० ३ कार्त्तिक १३६६ — शक ८ कार्त्तिक, १८८०
वि० ३ कार्त्तिक कृ० २०१५ — कृ० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२७ — सूर्यास्त—५-३३

शुक्रवार — ३१ अक्तूबर, १९५८

फस० ४ कार्त्तिक १३६६ — शक ९ कार्त्तिक, १८८०
वि० ४ कार्त्तिक कृ० २०१५ — रोहि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२८ — सूर्यास्त—५-३२

शनिवार **१ नवम्बर, १९५८**

फस० ५ कार्त्तिक १३६६ शक १० कार्त्तिक, १८८०
वि० ५ कार्त्तिक कृ० २०१५ मृग० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२८ सूर्यास्त—५-३२

पटना से गया.
५ बजे की गाड़ी से प्रस्थान
टिकट - पटना - गया - ११३० / १-११-५८
मील - ५६
६. ६० क्या पैसा | महाजनजी
[illegible] चले गये |
[illegible] [illegible] चन्दवाड़ा में [illegible]

रविवार **२ नवम्बर, १९५८**

फस० ६ कार्त्तिक १३६६ शक ११ कार्त्तिक, १८८०
वि० ५ कार्त्तिक कृ० २०१५ आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-२९ सूर्यास्त—५-३१

गया,
[illegible]

फस० ७ कार्तिक १३६६ शक १२ कार्तिक, १८८०
वि० ६ कार्तिक कृ० २०१५ पुनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—६-२९ सूर्यास्त—५-३१

मंगलवार ४ नवम्बर, १९५८

फस० ८ कार्तिक १३६६ शक १३ कार्तिक, १८८०
वि० ७ कार्तिक कृ० २०१५ पुष्य नक्षत्र
सूर्योदय—६-३० सूर्यास्त—५-३०

बुधवार ५ नवम्बर, १९५८

फस० ९ कार्तिक १३६६ शक १४ कार्तिक, १८८०
वि० ८ कार्तिक कृ० २०१५ श्लेषा नक्षत्र
सूर्योदय—६-३१ सूर्यास्त—५-२९

बृहस्पतिवार ६ नवम्बर, १९५८

फस० १० कार्तिक १३६६ शक १५ कार्तिक, १८८०
वि० १० कार्तिक कृ० २०१५ माघा नक्षत्र
सूर्योदय—६-३१ सूर्यास्त—५-२९

शुक्रवार ७ नवम्बर, १९५८

फस० ११ कार्त्तिक १३६६ शक १६ कार्त्तिक, १८८०
वि० ११ कार्त्तिक कृ० २०१५ पू० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३१ सूर्यास्त—५-२९

शनिवार ८ नवम्बर, १९५८

फस० १२ कार्त्तिक १३६६ शक १७ कार्त्तिक, १८८०
वि० १२ कार्त्तिक कृ० २०१५ उ० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३२ सूर्यास्त—५-२८

रविवार ९ नवम्बर, १९५८

फस० १३ कार्त्तिक १३६६ शक १८ कार्त्तिक, १८८०
वि० १३ कार्त्तिक कृ० २०१५ हस्त नक्षत्र
सूर्योदय—६-३३ सूर्यास्त—५-२७

सोमवार १० नवम्बर, १९५८

फस० १४ कार्त्तिक १३६६ शक १९ कार्त्तिक, १८८०
वि० १४ कार्त्तिक कृ० २०१५ चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-३४ सूर्यास्त—५-२६

(दीपावली)

मंगलवार ११ नवम्ब, १९५८

फस० १५ कार्त्तिक १३६६ शक २० कार्त्तिक, १८८०
वि० कार्त्तिक अमावश्या २०१५ विशा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३४ सूर्यास्त—५-२६

बुधवार १२ नवम्बर, १९५८

फस० १६ कार्त्तिक १३६६ शक २१ कार्त्तिक, १८८०
वि० १ कार्त्तिक शु० २०१५ अनुराधा नक्षत्र
सूर्योदय—६-३५ सूर्यास्त—५-२५

(दावात पूजा)

वृहस्पतिवार **१३ नवम्बर, १९५८**

फस० १७ कार्त्तिक १३६६ शक २२ कार्त्तिक, १८८०
वि० ३ कार्त्तिक शु० २०१५ ज्येष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय—६-३६ सूर्यास्त—५-२४

शुक्रवार **१४ नवम्बर, १९५८**

फस० १८ कार्त्तिक १३६६ शक २३ कार्त्तिक, १८८०
वि० ४ कार्त्तिक शु० २०१५ मूल नक्षत्र
सूर्योदय—६-३६ सूर्यास्त—५-२४

शनिवार

१५ नवम्बर, १९५८

फस० १९ कार्त्तिक १३६६ — शक २४ कार्त्तिक, १८८०

वि० ५ कार्त्तिक शु० २०१५ — पू० षा० नक्षत्र

सूर्योदय—६-३७ — सूर्यास्त—५-२३

(सूर्यषष्टी व्रतारम्भः)

रविवार

१६ नवम्बर, १९५८

फस० २० कार्त्तिक १३६६ — शक २५ कार्त्तिक, १८८०

वि० ६ कार्त्तिक शु० २०१५ — उ० षा० नक्षत्र

सूर्योदय—६-३७ — सूर्यास्त—५-२३

(सूर्यषष्टी व्रतम)

सोमवार **१७ नवम्बर, १९५८**

फस० २१ कार्त्तिक १३६६ शक २६ कार्त्तिक, १८८०
वि० ७ कार्त्तिक शु० २०१५ श्रवण नक्षत्र
सूर्योदय—६-३८ सूर्यास्त—५-२२

मंगलवार **१८ नवम्बर, १९५८**

फस० २२ कार्त्तिक १३६६ शक २७ कार्त्तिक, १८८०
वि० ८ कार्त्तिक शु० २०१५ धनिष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय—६-३८ सूर्यास्त—५-२२

बुधवार १९ नवम्बर, १९५८

फस० २३ कार्त्तिक १३६६ शक २८ कार्त्तिक, १८८०
वि० ९ कार्त्तिक शु० २०१५ शत० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३९ सूर्यास्त—५-२१

(अक्षया नवमी)

बृहस्पतिवार २० नवम्बर, १९५८

फस० २४ कार्त्तिक १३६६ शक २९ कार्त्तिक, १८८०
वि० १० कार्त्तिक शु० २०१५ पु० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-३९ सूर्यास्त—५-२१

शुक्रवार **२१ नवम्बर, १९५८**

फस० २५ कार्त्तिक १३६६ शक ३० कार्त्तिक, १८८०
वि० ११ कार्त्तिक शु० २०१५ उ० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४० सूर्यास्त—५-२०

शनिवार **२२ नवम्बर, १९५८**

फस० २६ कार्त्तिक १३६६ शक १ अग्रहण, १८८०
वि० १२ कार्त्तिक शु० २०१५ रेवती नक्षत्र
सूर्योदय—६-४० सूर्यास्त—५-२०

रविवार **२३ नवम्बर, १९५८**

फस० २७ कार्त्तिक १३६६ शक २ अग्रहण, १८८०
वि० १२ कार्त्तिक शु० २०१५ अस्वि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४१ सूर्यास्त—५-१९

सोमवार **२४ नवम्बर, १९५८**

फस० २८ कार्त्तिक १३६६ शक ३ अग्रहण, १८८०
वि० १३ कार्त्तिक शु० २०१५ अस्वि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४१ सूर्यास्त—५-१९

मंगलवार | २५ नवम्बर, १९५८

फस० २९ कार्त्तिक १३६६ | शक ४ अग्रहण १८८०

वि० १४ कार्त्तिक शु० २०१५ | भरणी नक्षत्र

सूर्योदय—६-४१ | सूर्यास्त—५-१९

बुधवार | २६ नवम्बर, १९५८

फस० ३० कार्त्तिक १३६६ | शक ५ अग्रहण, १८८०

वि० कार्त्तिक पूर्णिमा २०१५ | कृ० नक्षत्र

सूर्योदय—६-४२ | सूर्यास्त—५-१८

(हरिहर क्षेत्र स्नान)

बृहस्पतिवार २७ नवम्बर, १९५८

फस० १ अगहन १३६६ शक ६ अग्रहण, १८८०
वि० १ अग्रहण कृ० २०१५ रोहि० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४२ सूर्यास्त—५-१८

शुक्रवार २८ नवम्बर, १९५८

फस० २ अगहन १३६६ शक ७ अग्रहण, १८८०
वि० २ अग्रहण कृ० २०१५ मृग० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४२ सूर्यास्त—५-१८

शनिवार २९ नवम्बर, १९५८

फस० ३ अगहन १३६६ शक ८ अग्रहण, १८८०
वि० ३ अग्रहण कृ० २०१५ आर्द्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-४३ सूर्यास्त—५-१७

रविवार ३० नवम्बर, १९५८

फस ४ अगहन १३६६ शक ९ अग्रहण, १८८०
वि० ४ अग्रहण कृ० २०१५ पुनर्व० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४३ सूर्यास्त—५-१७

सोमवार **१ दिसम्बर, १६५८**

फस० ५ अगहन १३६६ शक १० अग्रहण १८८०
वि० ५ अग्रहण कृ० २०१५ पुष नक्षत्र
सूर्योदय—६-४४ सूर्यास्त—५-१६

मंगलवार **२ दिसम्बर, १६५८**

फस० ६ अगहन १३६६ शक ११ अग्रहण १८८०
वि० ६ अग्रहण कृ० २०१५ श्लेषा नक्षत्र
सूर्योदय—६-४४ सूर्यास्त—५-१६

पल्लव (कवी -- पंत
(त्रिवेणी - [illegible]

बुधवार ३ दिसम्बर, १९५८

फस० ७ अगहन १३६६ शक १२ अग्रहण १८८०
वि० ७ अग्रहण कृ० २०१५ माघा नक्षत्र
सूर्योदय—६-४४ सूर्यास्त—५-१६

वृहस्पतिवार ४ दिसम्बर, १९५८

फस० ८ अगहन १३६६ शक १३ अग्रहण १८८०
वि० ८ अग्रहण कृ० २०१५ पू० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४५ सूर्यास्त—५-१५

शुक्रवार ५ दिसम्बर, १९५८

फस० ९ अगहन १३६६ शक १४ अग्रहण १८८०
वि० ९ अग्रहण कृ० २०१५ उ० फा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४५ सूर्यास्त—५-१५

शनिवार ६ दिसम्बर, १९५८

फस० १० अगहन १३६६ शक १५ अग्रहण १८८०
वि० १० अग्रहण कृ० २०१५ हस्त नक्षत्र
सूर्योदय—६-४५ सूर्यास्त—५-१५

रविवार ७ दिसम्बर, १९५८

फस० ११ अगहन १३६६ शक १६ अग्रहण १८८०
वि० ११ अग्रहण कृ० २०१५ चित्रा नक्षत्र
सूर्योदय—६-४६ सूर्यास्त—५-१४

सोमवार ८ दिसम्बर, १९५८

फस० १२ अगहन १३६६ शक १७ अग्रहण १८८०
वि० १२ अग्रहण कृ० २०१५ स्वाती नक्षत्र
सूर्योदय—६-४६ सूर्यास्त—५-१४

मंगलवार ९ दिसम्बर, १९५८

फस० १३ अगहन १३६६ शक १८ अग्रहण १८८०
वि० १४ अग्रहण कृ० २०१५ विशा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४६ सूर्यास्त—५-१४

[illegible]

बुधवार १० दिसम्बर, १९५८

फस० १४ अगहन १३६६ शक १९ अग्रहण १८८०
वि० अग्रहण अमावश्या २०१५ अनुराधा नक्षत्र
सूर्योदय—६-४६ सूर्यास्त—५-१४

वृहस्पतिवार **११ दिसम्बर, १९५८**

फस० १५ अगहन १३६६ शक २० अग्रहण १८८०
वि० १ अग्रहण शु० २०१५ ज्येष्ठा नक्षत्र
सूर्योदय—६-४६ सूर्यास्त—५-१४

शुक्रवार **१२ दिसम्बर, १९५८**

फस० १६ अगहन १३६६ शक २१ अग्रहण १८८०
वि० २ अग्रहण शु० २०१५ पू० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४७ सूर्यास्त—५-१३

शनिवार १३ दिसम्बर, १९५८

फस० १७ अगहन १३६६ शाक २२ अग्रहण १८८०
वि० ३ अग्रहण शु० २०१५ उ० षा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४७ सूर्यास्त—५-१३

रविवार १४ दिसम्बर, १९५८

फस० १८ अगहन १३६६ शाक २३ अग्रहण १८८०
वि० ४ अग्रहण शु० २०१५ श्रवणा नक्षत्र
सूर्योदय—६-४७ सूर्यास्त—५-१३

सोमवार १५ दिसम्बर, १९५८

फस० १९ अगहन १३६६ शक २४ अग्रहण १८८०

वि० ५ अग्रहण शु० २०१५ धनि० नक्षत्र

सूर्योदय—६-४७ सूर्यास्त—५-१३

(श्री राम विवाह दिनम)

मंगलवार १६ दिसम्बर, १९५८

फस० २० अगहन १३६६ शक २५ अग्रहण १८८०

वि० ६ अग्रहण शु० २०१५ शत० नक्षत्र

सूर्योदय—६-४७ सूर्यास्त—५-१३

बुधवार 17 दिसम्बर, 1958

फस० २१ अगहन १३६६ शक २६ अग्रहण १८८०
वि० ७ अग्रहण शु० २०१५ पु० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४७ सूर्यास्त—५-१३

वृहस्पतिवार १८ दिसम्बर, १९५८

फस० २२ अगहन १३६६ शक २७ अग्रहण १८८०
वि० ८ अग्रहण शु० २०१५ पु० भा० नक्षत्र
सूर्योदय—६-४७ सूर्यास्त—५-१३

हावड़ा का उत्

शनिवार

फस० २४ अगहन १३६
वि० १० अग्रहण शु० २
सूर्योदय—६-४७

हावड़ा का उ